



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 12—फरवरी 18, 2011 (माघ 23, 1932)  
No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 12—FEBRUARY 18, 2011 (MAGHA 23, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 2011

रक्षा (एमएस)/अनुभाग

सं. 52, दिनांक 17 जनवरी 2011—भारत की राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 दिसम्बर 2010 से निम्नलिखित नियुक्ति करती हैं:—

अवैतनिक वायु सेना एडीसी

एयर मार्शल एन ए के ब्राउन, प वि से मै, अ वि से मै, वा मै, (13129),  
एफ (पी)

अवैतनिक थल सेना एडीसी (इन्फैन्ट्री)

(आईसी-24584) लेफ्टि जनरल बीएस जसवाल, प वि से मै, अ वि से मै बार, वि से मै

(आईसी-24178) लेफ्टि जनरल पी सी भारद्वाज, प वि से मै, अ वि से मै वीर चक्र, शौर्य चक्र, वि से मै (सेवानिवृत्त) के स्थान पर।

अवैतनिक थलसेना एडीसी (आर्टी, एएडी)

(आईसी-32844) लेफ्टि जनरल राम प्रताप, अ वि से मै, वि से मै (एएडी)

(आईसी-24198) लेफ्टि जनरल सी के एस साबू, प वि से मै, अ वि से मै, वि से मै (आर्टी) (सेवानिवृत्त) के स्थान पर।

अवैतनिक थल सेना एडीसी (एएससी/एओसी/ईएमई)

(आईसी-27767) लेफ्टि जनरल प्रदीप भल्ला, वि से मै, (एओसी)

(आईसी-24219) लेफ्टि जनरल ए के एस चन्देले, प वि से मै, अ वि से मै, ईएम ई (सेवानिवृत्त) के स्थान पर।

भारत के राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 जनवरी 2011 से निम्नलिखित नियुक्ति करती हैं:—

अवैतनिक थल सेना एडीसी : इन्फैन्ट्री

(आईसी-25434) लेफ्टि जनरल एस आर घोष, अ वि से मै, से मै

(आईसी-24260) लेफ्टि जनरल बी एस नागल, प वि से मै, अ वि से मै, से मै सेवा निवृत्त के स्थान पर।

अवैतनिक वायु सेना एडीसी

एयर मार्शल जी एस कोचर, अ वि से मै, वा मै, (13149) एफ (पी)

एयर मार्शल एस मुकजी, शौर्य चक्र, वि से मै, (12925) एफ (पी)

आर सुन्दर  
अवर सचिव

## सेना शाखा

## मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

सं. 53, दिनांक 17 जनवरी 2011--राष्ट्रपति, स से मु सिविल सेवा नियमावली, 2001 के नियम 7(8) के अंतर्गत निम्नलिखित स्थानापन्न उप निदेशकों की उनके नाम के सामने लिखी तारीख से दी गई अवधि तक अथवा सेवानिवृत्ति अथवा नियमित पदधारी मिलने तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति की अवधि बढ़ाते हैं :--

नाम, जन्म तिथि और नियुक्ति

अबिनाश कुमार, 16 नवम्बर 1965, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

अनुपम मिश्रा, 29 जुलाई 1967, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

अरविंद, 17 जून 1969, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

अरविंद बख्शी 21 सितम्बर 1957, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

सी पी गुप्तिया, 03 जनवरी 1964, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

दीपक खोसला, 13 जून 1967, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

के एन मिश्रा, 17 जुलाई 1954, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

एम चन्द्रशेखर, 17 जुलाई 1969, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

निधि ओझा, 26 सितम्बर 1972, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

निशी श्रीवास्तव, 08 नवम्बर 1966, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

निर्मल वाधवा, 23 जून 1958, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

प्रज्ञा शांतनु, 06 जून 1969, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

राजेश तिवारी, 30 जून 1961, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

एस सी पुजारी, 26 जनवरी 1955, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

शिवराम बैरवा, 11 सितम्बर 1965, 01 जनवरी 2010 से 01 फरवरी 2010 तक

एस के मिश्रा, 25 जनवरी 1962, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

यह नियुक्ति पूर्ण रूप से कामचलाऊ आधार पर की गई है और प्रशासनिक कारणों से अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर बिना कोई सूचना दिए समाप्त की जा सकती है।

स से मु सी एस आर 2001 के नियम 7(8) के अंतर्गत प्रदान की गई पदोन्नति के आधार पर नियमित पदोन्नति/नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा।

सक्षम प्राधिकारी स से मु सिविल सेवा नियम, 2001 के नियम 7(8) के अंतर्गत निम्नलिखित स्थानापन्न अनुभाग अधिकारियों की उनके नाम के सामने लिखी तारीख से दी गई अवधि तक अथवा सेवानिवृत्ति तक अथवा नियमित पदधारी मिलने तक, जो भी पहले हो नियुक्ति की अवधि बढ़ाते हैं:--

नाम, जन्म तिथि और अवधि

गुलशन राय, 30 अक्टूबर 1968, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

ए के एल दास, 26 जनवरी 1966, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

देशराज, 05 अक्टूबर 1955, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

दीपक कुमार दास, 01 अगस्त 1966, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

एस के मेलकानी, 20 मई 1967, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

देवी दयाल, 14 मई 1953, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

रमिन्दर सिंह, 29 मई 1969, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

आशिष राय, 07 जुलाई 1969, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

आर के तलवार, 25 दिसम्बर 1951, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

के एन चतुर्वेदी, 07 मार्च 1950, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

पंकज भारती, 09 जुलाई 1971, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

राम निवास, 14 मई 1951, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

सतीश कुमार, 05 जुलाई 1950, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

बिनोदा नंद झा, 10 अक्टूबर 1968, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

शिव कुमार, 23 फरवरी 1971, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

आर सी साहू, 13 जून 1973, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

अशोक कुमार, 02 जुलाई 1969, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

सुशील कुमार, 20 अगस्त 1950, 01 जनवरी 2010 से 31 अगस्त 2010 तक

सजन लाल, 05 अक्टूबर 1973, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

बी डी प्रसाद, 06 दिसम्बर 1951, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

एम सी वशिष्ठ, 28 अप्रैल 1954, 01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक

आर पी सिंह, 07 जनवरी 1951, 27 मई 2010 से 26 नवम्बर 2010 तक

यह नियुक्ति पूर्ण रूप से कामचलाऊ आधार पर की गई है और प्रशासनिक कारणों से अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर बिना कोई सूचना दिए समाप्त की जा सकती है।

स से मु सी एस आर 2001 के नियम 7(8) के अंतर्गत प्रदान की गई पदोन्नति के आधार पर नियमित पदोन्नति/नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा। इस ग्रेड में उनकी वरिष्ठता उनकी नियमित नियुक्ति अर्थात् सहायक के लिए गिनी जाएगी।

ए के लारोइया  
उप मुप्रअ (प्रशा)

सेना शाखा

सं. 54, दिनांक 17 जनवरी 2011--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

नियमित सेना

स्थाई आयोग

लेफ्टि के पद पर दिनांक 12 जून 2010

निम्नलिखित 126 नियमित पाठ्यक्रम (126 डाईरेक्ट एन्टी, 116 एनडीए, 93 एसीसी) के कैंडिडेटों को सशस्त्र सेना में लेफ्टि के पद पर दिनांक 12 जून 2010 से स्थाई रूप से सेना निदेश ए/एस/74 (डाईरेक्ट एन्टी), सेना निदेशक 53/78 को विसेनि/एस/74 को साथ पढ़ा जाये (एनडीए), सेना निदेशक 55/74 (एसीसी) के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है:--

(आईसी-72199एच) सुमीत एस लहाने, एसी

(आईसी-72200एम) गौरव हृदय, इन्फैन्ट्री

(आईसी-72201पी) योगेन्द्र कठायत, इन्फैन्ट्री

(आईसी-72202एक्स) तुल बहादुर गुरूंग, इन्फैन्ट्री

(आईसी-72203ए) वैभव कुमार मिश्रा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-72204एच) रोहित सलारिया, इन्फैन्ट्री

(आईसी-72206एन) अनुज शर्मा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-72207डब्ल्यू) अजय धानिक, इंजीनियर्स

(आईसी-72208वाई) प्रभात सिंह राणा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-72209एफ) सन्नी गुरूंग, इन्फैन्ट्री

(आईसी-72210 डब्ल्यू) रुद्रकुमार चन्द्रशेखर सूलिकेरि, आर्टी

(आईसी-72211वाई) अभिषेक कुमार, सिग्नल्स

(आईसी-72212एफ) विकास यादव, एएससी

(आईसी-72213के) रामप्रीत सिंह, इन्फैन्ट्री

(आईसी-72214एम) अविनाश साहनी, इन्फैन्ट्री

(आईसी-72215पी) सिद्धार्थ मिश्रा, आर्टी

(आईसी-72216एक्स) विकास, एएडी

(आईसी-72217ए) सौरभ त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री

(आईसी-72218एच) परमजीत जाखड, इन्फैन्ट्री

(आईसी-72219एल) सुजय संतोष कुमार घोरपडे, आर्टी

(आईसी-72220ए) सेतु विकास, आर्टी

(आईसी-72221एच) काले मानस मधुकर, इन्फैन्ट्री

(आईसी-72222एल) विजेश कुमार, इन्फैन्ट्री

(आईसी-72223एन) रविन्द्र सिंह, ईएमई

(आईसी-72224डब्ल्यू) गिरिश कुमार बी वी, मैक

(आईसी-72225वाई) विवेक सुभाष कालुखे, एसी

(आईसी-72226एफ) गरजिन्दर सिंह, आर्टी

(आईसी-72227के) अंशुमन गैरोला, इन्फैन्ट्री

(आईसी-72228एम) चित्रे वैभव प्रकाश, एओसी

(आईसी-72229पी) कार्तिकेय मनराल, इन्फैन्ट्री

(आईसी-72230के) प्रियंक पुरी, आर्टी

(आईसी-72231एम) अशोक ज़ाखड, इन्फैन्ट्री

(आईसी-72232पी) शिंदे श्रीकांत पन्नधारिनाथ, एविएशन

(आईसी-72233एक्स) अंकित मिश्रा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-72234ए) बी सरवनन, इन्फैन्ट्री

(आईसी-72235एच) माधव बसवराज इलिंगेर, आर्टी  
 (आईसी-72236एल) मनीष कुमार राय, आर्टी  
 (आईसी-72237एन) अभय शर्मा, आर्टी  
 (आईसी-72238डब्ल्यू) रवि प्रकाश सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72239वाई) पालूगुल्ला मस्तानरेड्डी, इंटर  
 (आईसी-72240एन) अनादि ज्योति सिंह, आर्टी  
 (आईसी-72241डब्ल्यू) रोबिन ठाकुर, आर्टी  
 (आईसी-72242वाई) पुष्कर बासु, आर्टी  
 (आईसी-72243एफ) शकील अहमद, आर्टी  
 (आईसी-72244के) स्नेहित निरंजन गावंडे, एएडी  
 (आईसी-72245एम) पुजम मनहास, एओसी  
 (आईसी-72246पी) प्रवीन कुमार सिंह, आर्टी  
 (आईसी-72247एक्स) लामा विकास, एएससी  
 (आईसी-72248ए) नितिन गौतम, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72249एच) मनीत कुमार पंत, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72250एक्स) तेजस भरत देशपांडे, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72251ए) मखाला श्रवण कुमार, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72252एच) नितिन धानिया, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72253एल) नवीन शिरोडकर, ईएमई  
 (आईसी-72254एन) अजय सिंह पठानिया, एएससी  
 (आईसी-72255डब्ल्यू) विनीत कुमार, आर्टी  
 (आईसी-72256वाई) बरीदे तन्मय मुकुंद, एसी  
 (आईसी-72257एफ) श्रीराम भामू, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72258के) अवनीत कुमार, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72259एम) नीरज कुमार दुबे, एओसी  
 (आईसी-72260एफ) हेमंत दत्ता, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72261के) राज सिंह, आर्टी  
 (आईसी-72263पी) मयेकर समीर सुरेश, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72264एक्स) ब्रिजेश कुमार, एएससी  
 (आईसी-72265ए) गौरव दहिया, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72266एच) दीपक दलाल, इंजीनियर्स  
 (आईसी-72267एल) शरद सागर जोशी, आर्टी

(आईसी-72268एन) अविनाश कुमार, आर्टी  
 (आईसी-72269डब्ल्यू) रजत गौड़, सिग्नल्स  
 (आईसी-72270एल) गिरीश चन्द्र जोशी, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72271एन) रंजीत सिंह, एएडी  
 (आईसी-72272डब्ल्यू) प्रीतम प्रियदर्शी, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72273वाई) अभिषेक शर्मा, एएससी  
 (आईसी-72274एफ) आलोक कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72275के) पलविन्दर सिंह, एएससी  
 (आईसी-72276एम) धीरेन्द्र प्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72277पी) सुशांत राय, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72278एक्स) शिखर त्यागी, आर्टी  
 (आईसी-72279ए) सौरभ, आर्टी  
 (आईसी-72280पी) निखिल झा, इंजीनियर्स  
 (आईसी-72281एक्स) अभिजीत सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72282ए) नवजोत सिंह, आर्टी  
 (आईसी-72283एच) संगमेश शिवबसप्पा मोल, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72284एल) निश्चल भारद्वाज, एओसी  
 (आईसी-72285एन) शर्मा बलजीत जगन्नाथ, आर्टी  
 (आईसी-72286डब्ल्यू) गौरव तिवारी, एसी  
 (आईसी-72287वाई) विरेन्द्रपाल सिंह देबड़ा, आर्टी  
 (आईसी-72288एफ) अलियार ए, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72289के) विपिन बैस, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72290वाई) राकेश सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72291एफ) अनुभव शर्मा, आर्टी  
 (आईसी-72292के) अंकित सिंह, एसी  
 (आईसी-72293एम) अम्बेश भास्कर, मैक  
 (आईसी-72294पी) रोहित कुमार, आर्टी  
 (आईसी-72295एक्स) स्नेह कुमार, आर्टी  
 (आईसी-72296ए) आतिश शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72297एच) ताजवीर कादयान, एओसी  
 (आईसी-72298एल) अनमोल कुमार, ईएमई  
 (आईसी-72299एन) राहुल वर्मा, मैक



(आईसी-72300एक्स) पवन भारद्वाज, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72301ए) सुयोग गोवरधन खंडलकर, आर्टी  
 (आईसी-72302एच) सांवत रौनक सुशील, एसी  
 (आईसी-72303एल) रनदीप सिंह रनधावा, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72304एन) संदीप सिंह, आर्टी  
 (आईसी-72305डब्ल्यू) निखिलेश कुमार साहु, आर्टी  
 (आईसी-72306वाई) साहिल दुआ, ईएमई  
 (आईसी-72307एफ) वी राहुल सक्सेना, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72308के) पवन कुमार दुबे, इंजीनियर्स  
 (आईसी-72309एम) करन खन्ना, आर्टी  
 (आईसी-72310एफ) राजीव रंजन राय, एएससी  
 (आईसी-72311के) अमन लाम्बा, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72312एम) सागर बस्तिया, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72313पी) रोहन सिंह रावत, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72314एक्स) सौरभ सिद्धार्थ, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72315ए) महावीर प्रसाद, एविएशन  
 (आईसी-72316एच) अर्णव आनंद सान्याल, आर्टी  
 (आईसी-72318एन) दिलीप कुमार सनपल, मैक  
 (आईसी-72319डब्ल्यू) राघवेन्द्र सिंह राठोड़, एएडी  
 (आईसी-72321एन) ध्रुव वशिष्ठ, एएससी  
 (आईसी-72322डब्ल्यू) अभिषेक शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72323वाई) निखिल तेवतिया, आर्टी  
 (आईसी-72324एफ) दीपक सिंह मेहता, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72325के) अंकित ठाकुर, आर्टी  
 (आईसी-72326एम) तुषार महाजन, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72327पी) कुणाल शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72328एक्स) बलपल विद्यासागर राव, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72329ए) वासुदेव दामोदर आवारी, आर्टी  
 (आईसी-72331एक्स) अनुराग द्विवेदी, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72332ए) अमित एस भारद्वाज, एओसी  
 (आईसी-72333एच) हरीश ठाकुर, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72334एल) गौरव कुमार थपलियाल, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72335एन) संदीप कुमार जाखड़, एओसी

(आईसी-72336डब्ल्यू) विनु बी एस, इंजीनियर्स  
 (आईसी-72337वाई) संतोष कुमार पाण्डेय, मैक  
 (आईसी-72338एफ) बसंत कुमार विश्वकर्मा, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72339के) विनोद चन्द्र नोकी, एसी  
 (आईसी-72340वाई) देवाँशु पालीवाल, आर्टी  
 (आईसी-72341एफ) वेद प्रकाश, एएडी  
 (आईसी-72342के) रोहित कुमार सिंह, आर्टी  
 (आईसी-72343एम) अनुपम प्रजापति, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72344पी) अन्वित कुमार झा, ईएमई  
 (आईसी-72345एक्स) तोशीकाबा, इंटर  
 (आईसी-72346ए) कुमार ऋषभ, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72347एच) अमित सिंह तोमर, एसी  
 (आईसी-72348एल) आशुतोष कुमार, सिग्नल्स  
 (आईसी-72349एन) विनोद धनखड, आर्टी  
 (आईसी-72350एच) अहमद पाशा, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72351एल) कुलदीप सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72352एन) दीपक कुमार सिंह, आर्टी  
 (आईसी-72353डब्ल्यू) अमित कुमार सिंह, आर्टी  
 (आईसी-72354वाई) मंगेश्वर सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72355एफ) दिनेश खंडेराव कांबले, एएससी  
 (आईसी-72356के) अरूण भारद्वाज, आर्टी  
 (आईसी-72357एम) नीरज परमार, इंजीनियर्स  
 (आईसी-72358पी) सुशील बिष्ट, आर्टी  
 (आईसी-72359एक्स) सन्दीप कुमार, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72360एम) रणधार्श्वर सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72361पी) आमोद कुमार, एएससी  
 (आईसी-72362एक्स) विकास पंधाल, एसी  
 (आईसी-72363ए) सुमित कुमार महाता, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72364एच) तापेश चोस, एएससी  
 (आईसी-72365एल) कवि कश्यप मिथिलाजी, एएडी  
 (आईसी-72366एन) राज कमल, आर्टी  
 (आईसी-72367डब्ल्यू) मोहित सिंह, आर्टी  
 (आईसी-72368वाई) नन्हा दुर्गेश, आर्टी

(आईसी-72369एफ) अंशुल कुमार यादव, इन्फैन्ट्री	(आईसी-72403डब्ल्यू) सिद्धार्थ सिन्हा, इन्फैन्ट्री
(आईसी-72370डब्ल्यू) लिजु आर, इन्फैन्ट्री	(आईसी-72404वाई) राधाकृष्णन पी, इन्फैन्ट्री
(आईसी-72371वाई) अरूण कुमार पाण्डे, इन्फैन्ट्री	(आईसी-72405एफ) सुमीत लुहाच, इन्फैन्ट्री
(आईसी-72372एफ) सोनुप कुमार त्रिपाठी, आर्टी	(आईसी-72406के) सिद्धार्थ सांमत, आर्टी
(आईसी-72373के) ब्रेश सिंह, एसी	(आईसी-72407एम) रोहिन आनंद, आर्टी
(आईसी-72374एम) संजेश ख्यालिदा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-72408पी) झितिज खरे, आर्टी
(आईसी-72375पी) रंजित आर, ईएमई	(आईसी-72409एक्स) कृष्णा सिंह, इन्फैन्ट्री
(आईसी-72376एक्स) मो. राजा हुसैन आजाद, एएससी	(आईसी-72410एम) देवश सिंह, इन्फैन्ट्री
(आईसी-72377ए) सत्य जीत, एओसी	(आईसी-72411पी) मंयक भारद्वाज, एओसी
(आईसी-72378एच) धर्मेन्द्र पाण्डेय, ईएमई	(आईसी-72412एक्स) पंकज चन्द ठाकुर, इंजीनियर्स
(आईसी-72379एल) सचिन कुमार अग्रवाल, इन्फैन्ट्री	(आईसी-72413ए) प्रियदर्शी, एएडी
(आईसी-72380ए) प्रितम कुमार, इंजीनियर्स	(आईसी-72414एच) निखिल प्रगाल, आर्टी
(आईसी-72381एच) युद्धविर सिंह ताखर, आर्टी	(आईसी-72415एल) अमित कुमार यादव, इन्फैन्ट्री
(आईसी-72382एल) चन्दन सिंह, इन्फैन्ट्री	(आईसी-72416एन) नवीन कुमार बोहरा, आर्टी
(आईसी-72383एन) राकेश सिंह, इन्फैन्ट्री	(आईसी-72417डब्ल्यू) अभिषेक कुमार, इन्फैन्ट्री
(आईसी-72384डब्ल्यू) आनंद स्वरूप, मैक	(आईसी-72418वाई) चंद्र शेखर, ईएमई
(आईसी-72385वाई) नरेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री	(आईसी-72419एफ) महावीर सिंह, इन्फैन्ट्री
(आईसी-72386एफ) अमरेश, एओसी	(आईसी-72420डब्ल्यू) हरीश गर्ग, आर्टी
(आईसी-72387के) अमर कान्त शर्मा, आर्टी	(आईसी-72421वाई) जयवीर सिंह, एविएशन
(आईसी-72388एम) अभिनव भारद्वाज, इन्फैन्ट्री	(आईसी-72422एफ) दिलबाग सिंह, आर्टी
(आईसी-72389पी) मेहताब सिंह खयाना, इन्फैन्ट्री	(आईसी-72423के) विपिन पी मेनन, एएडी
(आईसी-72390के) प्रवीण कुमार, इन्फैन्ट्री	(आईसी-72424एम) सतीश कुमार आर, इंजीनियर्स
(आईसी-72391एम) अनुज कुमार, इन्फैन्ट्री	(आईसी-72425पी) अंकुर चौधरी, इन्फैन्ट्री
(आईसी-72392पी) आदित्य सिन्हा, एएससी	(आईसी-72426एक्स) सुरेश भट्ट, आर्टी
(आईसी-72393एक्स) अमित थापा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-72427ए) रोहित शर्मा, इन्फैन्ट्री
(आईसी-72394ए) उमेश श्रीवास्तव, आर्टी	(आईसी-72428एच) दिव्यदर्शन, एएससी
(आईसी-72395एच) करूणाकर उपाध्याय, आर्टी	(आईसी-72429एल) अजय कुमार, एसी
(आईसी-72396एल) राहुल मलिक, एएससी	(आईसी-72430ए) सोमवीर सिंह, आर्टी
(आईसी-72397एन) रोहन नान्दल, एओसी	(आईसी-72431एच) पंज देव सिंह, इन्फैन्ट्री
(आईसी-72398डब्ल्यू) एस बालासुब्रमणियन, इन्फैन्ट्री	(आईसी-72432एल) प्रियंक उपाध्याय, इन्फैन्ट्री
(आईसी-72400एच) अजय पाल सिंह मान, एसी	(आईसी-72433एन) कुला प्रसाद क्षेत्री, एओसी
(आईसी-72401एल) विजिन्दर पाल सिंह, आर्टी	(आईसी-72434डब्ल्यू) डौगुल थौगौयूलिन होकिप, इन्फैन्ट्री
(आईसी-72402एन) राकेश रंजन, इन्फैन्ट्री	(आईसी-72435वाई) रविन्द्र सिंह कुत्तल, आर्टी

(आईसी-72437के) सौरभ दत्त, आर्टी  
 (आईसी-72438एम) विकास गुरुंग, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72439पी) पवन गुलिया, ईएमई  
 (आईसी-72440के) अंकुर सक्सेना, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72441एम) रवीश कुमार, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72442पी) महादेव संजय सूर्यवंशी, आर्टी  
 (आईसी-72443एक्स) उपेन्द्र, एएससी  
 (आईसी-72444ए) हरि लूईस गोपालकृष्णन, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72445एच) अजय चम्ब्याल, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72447एन) आशीष कुमार, आर्टी  
 (आईसी-72448डब्ल्यू) अरूण कुमार शर्मा, इंटर  
 (आईसी-72449वाई) अमित कुमार सैनी, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72450एन) क्षितिज मिश्रा, ईएमई  
 (आईसी-72451डब्ल्यू) तरुण वाधवा, आर्टी  
 (आईसी-72452वाई) रवि ढाका, मैक  
 (आईसी-72453एफ) सुबोध कुमार गंगवार, एएससी  
 (आईसी-72454के) हरेन्द्र कुमार, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72455एम) विकास कुमार, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72456पी) अभिषेक कुमार सिंह, सिग्नल्स  
 (आईसी-72457एक्स) नागरे आशीषाद राजाभारु, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72458ए) अमित कुमार, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72459एच) कुलदीप शर्मा, एसी  
 (आईसी-72460एक्स) रितेश रॉय, आर्टी  
 (आईसी-72461ए) कैवलजीत सिंह बुधवार, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72462एच) शिल्पम भराली, इंजीनियर्स  
 (आईसी-72463एल) सौरभ लाहिरी, आर्टी  
 (आईसी-72464एन) विभान्शु डोंडियाल, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72465डब्ल्यू) अतुल श्रीवास्तव, एएडी  
 (आईसी-72466वाई) विनय कुमार वि, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72467एफ) राधारमन गोस्वामी, आर्टी  
 (आईसी-72469एम) अरूण पाण्डेय, एविएशन  
 (आईसी-72471के) प्रणव प्रभात, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72472एम) दिपेंद्र मिश्रा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-72473पी) गुरिन्द्र राणा, आर्टी  
 (आईसी-72474एक्स) राजकुमार साँगवान, एओसी  
 (आईसी-72475ए) पंकज उपाध्याय, आर्टी  
 (आईसी-72476एच) विवेक सिंह, आर्टी  
 (आईसी-72477एल) राहुल, एएससी  
 (आईसी-72478एन) अभिषेक शर्मा, एओसी  
 (आईसी-72479डब्ल्यू) सचिन कुमार, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72480एल) योगेश हुड्डा, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72481एन) पंकज त्यागी, एसी  
 (आईसी-72482डब्ल्यू) अर्पित रमन, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72483वाई) सांबशिव राव कोरापति, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72484एफ) करण गोस्वामी, ईएमई  
 (आईसी-72485के) अमित करनपुरिया, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72486एम) बसवराज वी मठपति, एएससी  
 (आईसी-72487पी) दीपांशु चौधरी, आर्टी  
 (आईसी-72488एक्स) दीपक जोशी, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72489ए) मुबारकअली बी मुजावर, एसी  
 (आईसी-72490पी) राजशेखर बिनोमोन, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72491एक्स) रवि पवार, एओसी  
 (आईसी-72492ए) अरविन्द रावत, एएडी  
 (आईसी-72493एच) अजय पान्डेय, एओसी  
 (आईसी-72494एल) आस्तिक कुमार, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72495एन) अनुराग बिष्ट, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72496डब्ल्यू) आदर्श दुबे, आर्टी  
 (आईसी-72497वाई) अभय राणा, आर्टी  
 (आईसी-72498एफ) अमित सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72499के) थापर हरिश प्रकाश, आर्टी  
 (आईसी-72500एन) वरूण जसवाल, इंजीनियर्स  
 (आईसी-72501डब्ल्यू) अनुभव तिवारी, एएससी  
 (आईसी-72502वाई) पंकज, आर्टी  
 (आईसी-72503एफ) नवीन सिंह, आर्टी  
 (आईसी-72504के) रविरंजन कुमार, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72505एम) दीपक सिंह, इन्फैन्ट्री

(आईसी-72506पी) सतीश कुमार यादव, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72508ए) राहुल चौहान, आर्टी  
 (आईसी-72509एच) अभिजीत शर्मा, आर्टी  
 (आईसी-72510एक्स) शशि नंदन कुमार, मैक  
 (आईसी-72512एच) रवि थापा, मैक  
 (आईसी-72513एल) जितेन्द्र राठौड़, एसी  
 (आईसी-72515डब्ल्यू) अविनाश कुमार, आर्टी  
 (आईसी-72516वाई) षाजो पी वी, एएससी  
 (आईसी-72517एफ) सजाद अहमद, आर्टी  
 (आईसी-72518के) आशीष पान्डेय, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72519एम) शुभम् अग्रवाल, एएडी  
 (आईसी-72520एफ) साहील छोकारा, एओसी  
 (आईसी-72521के) सुरेन्द्र सिंह, इंजीनियर्स  
 (आईसी-72522एम) पंकज शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72523पी) दीपक सिंह ठाकुरी, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72524एक्स) विकास सिंह बसेरा, आर्टी  
 (आईसी-72525ए) के एस सूरज, आर्टी  
 (आईसी-72526एच) सुरिन्दर कुमार, आर्टी  
 (आईसी-72527एल) विक्रम सिंह बादल, आर्टी  
 (आईसी-72528एन) विनोद कौशल, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72531एन) विक्रम यादव, मैक  
 (आईसी-72533वाई) मनीष कुमार पाठक, आर्टी  
 (आईसी-72534एफ) राहुल शुक्ला, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72535के) विद्यान सुनवार, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72536एम) साकेत रंजन, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72537पी) संदीप राठी, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72538एक्स) गौरव चव्हाण, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72539ए) वरुण शर्मा, एसी  
 (आईसी-72541एक्स) राकेन्दु उपाध्याय, एएससी  
 (आईसी-72542ए) अमित शाह, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72543एच) एस अरुण, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72544एल) अंकित भीष्म, इंजीनियर्स  
 (आईसी-72545एन) अजय कुमार, आर्टी

(आईसी-72546डब्ल्यू) पंकज कुमार पाण्डेय, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72547वाई) दविंदर पाल सिंह, इंटर  
 (आईसी-72548एफ) लोणकर अश्विन रमेश, एएडी  
 (आईसी-72550वाई) जगप्रीत सिंह, आर्टी  
 (आईसी-72551एफ) सिमथेस कुमार दलाल, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72552के) विनोद कुमार के एस, एएससी  
 (आईसी-72553एम) पवन कुमार, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72554पी) हिमांशु पुरोहित, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72555एक्स) चन्द्रदेव सिंह हाड़ा, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72556ए) नितेश कुमार, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72557एच) जयन्त सिंह बालयान, सिग्नल्स  
 (आईसी-72558एल) राऊत तुषार अशोक, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72559एन) डी मेंडोना रनरीच, आर्टी  
 (आईसी-72560एच) बिभूति भूषण पाणिग्राही, एएससी  
 (आईसी-72561एन) अविनाश कुमार श्रीवास्तव, आर्टी  
 (आईसी-72562एन) निखिल कुमार, आर्टी  
 (आईसी-72563डब्ल्यू) ए विजय कुमार, एविएशन  
 (आईसी-72564वाई) साहिल जांगड़, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72565एफ) हेमचन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72566के) अनुराग राजावत, ईएमई  
 (आईसी-72567एम) अनिल कण्डपाल, इंजीनियर्स  
 (आईसी-72568पी) शिव प्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72569एक्स) अभिषेक कुमार, आर्टी  
 (आईसी-72570एम) भूपेन्द्र पाल सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72572एक्स) मनीष तोमर, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72573ए) भरत सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72574एच) संदीप सिंह बाजवा, एओसी  
 (आईसी-72575एल) प्रियरंजन कुमार ठाकुर, एसी  
 (आईसी-72576एन) ब्रिज भूषण वर्मा, एसी  
 (आईसी-72577डब्ल्यू) भरत शर्मा, आर्टी  
 (आईसी-72578वाई) अभिनव त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72579एफ) अभिषेक कुमार तिवारी, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72580डब्ल्यू) बन्नी शर्मा, एएससी

(आईसी-72581वाई) अभय राठौड़, एएडी  
 (आईसी-72582एफ) राहुल कुमार आले, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72583के) सुमीत खजुरिया, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72584एम) मन्तव्य कुमार, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72585पी) सावले अनुपम श्रीकान्त, आर्टी  
 (आईसी-72586एक्स) रोहित कुमार राई, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72587ए) परितोष सिंह कनवाल, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72588एच) रणजीत भाम्भू, ईएमई  
 (आईसी-72589एल) रंजन थापा, एओसी  
 (आईसी-72590ए) अनिरुध चक्रवर्ती, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72591एच) उक्रम पपू सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72592एल) अमन महंत, एओसी  
 (आईसी-72593एन) गिरी विकास राजेन्द्र, आर्टी  
 (आईसी-72594डब्ल्यू) अंकित शर्मा, सिग्नल्स  
 (आईसी-72595वाई) योगेन्द्र गुरुंग, आर्टी  
 (आईसी-72596एफ) हन्दीप राज पुरी, आर्टी  
 (आईसी-72597के) टिजु थोमस, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72598एम) रविरंजन कुमार सिन्हा, आर्टी  
 (आईसी-72599पी) जतिन गंभीर, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72600वाई) वेंकट शारदा, एससी  
 (आईसी-72601एफ) गर्ग केदार पदमाकर, आर्टी  
 (आईसी-72602के) दलजीत सिंह, मैक  
 (आईसी-72603एम) विक्रम सिंह राठौड़, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72604पी) अंशुल यादव, एसी  
 (आईसी-72605एक्स) आकाश राज, आर्टी  
 (आईसी-72606ए) शिवा गुरुंग, आर्टी

#### अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन)

निम्नलिखित 88 (अठ्ठासी) जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि, 109 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) और 18 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यूईएस) पाठ्यक्रम के हैं, को लफ्टनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टीजीसी पाठ्यक्रम वालों को और सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यूईएस पाठ्यक्रम वालों को पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए, जो कि भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षणरत हैं, अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है :--

आईएमए सं., नाम, एसएस सं., आर्म/सर्विस तथा अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि

109 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम

(टी/6633) रविन्द्र सिंह जोधा (43948एल), ईएमई, 15 जुलाई 2009  
 (टी/6634) रविन्द्र सिंह महला (43949एन), इंजीनियर्स, 15 जुलाई 2009  
 (टी/6636) अमित कुमार झा (43950एच), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009  
 (टी/6637) रोहन वर्मा (43951एल), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009  
 (टी/6639) सचिन सिंह रावत (43952एन), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009  
 (टी/6642) अनिमेष दूबे (43955एफ), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009  
 (टी/6644) भृगु व्यास पात्रो (43957एम), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009  
 (टी/6646) मनीष मखलोणा (43959एक्स), ईएमई, 15 जुलाई 2009  
 (टी/6647) गौरव मित्तल (43960एम), ईएमई, 15 जुलाई 2009  
 (टी/6648) अनुज सिंह चौहान (43961पी), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009  
 (टी/6649) यशवंत सुहाग (43962एक्स), ईएमई, 15 जुलाई 2009  
 (टी/6650) हर्षवर्धन सिंह सालाथिया (43963ए), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009  
 (टी/6651) राहुल देव ए (43964एच), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009  
 (टी/6652) सिमरनजीत सिंह (43965एल), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009  
 (टी/6653) रवि जम्वाल (43966एन), ईएमई, 15 जुलाई 2009  
 (टी/6655) उदित चतुर्वेदी (43968वाई), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009  
 (टी/6657) दुर्गा प्रसाद मिश्रा (43970डब्ल्यू), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009  
 (टी/6660) रणजोध सिंह (43973के), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009  
 (टी/6662) देवमाल्या मुखर्जी (43975पी), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009  
 (टी/6663) दिलदीप सिंह चैहल, (43976एक्स), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009  
 (टी/6665) अभय सिरौही (43978एच), ईएमई, 15 जुलाई 2009  
 (टी/6667) दिपेन्द्र धन्जल (43980ए), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009  
 (टी/6668) राज कुमार (43981एच), ईएमई, 15 जुलाई 2009  
 (टी/6669) सुशान्त द्विवेदी (43982एल), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009  
 (टी/6674) अतुल थापा (43987के), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009

(टी/6675) अभिनव शर्मा (43988एम), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009  
(टी/6676) भव्य सिंह सिसौदिया (43989पी), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009

(टी/6679) बनहट्टी करण सिंह (43992पी), इंजीनियर्स, 15 जुलाई 2009

(टी/6680) आभास शर्मा (43993एक्स), सिग्नल्स, 03 मई 2009

(टी/6681) नितेश कुमार साँगवान (43994ए), ईएमई, 03 मई 2009

(टी/6682) मोहित (43995एच), सिग्नल्स, 03 मई 2009

(टी/6684) ऋषि आर (43997एन), ईएमई, 03 मई 2009

(टी/6685) अंकुश शर्मा (43998डब्ल्यू), ईएमई, 03 मई 2009

(टी/6686) मनिकण्डन एम (43999वाई), ईएमई, 03 मई 2009

(टी/6687) दीपक बोहरा (44000ए), ईएमई, 03 मई 2009

(टी/6688) डी कृष्णा कुमार (44001एच), ईएमई, 03 मई 2009

(टी/6689) यजुवेन्द्र कुमार गौतम (44002एल), ईएमई, 03 मई 2009

(टी/6690) भारत मोहन (44003एन), ईएमई, 03 मई 2009

(टी/6691) साकेत झा (44004डब्ल्यू), सिग्नल्स, 01 अगस्त 2009

18 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना पाठ्यक्रम

(यू/944) टिलानी निमेश चिमनलाल (44005वाई), इंजीनियर्स, 15 जुलाई 2009

(यू/945) वाईकर आनंद दीपक (44006एफ), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009

(यू/947) एमीस तम्बी जोण (44008एम), ईएमई, 14 जुलाई 2008

(यू/948) क्रान्ति कनाल (44009पी), ईएमई, 15 जुलाई 2009

(यू/950) कुलकर्णी शुभम दीपक (44011एम), ईएमई, 01 जुलाई 2008

(यू/952) सिमरत पाल सिंह थिंड (44013एक्स), ईएमई, 02 अगस्त 2008

(यू/953) राघवेन्द्र प्रसाद जी एम (44014ए), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009

(यू/954) थैमैय्या आई बी (44015एच), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009

(यू/957) हरी शंकर आर नायर (44018डब्ल्यू), सिग्नल्स, 28 जुलाई 2008

(यू/959) सतनाम सिंह (44020एन), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009

(यू/960) विकास कुमार श्रीवास्तव (44021डब्ल्यू), इंजीनियर्स, 01 जुलाई 2008

(यू/961) बिभूति भूषण बरबरूआ (44022वाई), ईएमई, 15 जुलाई 2009

(यू/962) ओमकार उदय भडभडे (44023एफ), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009

(यू/964) जोबिन एम वर्गीस (44025एम), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009

(यू/965) अभिमन्यु महाजन (44026पी), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009

(यू/968) अभय कुमार सिंह (44029एच), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009

(यू/969) सिमान्त कमल दत्ता (44030एक्स), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009

(यू/970) ऋषभ यादव (44031ए), सिग्नल्स, 01 जुलाई 2008

(यू/974) करन वासुदेव (44035डब्ल्यू), सिग्नल्स, 07 अगस्त 2008

(यू/976) अंकित सिंह रावत (44037एफ), ईएमई, 18 अगस्त 2008

(यू/978) एम दीपक (44039एम), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009

(यू/979) जगदीश शैट्टीपा नंदिहाल (44040एफ), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009

(यू/980) विनीत एस (44041के), इंजीनियर्स, 15 जुलाई 2009

(यू/982) अतुल पाराशर (44043पी), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009

(यू/983) हरप्रीत सिंह लीडर (44044एक्स), ईएमई, 05 अगस्त 2008

(यू/984) पुनो रोबर्ट (44045ए), ईएमई, 23 जून 2008

(यू/985) गौरव कठैत (44046एच), सिग्नल्स, 01 जुलाई 2008

(यू/986) आदित्य कौशिक (44047एल), सिग्नल्स, 28 जुलाई 2008

(यू/987) कुलदीप कुमार (44048एन), सिग्नल्स, 20 अगस्त 2008

(यू/990) ऋषभ सूद (44051एन), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2008

(यू/991) संकल्प डोगरा (44052डब्ल्यू), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009

(यू/992) शैलेन्द्र सायवाल (44053वाई), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009

(यू/993) शिशिर मकवाना (44054एफ), इंजीनियर्स, 01 सितम्बर 2008

(यू/995) नागेन्द्र प्रताप सिंह (44056एम), ईएमई, 15 जुलाई 2009

(यू/996) संजीव सिंह (44057पी), ईएमई, 15 जुलाई 2009

(यू/998) सैय्यद नाजिम मेंहदी (44059ए), ईएमई, 28 जुलाई 2008

(यू/999) मयंक माथुर (44060पी), ईएमई, 26 जुलाई 2008

(यू/1000) जेरिन मार्टिन (44061एक्स), ईएमई, 14 जुलाई 2008

(यू/1001) अमानत जगजीत सिंह (44062ए), ईएमई, 16 अगस्त 2008

(यू/1004) अरुण पुन्डीर (44065एन), सिग्नल्स, 25 जुलाई 2008  
 (यू/1005) बिरेन्द्र सिंह (44066डब्ल्यू), ईएमई, 01 जुलाई 2008  
 (यू/1009) अभिनव चौहान (44070वाई), ईएमई, 25 जुलाई 2008  
 (यू/1011) जतिन कुमार (44072के), सिग्नल्स, 28 जुलाई 2008  
 (यू/1012) शेखर कुमार (44073एम), सिग्नल्स, 12 अगस्त 2009  
 (यू/1013) नवनीत गोपीनाथन (44074पी), ईएमई, 01 जुलाई 2008  
 (यू/1014) सचिन धीमान (44075एक्स), सिग्नल्स, 01 सितम्बर 2008  
 (यू/1015) तपन सोधी (44076ए), ईएमई, 09 जुलाई 2008  
 (यू/1018) कुमार अमित यादव (44079एन), सिग्नल्स, 25 जुलाई 2008  
 (यू/1019) मंजुल राज (44080एच), सिग्नल्स, 25 सितम्बर 2009  
 जैण्टलमैन कैडेट्स को दिए गए आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य है।

राहुल शर्मा  
 लेफ्टि कर्नल  
 ए एम एस-8बी

सं. 55, दिनांक 17 जनवरी 2011--सक्षम अधिकारी द्वारा सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7(8) के अन्तर्गत उनके नामों के आगे उल्लिखित समयावधि तक या नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक या अधिकारी के सेवानिवृत्त होने तक जो भी पहले हो, उस समय तक अनुभाग अधिकारी (वर्ग 'ख' राजपत्रित) वेसतनबंध-2 (रु. 9,300--34,800/-) एवं ग्रेड पे रु. 4,800/- के रूप में नियुक्ति बढ़ाई जाती है:--

कैलाश चन्द्र, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010  
 बी सिंह, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010  
 आर के साहनी, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010  
 डी के प्रसाद, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010  
 के एल मामचन्द, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010  
 चांद सिंह, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010  
 हेत प्रकाश, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010  
 आई एस ब्रामनिया, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010  
 रूप चन्द, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010  
 बलवान सिंह, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010  
 सुभाष बिसवास, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010  
 नीरज रंजन, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010

देबाशीश प्रधान, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010  
 उदय कापट, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010  
 जे पी मीना, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010  
 एस सी सेठी, 01 जुलाई 2010 से 30 सितम्बर 2010  
 आर पी उप्रेती, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010  
 गुरबचन सिंह, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010  
 पी एन बलेचा, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010  
 सुदेश ऐलावादी, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010  
 विनय कुमार, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010  
 आर डी कुशवाहा, 01 जुलाई 2010 से 31 जुलाई 2010  
 ए के गुप्ता, 01 जुलाई 2010 से 31 जुलाई 2010  
 ए के चट्टा, 01 जुलाई 2010 से 31 जुलाई 2010  
 अमरजीत सलहोत्रा, 01 जुलाई 2010 से 31 जुलाई 2010  
 डी पी खुराना, 01 जुलाई 2010 से 31 जुलाई 2010  
 एच एस नेगी, 01 जुलाई 2010 से 30 सितम्बर 2010  
 जी डी शर्मा, 01 जुलाई 2010 से 31 जुलाई 2010  
 बिकाश कृष्णा, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010  
 रामपाल मीणा, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010  
 सौम्यजीत मण्डल, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010  
 टी एस नेगी, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010  
 देवेन्द्र मोहन, 01 जुलाई 2010 से 30 सितम्बर 2010  
 श्यामला रमन, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010  
 बन्सी लाल, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010  
 वी रामू, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010  
 मंजुश्री दास, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010  
 एस के बर्मन, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010  
 दिनेश चन्द्र, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010  
 सुदेश कपूर, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010  
 गुरमीत मुख़ा, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010  
 राज सिंह, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010  
 विनोद कुमार, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010  
 दर्शन कुमार, 01 जुलाई 2010 से 30 सितम्बर 2010  
 इन्द्रानी गुप्ता, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010

प्रोमिला जग्गी, 01 जुलाई 2010 से 31 जुलाई 2010

नरेन्द्र सिंह, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010

सतविन्दर सिंह, 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010

यह नियुक्ति पूर्णतया कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की गई है तथा प्रशासकीय कारणों से बिना सूचना अथवा नियमित पदधारक के उपलब्ध होने पर रद्द की जा सकती है।

ए के लारोइया  
उप मु प्र अ(ए)

सेना सचिव शाखा

सं. 56, दिनांक 18 जनवरी 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करती हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

ब्रिगे के मूल रैंक में

रैंक नाम, आईसी, व आर्म तथा ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि

कर्नल एन एस कनवर (वी-00344), आरमीसी, 12 अगस्त 2009

कर्नल जगबिन्दर सिंह (वी-00347), आरमीसी, 23 अक्टूबर 2009

कर्नल आर आर यादव (वी-00352), आरमीसी, 01 मई 2009

आर वी अस्थाना  
निदेशक/एमएस (एक्स)

थल सेना शाखा

सं. 57, दिनांक 18 जनवरी 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

कर्नल (व समकक्ष) से ब्रिगेडियर (व समकक्ष) के पद पर

एम रामानुजैह (एनटीआर-16501के), 01 मई 2010

लेफ्टि कर्नल से कर्नल (टीएस) के पद पर

लेफ्टि कर्नल राम कुमार (एनटीआर-016682ए), 21 अप्रैल 2010

विंग कमांडर (व समकक्ष) से ग्रुप कैप्टन (व समकक्ष) के पद पर

विंग कमांडर एस पी चतुर्वेदी (एमआर-06443एक्स)  
(एएफ-18669एन), 01 जून 2010

विंग कमांडर बी एस शेखों (एमआर-05326ए) (एएफ-17989एस),  
05 जून 2010

विंग कमांडर डी चक्रबोर्ती (एमआर-05582एच) (18916एस),  
21 सितम्बर 2010

विंग कमांडर ए के बराल (एमआर-05707एन) (एएफ-18249एन),  
01 अक्टूबर 2009

विंग कमांडर के के पूरनीवाल (एमआर-06444एच)  
(एएफ-18355एल), 30 अगस्त 2010

यश पांडे

ब्रिगे

उपमहानिदेशक (मा सं)

सेना शाखा

सं. 58, दिनांक 18 जनवरी 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन (एसएल)

कप्तान से मेजर

नाम, एसएल सं तथा आर्म

पाटिल राजकुमार दत्ताराम (एसएल-04808), एसएल/आईसीओ

--03 जुलाई 2010

आईसी सं., नाम, आर्म तथा कप्तान दिनांक से

(आईसी-64000) संदीप शंकर, इन्फैन्ट्री, 12 जून 2010

(आईसी-64157) रोहित मेहरा, आर्टी, 12 जून 2010

(आईसी-65782) पी अप्पाल्ला सत्याप्रसाद, इन्फैन्ट्री, 07 मई 2010

(आईसी-68401) ऋतु राज सिंह, ईएमई, 13 जून 2010

(आईसी-68412) वरुण प्रकाश, ईएमई, 13 जून 2010

(आईसी-68436) शारथ एम यू, ईएमई, 13 जून 2010

अल्प-कालीन सेवा कमीशन (मैन)

कप्तान से मेजर

एसएस सं., नाम, आर्म, वरीयता तिथि, कोर्स, संशोधित वरीयता तिथि  
तथा कप्तान दिनांक से

(एसएस-39840) विरांत शर्मा, सिग्नल्स, 07 सितम्बर 2002, एसएस  
सी 74(एनटी), 07 मई 2003, 07 मई 2009

(एसएस-39848) संजीव कुमार मिश्रा, एडीए, 07 सितम्बर 2002,  
एसएससी 74(एनटी), 07 मई 2003, 07 मई 2009



अल्प-कालीन सेवा कमीशन (डब्ल्यू एस ई एस)

कप्तान से मेजर

डब्ल्यू एस सं., नाम, आर्म, कोर्स, पदोन्नति के लिए संशोधित वरीयता तिथि तथा कप्तान दिनांक से

(डब्ल्यूएस-00793) मोहित प्रमिला जर्नाधन, एओसी, डब्ल्यू एस-22(एनटी), 06 सितम्बर 2004, 06 दिसम्बर 2010

(डब्ल्यूएस-00797) नितू सिंह सेंगर, एओसी, डब्ल्यू एस-22(एनटी), 06 सितम्बर 2004, 06 दिसम्बर 2010

(डब्ल्यूएस-00800) अर्पणा बिसेन, एओसी, डब्ल्यू एस-22(एनटी), 06 सितम्बर 2004, 06 दिसम्बर 2010

(डब्ल्यूएस-00803) अंजना पालिवाल, इंटर, डब्ल्यू एस-22 (एनटी), 06 सितम्बर 2004, 06 दिसम्बर 2010

(डब्ल्यूएस-00805) रोहिना मेरी वर्धस, इंटर, डब्ल्यू एस-22(एनटी), 06 सितम्बर 2004, 06 दिसम्बर 2010

(डब्ल्यूएस-00807) टिला व्हिसय, एओसी, डब्ल्यू एस-22(एनटी), 06 सितम्बर 2004, 06 दिसम्बर 2010

(डब्ल्यूएस-00815) सरोज गुप्ता, एओसी, डब्ल्यू एस-22(एनटी), 06 सितम्बर 2004, 06 दिसम्बर 2010

(डब्ल्यूएस-00821) वकांकर रिचा माधव, इंटर, डब्ल्यू एस-22(एनटी), 06 सितम्बर 2004, 06 दिसम्बर 2010

(डब्ल्यूएस-01143) पदमन अनिता अशोक, ईएमई, डब्ल्यू एस-27(टी), 21 सितम्बर 2004, 21 सितम्बर 2010

(डब्ल्यूएस-01156) चेलुर सुमालता नागराज, ईएमई, डब्ल्यू एस-27(टी), 21 सितम्बर 2004, 21 सितम्बर 2010

(डब्ल्यूएस-01166) आंचल पोरवाल, ईएमई, डब्ल्यू एस-27(टी), 21 सितम्बर 2004, 21 सितम्बर 2010

(डब्ल्यूएस-01198) पूनम वर्मा, ईएमई, डब्ल्यू एस-27(टी), 21 सितम्बर 2004, 21 सितम्बर 2010

लेफ्टि से कप्तान

नाम, डब्ल्यूएस सं. तथा आर्म

नूतन चिल्लर (डब्ल्यूएस-01071), एएससी

प्रज्ञा पैनुलेय (डब्ल्यूएस-01072), एओसी

प्रीति शर्मा (डब्ल्यूएस-01082), एएडी

अमृता सिंह (डब्ल्यूएस-01086), एओसी

रमनदीप कौर मुलतानी (डब्ल्यूएस-01087), एओसी

श्वेता शर्मा (डब्ल्यूएस-01089), एओसी

अंकिता श्रीवास्तव (डब्ल्यूएस-01096), एएससी

चांदनी वासुदेव (डब्ल्यूएस-01106), एओसी

व्यास पूजा पुंडरिकभाई (डब्ल्यूएस-01111), एओसी

बलजीत कौर (डब्ल्यूएस-01134), एएससी

--17 सितम्बर 2010

पी के शास्त्री

मेजर

एएमएस-8(बी)

-----

सं. 59, दिनांक 18 जनवरी 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

इन्फैंट्री

मैकनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेन्ट

सूबेदार (लिपिक) रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) मानिक चन्द्र मौर्या (जेसी-420662एक्स), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार (लिपिक) धरम बीर सिंह (जेसी-420711पी), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार (लिपिक) पवार मारुती श्रीपती (जेसी-420689पी), 07 अक्टूबर 2010\*

\*[सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है]

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार गुरमीत सिंह (जेसी-420504एच), 01 अक्टूबर 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार पत राम (जेसी-420822एम), 07 सितम्बर 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार जगदीश सिंह (जेसी-420881वाई), 11 अक्टूबर 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अनील कुमार (जेसी-420350एफ), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार क्रिष्णा सिंह (जेसी-420458वाई), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार चन्द्र शेखर (जेसी-420459एफ), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार बंसी लाल बिश्नोई (जेसी-420461वाई), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार बसवानंद (जेसी-420720डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार सत्याप्रकाश (जेसी-420729एल), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार अवदेश सिंह (जेसी-420732एल), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार दौलत सिंह (जेसी-420733एन), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार कुशि राम रातुरी (जेसी-420739पी), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार दलबीर सिंह (जेसी-420746एल), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार रमेश सिंह (जेसी-420747एन), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार रवी कुमार (जेसी-420748डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार रतन सिंह (जेसी-420771के), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार घाडगे साजन जिजाबा (जेसी-420775ए), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार धरमवीर (जेसी-420817एफ), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार रंजीत सिंह (जेसी-420842ए), 10 अक्टूबर 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार भीम सिंह (जेसी-420856ए), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार पाटील धरेराव श्रीमंत (जेसी-420917एम), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार सतपाल (जेसी-420891एच), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-420895वाई), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार उदय सिंह (जेसी-420922एक्स), 05 अक्टूबर 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार ओम राज भाराली (जेसी-420958डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार बहादुर सिंह (जेसी-420959वाई), 05 अक्टूबर 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-420960एन), 05 अक्टूबर 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार गनवरपु तिरुपती राव (जेसी-421059एफ), 04 अक्टूबर 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार इनामुल हक अन्सारी (जेसी-421061वाई), 04 अक्टूबर 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बिरेन्द्र राम (जेसी-421228एक्स), 01 अक्टूबर 2010

सूबेदार (लिपिक) रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) भूपेन्द्र सिंह (जेसी-420690के), 01 नवम्बर 2010

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह (जेसी-420657एम), 24 नवम्बर 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार रघबीर सिंह (जेसी-420286पी), 25 अक्टूबर 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार भीम सिंह (जेसी-420707एम), 26 अक्टूबर 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अनील कुमार मोहंती (जेसी-420768के), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार सुरेश सिंह राठौर (जेसी-420785के), 27 अक्टूबर 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार करमबीर (जेसी-420813एल), 27 अक्टूबर 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मदन सिंह शेखावत (जेसी-420873ए), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार धर्मेन्द्र बहादुर सिंह (जेसी-420938एच), 01 नवम्बर 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार प्रफुल्ला चन्द्र मोहंती (जेसी-421060डब्ल्यू), 23 अक्टूबर 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार विरेन्द्र कुमार (जेसी-421095एम), 22 नवम्बर 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार श्याम सिंह (जेसी-420677ए), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार मदन सिंह पाल (जेसी-420827एल), 04 नवम्बर 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बसंत बल्लभ (जेसी-420828एन), 01 नवम्बर 2010  
 नायब सूबेदार जाला प्रद्युमन सिंह बापुभा (जेसी-420951एम),  
 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार धर्मेन्द्र सिंह (जेसी-420953एक्स), 01 नवम्बर 2010  
 नायब सूबेदार भारवाड जाशु भाई भुला भाई (जेसी-420954ए),  
 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार खेंगर भाई के प्रियदाशी (जेसी-420940ए), 01 नवम्बर  
 2010

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-421014एफ), 01 नवम्बर 2010  
 नायब सूबेदार राम दास सिंह (जेसी-421022ए), 01 नवम्बर 2010  
 नायब सूबेदार आजाद सिंह (जेसी-420756पी), 01 दिसम्बर 2010  
 नायब सूबेदार गंगा चरण (जेसी-420757एक्स), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जेकब बेनाई (सं. 14914793एल अब जेसी-421719एन),  
 20 नवम्बर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
 ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार सिमनचला परीडा (सं. 14915865डब्ल्यू अब  
 जेसी-421720एच), 10 नवम्बर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
 ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार मेसरीया मोहन भाई सेवा भाई (सं. 14916370डब्ल्यू अब  
 जेसी-421721एल), 06 नवम्बर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
 ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार कना राम (सं. 14916422एफ अब जेसी-421722एन),  
 22 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
 ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार चंदन नंद कुमार तुका राम (सं. 14916554पी अब  
 जेसी-421723डब्ल्यू), 31 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
 ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार पी बी शजी लाल (सं. 14917528ए अब जेसी-421724वाई),  
 08 नवम्बर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
 ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार अब्दुल अलीम (सं. 2484086एम अब जेसी-421725एफ),  
 28 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
 ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार दिलीप कुमार परीडा (सं. 14918644पी अब जेसी-  
 421726के), 28 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
 ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार अश्वनी कुमार साहु (सं. 14915877एल अब जेसी-  
 421727एम), 04 नवम्बर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
 ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार उदय सिंह (सं. 14919104एच अब जेसी-421728पी),  
 09 नवम्बर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
 ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार केहर सिंह (सं. 14919443एच अब जेसी-421729एक्स),  
 08 नवम्बर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
 ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार बिधि चंद (सं. 14915354एम अब जेसी-421730एम),  
 01 नवम्बर 2010

हवलदार विरेंद्र सिंह शेखावत (सं. 14919458एल अब जेसी-  
 421731पी), 01 नवम्बर 2010

हवलदार जितेंद्र सिंह (सं. 14919497के अब जेसी-421732एक्स),  
 01 नवम्बर 2010

हवलदार मोरे संजय मारूती (सं. 14918155के अब जेसी-421733ए),  
 22 नवम्बर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
 ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार पंच बहादुर यादव (सं. 14916717एक्स अब जेसी-  
 421734एच), 01 नवम्बर 2010

हवलदार जगपाल सिंह चौहान (सं. 14918582ए अब जेसी-  
 421735एल), 01 नवम्बर 2010

हवलदार मोहन लाल पांडे (सं. 14917226एन अब जेसी-421736एन),  
 01 नवम्बर 2010

हवलदार चरुन्डु राम (सं. 14918743एक्स अब जेसी-421737डब्ल्यू),  
 08 नवम्बर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
 ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार कुलदीप चंद शर्मा (सं. 14918035एल अब जेसी-421738वाई), 03 दिसम्बर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार रविंद्र कुमार (सं. 14918031पी अब जेसी-421739एफ), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार धनेश (सं. 14917862एफ अब जेसी-421684एच), 11 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 अगस्त 2010 से दी जाती है)

हवलदार श्री पाल (सं. 14914603एन अब जेसी-421685एल), 11 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार राम प्रसाद (सं. 14914844एन अब जेसी-421686एन), 11 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार निर्मल सिंह (सं. 14915420के अब जेसी-421687डब्ल्यू), 07 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार विश्वमोहनन ए (सं. 14916461ए अब जेसी-421688वाई), 01 अक्टूबर 2010

हवलदार शशीधरन के वी (सं. 14914937एच अब जेसी-421689एफ), 01 अक्टूबर 2010

हवलदार तापस कुमार मालाकर (सं. 14915612एफ अब जेसी-421690डब्ल्यू), 11 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार शक्ती पाडा बोस (सं. 14915619एल अब जेसी-421691वाई), 11 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार दिनेश प्रसाद तिवारी (सं. 14915944एल अब जेसी-421692एफ), 11 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार प्रितम चंद (सं. 14917050एन अब जेसी-421693के), 26 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार मुडलीयर बालान शणमुगम (सं. 14916123एच अब जेसी-421694एम), 01 अक्टूबर 2010

हवलदार प्रमोद कुमार पानी (सं. 14915863एल अब जेसी-421695पी), 01 अक्टूबर 2010

हवलदार विरेंद्र कुमार सिंह (सं. 14915878एन अब जेसी-421696एक्स), 13 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार शिव दयाल (सं. 14916207डब्ल्यू अब जेसी-421697ए), 13 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार शियोष त्रिगुणे (सं. 14916390के अब जेसी-421698एच), 13 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार अब्दुल मनन (सं. 14914752एफ अब जेसी-421699एल), 21 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार बुडीरेड्डी वी रमणा राव (सं. 14915301एन अब जेसी-421700पी), 11 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार सतीश कुमार शर्मा (सं. 14915784डब्ल्यू अब जेसी-421701एक्स), 21 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार मलय कुमार घोष (सं. 14916758एफ अब जेसी-421702ए), 21 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार मन्तू कुमार राजबन्शी (सं. 14916908एम अब जेसी-421703एच), 13 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार राकेश कुमार त्रिपाठी (सं. 14917383ए अब जेसी-421704एल), 25 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार रविंद्र नाथ देव नाथ (सं. 14917029एल अब जेसी-421705एन), 13 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 14917520एन अब जेसी-421706डब्ल्यू), 25 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार मनोजा कुमार नायक (सं. 14915864एन अब जेसी-421707वाई), 12 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार भगवान सिंह (सं. 14918341ए अब जेसी-421708एफ), 08 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार स्वदेश कुमार (सं. 14917236एक्स अब जेसी-421709के), 28 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार रामाश्रय चौधरी (सं. 14918467ए अब जेसी-421710वाई), 08 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार मोहीते हनुमंत राजाराम (सं. 14917506एफ अब जेसी-421711एफ), 13 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार प्रभु राम मेघवाल (सं. 14917644एच अब जेसी-421712के), 19 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार उदय शंकर मंडल (सं. 14918766वाई अब जेसी-421713एम), 08 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार राजेश कुमार (सं. 14918433एम अब जेसी-421714पी), 13 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार संतोष कुमार गुरुंग (सं. 14918598एल अब जेसी-421715एक्स), 13 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार विजय प्रताप सिंह (सं. 14918809एच अब जेसी-421716ए), 13 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार राम चंद्र लाल (सं. 14914554डब्ल्यू अब जेसी-421717एच), 03 नवम्बर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार मनिष कुमार (सं. 14916679एम अब जेसी-421666ए), 01 सितम्बर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

हवलदार भाग सिंह (सं. 2987897एल अब जेसी-421667एच), 21 सितम्बर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार मुकेश कुमार सिंह (सं. 2987674एन अब जेसी-421668एल), 21 सितम्बर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार गोबिंदा चंद्र बसुमतारी (सं. 14916003के अब जेसी-421669एन), 01 सितम्बर 2010

हवलदार दिलिप रामचेरी (सं. 14916005पी अब जेसी-421670एच), 01 सितम्बर 2010

हवलदार सूबेदार सिंह यादवा (सं. 14916033एफ अब जेसी-421671एल), 01 सितम्बर 2010

हवलदार रणवीर सिंह (सं. 14917049वाई अब जेसी-421672एन), 04 सितम्बर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार अजित कुमार मिश्रा (सं. 14916044एन अब जेसी-421673डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2010

हवलदार फिरोज खान (सं. 14916081एफ अब जेसी-421674वाई),  
01 सितम्बर 2010

हवलदार इन्दर सिंह (सं. 14916485के अब जेसी-421675एफ),  
01 सितम्बर 2010

हवलदार शिव प्रसाद गुरुंग (सं. 14917032एलअब जेसी-421676के),  
01 सितम्बर 2010

हवलदार अनिल कुमार (सं. 14916622एक्स अब जेसी-  
421677एम), 01 सितम्बर 2010

हवलदार राम मुर्ति (सं. 14916507एक्स अब जेसी-421678पी),  
01 सितम्बर 2010

हवलदार सतिश सिंह (सं. 14916646एफ अब जेसी-421679एक्स),  
06 सितम्बर 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार राम करन सिंह (सं. 14916551एफ अब जेसी 421680एम),  
01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) अजय पाल सिंह (सं. 14916392पी अब  
जेसी-421681पी), 01 अक्टूबर 2010

हवलदार (लिपिक) रवीन्द्र सिंह (सं. 14916447एन अब जेसी-  
421682एक्स), 01 अक्टूबर 2010

हवलदार (लिपिक) ओम प्रकाश (सं. 14916495एन अब जेसी-  
421683ए), 11 अक्टूबर 2010 \*

\*[नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है]

हवलदार (लिपिक) जयदेव चंद (सं. 14916653एक्स अब जेसी-  
421718एल), 08 नवम्बर 2010 \*

\*[नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है]

क्वचित कोर

स्थाई रिसालदार मेजर धर्मशिक्षक के रैंक में

विशेष सूची

रिसालदार (पंडित) लक्ष्मी प्रसाद खंडूरी (जेसी-152315एन), 10 जुलाई  
2009 \*

\*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाती है)

रिसालदार (पंडित) श्री राजवीर शर्मा (जेसी-152316डब्ल्यू),  
01 दिसम्बर 2009

रिसालदार (पंडित) श्री सुरेश कुमार शास्त्री (जेसी-152317वाई),  
01 अप्रैल 2010

रिसालदार (पंडित) श्री माता चरन शुक्ला (जेसी-155574एफ)  
01 अप्रैल 2010

रिसालदार (पंडित) शिव शरन शर्मा (जेसी-152322के), 01 सितम्बर  
2010

रिसालदार (पंडित) देव राज शर्मा (जेसी-158226एल), 03 सितम्बर  
2010 \*

\*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

स्थाई रिसालदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में

नायब रिसालदार/क्लर्क (एसडी) कृष्ण चन्द (जेसी-241980एल),  
02 मार्च 2010 \*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार/क्लर्क (एसडी) राजेन्द्र सिंह (जेसी-241982डब्ल्यू),  
01 अप्रैल 2010

नायब रिसालदार/क्लर्क (एसडी) महेन्द्र सिंह (जेसी-242067के),  
01 अप्रैल 2010

नायब रिसालदार/क्लर्क (एसडी) महेन्द्र सिंह (जेसी-242068एम),  
01 जुलाई 2010

नायब रिसालदार/क्लर्क (एसडी) रतन सिंह (जेसी-242069पी), 01 जुलाई  
2010

नायब रिसालदार/क्लर्क (एसडी) माला राम (जेसी-242070के), 06 जुलाई  
2010 \*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार/क्लर्क (एसडी) हाकिम अली (जेसी-242125एच),  
12 जुलाई 2010 \*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार/क्लर्क (एसडी) राजा कुमार एच डी (जेसी-242126एल),  
01 जुलाई 2010

नायब रिसालदार/क्लर्क (एसडी) उदय कुमार पी (जेसी-242128डब्ल्यू),  
01 अगस्त 2010

नायब रिसालदार/क्लर्क (एसडी) ओम प्रकाश राय (जेसी-242129वाई),  
01 अगस्त 2010

नायब रिसालदार/क्लर्क (एसडी) श्यामा पांडु मण्डल (जेसी-242130एन),  
21 अगस्त 2010 \*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार/क्लर्क (एसडी) श्यामा कुमार भट्टाचार्य (जेसी-  
242163वाई), 02 अगस्त 2010 \*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार/क्लर्क (एसडी) बिमेलइन्दू बिकास चौधरी (जेसी-242164एफ), 02 अगस्त 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार/क्लर्क (एसडी) राम निवास (जेसी-242193डब्ल्यू), 01 अगस्त 2010

नायब रिसालदार/क्लर्क (एसडी) कल्लू सिंह (जेसी-242194वाई), 01 अगस्त 2010

नायब रिसालदार/क्लर्क (एसडी) राम स्वरूप रायगर (जेसी-242195एफ), 01 अगस्त 2010

नायब रिसालदार/एसकेटी शैलेन्द्र सिंह (जेसी-240263एल), 01 अप्रैल 2009

नायब रिसालदार/एसकेटी प्रताप सिंह (जेसी-241638एल), 06 अप्रैल 2009\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाती है)

नायब रिसालदार/एसकेटी बहादुर सिंह (जेसी-240416के), 24 अगस्त 2009\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

नायब रिसालदार/एसकेटी प्रेम पाल सिंह (जेसी-240640डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2009

नायब रिसालदार/एसकेटी रमजान खान (जेसी-240712पी), 01 दिसम्बर 2009

नायब रिसालदार/एसकेटी सुरेश कुमार डोगरा (जेसी-240713एक्स), 01 मार्च 2010

नायब रिसालदार/एसकेटी राज कुमार (जेसी-240747ए), 01 मार्च 2010

नायब रिसालदार/एसकेटी नरेश कुमार (जेसी-241128के), 01 मार्च 2010

नायब रिसालदार/एसकेटी निरदोस कुमार (जेसी-241130एफ), 01 अप्रैल 2010

नायब रिसालदार/एसकेटी कृष्ण कान्त (जेसी-242071एम), 06 जुलाई 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार/एसकेटी गोरा राम (सं. 1086101एल अब जेसी-244032एम), 17 दिसम्बर 2009\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार/एसकेटी राज कुमार (सं. 1086102एन अब जेसी-244033पी), 24 दिसम्बर 2009\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार/क्लर्क दरबारे सुनिल (सं. 1089497एल अब जेसी-244034 एक्स), 01 जनवरी 2010

दफादार/क्लर्क बिसवजित राय (सं. 1089744एन अब जेसी-244035ए), 01 जनवरी 2010

दफादार/क्लर्क मोहम्मद तारिख (सं. 1089796के अब जेसी-244036एच), 01 जनवरी 2010

दफादार/क्लर्क ब्रम्हा नारायना तिवारी (सं. 1089993एम अब जेसी-244125एफ), 09 फरवरी 2010\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार/क्लर्क हरलाल सिंह (सं. 1098903एफ अब जेसी-244126के), 01 फरवरी 2010

दफादार/क्लर्क हकिम यादव (सं. 1098999पी अब जेसी-244173एफ), 01 मार्च 2010

दफादार/एसकेटी आजाद सिंह (सं. 1086103डब्ल्यू अब जेसी-244174के), 01 मार्च 2010\*

दफादार/एसकेटी कंवर सिंह (सं. 1086135वाई अब जेसी-244175एम), 01 मार्च 2010

दफादार/एसकेटी देवेन्द्र कुमार (सं. 1086154के अब जेसी-244176पी), 02 मार्च 2010\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

दफादार/एसकेटी ब्रिज नन्दन शर्मा (सं. 1086153एफ अब जेसी-244177एक्स), 01 मार्च 2010

दफादार/क्लर्क सुभाष चन्द्र शुक्ला (सं. 1089990वाई अब जेसी-244196एच), 01 अप्रैल 2010

दफादार/क्लर्क पी शिवा संकारा राव (सं. 1089284एक्स अब जेसी-244197एल), 01 अप्रैल 2010

दफादार/क्लर्क एस पंडियाराजन (सं. 1088905वाई अब जेसी-244198एन), 01 अप्रैल 2010

दफादार/क्लर्क लाल बच्चन यादव (सं. 1089352ए अब जेसी-244199डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2010

दफादार/क्लर्क कृष्णा कुमार मिश्रा (सं. 1089499डब्ल्यू अब जेसी-244200ए), 01 अप्रैल 2010

दफादार/क्लर्क हरविन्दर सिंह (सं. 1089880के अब जेसी-244201एच),  
01 अप्रैल 2010

दफादार/एसकेटी अनुज कुमार सिंह (सं. 1086155एम अब जेसी-244202एल), 01 अप्रैल 2010

दफादार/एसकेटी पुष्पविन्दर सिंह (सं. 1086170एफ अब जेसी-244203एन),  
01 अप्रैल 2010

दफादार/क्लर्क बदरुद्दीन (सं. 1089500ए अब जेसी-244426एल),  
01 जून 2010

दफादार/क्लर्क मिरा प्रसाद साह (सं. 1088662वाई अब जेसी-244426एल),  
01 जून 2010

दफादार/क्लर्क गोदाधर रॉय (सं. 1088792एफ अब जेसी-244427एन),  
01 जून 2010

दफादार/क्लर्क मोहम्मद झाकिर हुसैन अन्सारी (सं. 1089867ए अब जेसी-244428डब्ल्यू), 01 जून 2010

दफादार/क्लर्क लाल सिंह (सं. 1099034के अब जेसी-244458एन),  
01 जुलाई 2010

दफादार/क्लर्क अनिल कुमार (सं. 1098904के अब जेसी-244459डब्ल्यू),  
01 जुलाई 2010

दफादार/क्लर्क राम लायक यादव (सं. 1098845एच अब जेसी-244460एल), 01 जुलाई 2010

दफादार/क्लर्क बिपलाब लहेरी (सं. 1088831पी अब जेसी-244461एन),  
01 जुलाई 2010

दफादार/एसकेटी रामेश कुमार केडियान (सं. 1086190पी अब जेसी-244462डब्ल्यू), 04 जुलाई 2010 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

दफादार/क्लर्क गोविन्द सिंह (सं. 1088862पी अब जेसी-244548पी),  
01 अगस्त 2010

दफादार/क्लर्क शैव शंकर राय (सं. 1088567एम अब जेसी-244549एक्स),  
01 अगस्त 2010

दफादार/क्लर्क अखीलेश कुमार सिंह (सं. 1089992के अब जेसी-244550एम), 01 अगस्त 2010

दफादार/क्लर्क सजिव सी (सं. 1088890एफ अब जेसी-244551पी),  
01 अगस्त 2010

दफादार/क्लर्क दिलजीत कुमार (सं. 1089759डब्ल्यू अब जेसी-244553ए),  
01 अगस्त 2010

दफादार/क्लर्क बरगे श्रीकृष्ण शंकर (सं. 1089868एच अब जेसी-244554एच), 01 अगस्त 2010

दफादार/क्लर्क गणपत सिंह (सं. 1089995एक्स अब जेसी-244555एल),  
01 अगस्त 2010

दफादार/क्लर्क अमर सिंह (सं. 1099432एल अब जेसी-244556एन),  
02 अगस्त 2010 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

दफादार/क्लर्क गणेश प्रसाद मिश्रा (सं. 1098608वाई अब जेसी-244557डब्ल्यू), 01 अगस्त 2010

दफादार/क्लर्क शैलके संजय तुकाराम (सं. 1089871एच अब जेसी-244651ए), 01 सितम्बर 2010

जे राय चौधरी  
अवर सचिव

वायु शाखा

सं. 60, दिनांक 19 जनवरी 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां सहर्ष प्रदान करते हैं :--

जू बा अ से मूल वा अ

सेवा सं., रैंक, नाम, ट्रेड व मूल वा आ की सं. तारीख

613341 वा अ मोहम्मद शमी, ए सी एच जी डी, 02 सितम्बर 2007

613782 वा अ बृजनन्दन यादव, ए सी एच जी डी, 02 सितम्बर 2007

614519 वा अ बीरेन्द्र सिंह तोमर, ए सी एच जी डी, 02 सितम्बर 2007

617263 वा अ अक्षय कुमार राउत्रे, ए सी एच जी डी, 02 सितम्बर 2007

619633 वा अ भोगेन्द्र झा, ए सी एच जी डी, 01 दिसम्बर 2007

632419 वा अ चन्द्रगीत प्रसाद, ए सी एच जी डी, 04 सितम्बर 2007

643387 वा अ अरुण कुमार समदर्शी, ए सी एच जी डी, 02 सितम्बर 2007

644204 वा अ ओमप्रकाश दीक्षित, ए सी एच जी डी, 04 सितम्बर 2007

645075 वा अ कृष्णा प्रसाद, ए सी एच जी डी, 02 सितम्बर 2007

646286 वा अ राजेन्द्र सिंह, ए सी एच जी डी, 01 दिसम्बर 2007

646705 वा अ राम चन्द्र सिंह, ए सी एच जी डी, 01 दिसम्बर 2007

647179 वा अ संतोष कुमार महतो, ए सी एच जी डी, 01 दिसम्बर 2007

647528 वा अ जयप्रकाश कन्नोजिया, ए सी एच जी डी, 01 दिसम्बर 2007

647594 वा अ भोजराज हमार, ए सी एच जी डी, 03 दिसम्बर 2007



- 625938 वा अ शेखर चक्रवर्ती, ए डी एस ओ, 01 दिसम्बर 2007
- 626812 वा अ ओउम प्रकाश चहार, ए डी एस ओ, 01 दिसम्बर 2007
- 626862 वा अ सैमुअल ज्ञानचन्द कटी, ए डी एस ओ, 01 दिसम्बर 2007
- 638867 वा अ राजेन्द्र प्रसाद यादव, ए डी एस ओ, 01 दिसम्बर 2007
- 639166 वा अ राजवीर सिंह, ए डी एस ओ, 01 दिसम्बर 2007
- 639312 वा अ गिरीश कुमार बेनिवाल, ए डी एस ओ, 01 दिसम्बर 2007
- 654005 वा अ रामकुमार, ए डी एस ओ, 01 दिसम्बर 2007
- 654135 वा अ भलगट आर ए, ए डी एस ओ, 07 मार्च 2008
- 654186 वा अ उमेश सिंह, ए डी एस ओ, 01 दिसम्बर 2007
- 654217 वा अ सुनिल कुमार वाजपेयी, ए डी एस ओ, 01 दिसम्बर 2007
- 654342 वा अ बृजेन्द्र कुमार दीक्षित, ए डी एस ओ, 01 दिसम्बर 2007
- 654363 वा अ मो. इकबालुद्दीन, ए डी एस ओ, 01 दिसम्बर 2007
- 654528 वा अ नरेन्द्र सिंह, ए डी एस ओ, 01 दिसम्बर 2007
- 672875 वा अ जयमल बूरा, ए डी एस ओ, 01 दिसम्बर 2007
- 673186 वा अ प्रमोद कुमार चौधरी, ए डी एस ओ, 01 दिसम्बर 2007
- 669055 वा अ अरविन्द कुमार शर्मा, ए एफ फिटर, 02 दिसम्बर 2006
- 677126 वा अ संजीव कुमार सिंह, ए एफ फिटर, 14 जनवरी 2009
- 610502 वा अ अनंत शर्मा, अकाउंट क्लर्क, 15 मई 2009
- 610649 वा अ अशोक कुमार पाठक, अकाउंट क्लर्क, 17 मई 2009
- 611140 वा अ रामशंकर, अकाउंट क्लर्क, 10 जून 2009
- 611373 वा अ खड़ग सिंह, अकाउंट क्लर्क, 17 मई 2009
- 611458 वा अ राम कुमार, अकाउंट क्लर्क, 15 मई 2009
- 611734 वा अ बैकुंठ सिंह, अकाउंट क्लर्क, 10 जून 2009
- 612179 वा अ महेन्द्र प्रताप सिंह, अकाउंट क्लर्क, 15 मई 2009
- 612545 वा अ रंग लाल राम, अकाउंट क्लर्क, 17 मई 2009
- 612561 वा अ कुलदीप सिंह, अकाउंट क्लर्क, 17 मई 2009
- 612813 वा अ शर्मा पंचानन, अकाउंट क्लर्क, 08 जून 2009
- 612839 वा अ सुरेन्द्र कुमार, अकाउंट क्लर्क, 10 जून 2009
- 612938 वा अ दूध नाथ, अकाउंट क्लर्क, 17 मई 2009
- 612996 वा अ मंगू सिंह राठौर, अकाउंट क्लर्क, 17 मई 2009
- 613031 वा अ देवेन्द्र प्रसाद सिंह, अकाउंट क्लर्क, 19 मई 2009
- 613313 वा अ रंजीत सिंह, अकाउंट क्लर्क, 19 मई 2009
- 613330 वा अ परिमल कुमार दास, अकाउंट क्लर्क, 19 मई 2009
- 613664 वा अ बबन प्रसाद दास, अकाउंट क्लर्क, 23 मई 2009
- 613824 वा अ परेश नाथ गोस्वामी, अकाउंट क्लर्क, 19 मई 2009
- 614163 वा अ रामकुमार राम, अकाउंट क्लर्क, 08 जून 2009
- 614469 वा अ रमा कांत, अकाउंट क्लर्क, 19 मई 2009
- 614907 वा अ अजोय कुमार मंडल, अकाउंट क्लर्क, 23 मई 2009
- 614935 वा अ ब्रह्म जीत यादव, अकाउंट क्लर्क, 21 मई 2009
- 625275 वा अ भुवन गजुरेल, अकाउंट क्लर्क, 13 मई 2009
- 645225 वा अ अक्रम तिवारी, अकाउंट क्लर्क, 23 मई 2009
- 645384 वा अ बामा पदा दास, अकाउंट क्लर्क, 09 अगस्त 2006
- 645425 वा अ महाबीर कौशिक, अकाउंट क्लर्क, 08 जून 2009
- 645506 वा अ खजान सिंह चहार, अकाउंट क्लर्क, 23 मई 2009
- 645813 वा अ रवि प्रकाश गुप्ता, अकाउंट क्लर्क, 23 मई 2009
- 646865 वा अ कामेश्वर पाण्डेय, अकाउंट क्लर्क, 25 मई 2009
- 647628 वा अ रमा चन्द्रा सिंह, अकाउंट क्लर्क, 25 मई 2009
- 671721 वा अ लाखन सिंह, अकाउंट क्लर्क, 29 मई 2009
- 671916 वा अ ओमप्रकाश, अकाउंट क्लर्क, 29 मई 2009
- 671961 वा अ परशुराम, अकाउंट क्लर्क, 04 जून 2009
- 671965 वा अ राधेश्याम सिंह, अकाउंट क्लर्क, 29 मई 2009
- 672008 वा अ नरेन्द्र कुमार, अकाउंट क्लर्क, 29 मई 2009
- 672090 वा अ सुरेश सिंह चौहान, अकाउंट क्लर्क, 08 जून 2009
- 672100 वा अ चजुर्भुज दिवेदी, अकाउंट क्लर्क, 02 मई 2009
- 672358 वा अ दिनेश सिंह, अकाउंट क्लर्क, 04 जून 2009
- 672547 वा अ दिनेश सिंह, अकाउंट क्लर्क, 31 मई 2009
- 672549 वा अ रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, अकाउंट क्लर्क, 29 मई 2009
- 672726 वा अ धरम सिंह सैनी, अकाउंट क्लर्क, 04 जून 2009
- 672833 वा अ चन्द्र शेखर प्रसाद जयसवाल, अकाउंट क्लर्क, 31 मई 2009
- 673042 वा अ प्रदीप कुमार, अकाउंट क्लर्क, 31 मई 2009
- 673139 वा अ सिंह कुलदीप, अकाउंट क्लर्क, 04 जून 2009
- 673165 वा अ रबीन्द्रन नानू, अकाउंट क्लर्क, 13 मई 2009
- 673169 वा अ श्याम किशोर शर्मा, अकाउंट क्लर्क, 02 जून 2009

673216 वा अ अजीतकुमार करुणाकरन नायर, अकाउंट क्लर्क, 08 जून 2009

673386 वा अ मोहन के एम वी एन, अकाउंट क्लर्क, 06 जून 2009

673442 वा अ ओटी शांता राम चन्द्राराव, अकाउंट क्लर्क, 13 मई 2009

673612 वा अ मनकर मछीन्द्र खाण्डु, अकाउंट क्लर्क, 06 जून 2009

673929 वा अ रणधीर सिंह पंवार, अकाउंट क्लर्क, 06 जून 2009

673931 वा अ रामेश्वर शर्मा, अकाउंट क्लर्क, 13 मई 2009

673938 वा अ राजेन्द्र सिंह, अकाउंट क्लर्क, 06 जून 2009

674605 वा अ शशिकान्त मिश्रा, अकाउंट क्लर्क, 06 जून 2009

610460 वा अ नारायण लाल मेहरा, क्लर्क जी डी, 31 दिसम्बर 2007

610867 वा अ राजेन्द्र नाथ शर्मा, क्लर्क जी डी, 31 दिसम्बर 2007

612201 वा अ जगन्नाथ सिंह, क्लर्क जी डी, 31 दिसम्बर 2007

612204 वा अ दिवेदी रमेश कुमार, क्लर्क जी डी, 31 दिसम्बर 2007

612315 वा अ शिव धनी पाण्डेय, क्लर्क जी डी, 31 दिसम्बर 2007

612346 वा अ व्यास देव शर्मा, क्लर्क जी डी, 31 दिसम्बर 2007

612681 वा अ सत्यनारायण मिश्रा, क्लर्क जी डी, 31 दिसम्बर 2007

612888 वा अ अवधेश कुमार चौहान, क्लर्क जी डी, 31 दिसम्बर 2007

613414 वा अ राम चन्द्र प्रसाद सिंह, क्लर्क जी डी, 02 जनवरी 2008

613416 वा अ राम चरित्र यादव, क्लर्क जी डी, 02 जनवरी 2008

613554 वा अ देवी नारायण मोहपात्रा, क्लर्क जी डी, 31 दिसम्बर 2007

613951 वा अ दशरथ लाल सोनी, क्लर्क जी डी, 02 जनवरी 2008

614059 वा अ हरचन्द सिंह, क्लर्क जी डी, 27 दिसम्बर 2007

614313 वा अ युगल प्रसाद सिंह, क्लर्क जी डी, 02 जनवरी 2008

614810 वा अ अमरेन्द्र कुमार, क्लर्क जी डी, 02 जनवरी 2008

614914 वा अ समर कुमार देवनाथ, क्लर्क जी डी, 04 जनवरी 2008

621239 वा अ कमलाकान्त तिवारी, क्लर्क जी डी, 10 जनवरी 2008

645025 वा अ रामचन्द्र यादव, क्लर्क जी डी, 31 दिसम्बर 2007

645217 वा अ सुरेन्द्र प्रसाद यादव, क्लर्क जी डी, 04 जनवरी 2008

645318 वा अ राजेन्द्र कुमार शुक्ला, क्लर्क जी डी, 31 दिसम्बर 2007

645447 वा अ विष्णु महादेव गायकवाड, क्लर्क जी डी, 02 जनवरी 2008

645504 वा अ कृष्ण पाल, क्लर्क जी डी, 02 जनवरी 2008

645615 वा अ बटेश्वर साहा, क्लर्क जी डी, 02 जनवरी 2008

645960 वा अ बबन यादव, क्लर्क जी डी, 02 जनवरी 2008

645998 वा अ प्रमोद कुमार, क्लर्क जी डी, 04 जनवरी 2008

646003 वा अ अशोक कुमार त्रिपाठी, क्लर्क जी डी, 02 जनवरी 2008

646007 वा अ केदार सिंह, क्लर्क जी डी, 04 जनवरी 2008

646062 वा अ अपोलनियस किसपोटा, क्लर्क जी डी, 04 जनवरी 2008

646141 वा अ कुलवंत सिंह, क्लर्क जी डी, 04 जनवरी 2008

646204 वा अ कृपाशंकर उपाध्याय, क्लर्क जी डी, 04 जनवरी 2008

646522 वा अ उपेन्द्र सिंह, क्लर्क जी डी, 08 जनवरी 2008

646716 वा अ अब्दुल वाहिद, क्लर्क जी डी, 01 फरवरी 2008

646848 वा अ श्रीकृष्ण यादव, क्लर्क जी डी, 04 जनवरी 2008

646854 वा अ पिल्लाला जयराम, क्लर्क जी डी, 01 फरवरी 2008

646859 वा अ विजाधर चौधरी, क्लर्क जी डी, 06 जनवरी 2008

646932 वा अ चन्द्रभूषण, क्लर्क जी डी, 06 जनवरी 2008

647010 वा अ महमूद अहमद, क्लर्क जी डी, 01 फरवरी 2008

647166 वा अ प्रबल नारायण नन्दी, क्लर्क जी डी, 06 जनवरी 2008

647334 वा अ निजामुद्दीन, क्लर्क जी डी, 06 जनवरी 2008

647443 वा अ नरेन्द्र सिंह राजौरा, क्लर्क जी डी, 10 जनवरी 2008

647536 वा अ राजेन्द्र नाथ मिश्रा, क्लर्क जी डी, 10 जनवरी 2008

647555 वा अ चंचल घोष, क्लर्क जी डी, 10 जनवरी 2008

647666 वा अ चण्डी प्रसाद चमोला, क्लर्क जी डी, 10 जनवरी 2008

647674 वा अ भान स्वरूप सारस्वत, क्लर्क जी डी, 10 जनवरी 2008

647734 वा अ चन्द्र किशोर प्रसाद, क्लर्क जी डी, 10 जनवरी 2008

647736 वा अ मोहम्मद आजाद अख्तर खान, क्लर्क जी डी, 10 जनवरी 2008

647739 वा अ रमेश झा, क्लर्क जी डी, 01 फरवरी 2008	770150 वा अ हरीश सिंह, शिक्षा अनुदेशक, 02 सितम्बर 2007
647834 वा अ रामबहादुर कुशवाहा, क्लर्क जी डी, 01 फरवरी 2008	626003 वा अ कृष्ण कुमार अंतल, इलेक्ट फिटर, 06 दिसम्बर 2007
647932 वा अ महम्मद सईद यारगटी, क्लर्क जी डी, 01 फरवरी 2008	639256 वा अ कुलामंत प्रधान, इलेक्ट फिटर, 08 दिसम्बर 2007
649298 वा अ शकील अहमद, क्लर्क जी डी, 29 दिसम्बर 2007	639412 वा अ भूपेन्द्र नाथ चौधुरी, इलेक्ट फिटर, 02 जून 2008
649765 वा अ तिलक सी एच पटवारी, क्रिप्टोग्राफर, 02 जुलाई 2008	639749 वा अ रामजी वर्मा, इलेक्ट फिटर, 04 दिसम्बर 2007
670039 वा अ संतोष कुमार दिवेदी, क्रिप्टोग्राफर, 02 जुलाई 2008	639771 वा अ अर्जुन सिंह यादव, इलेक्ट फिटर, 08 दिसम्बर 2007
670371 वा अ लुकमान खान जोया, क्रिप्टोग्राफर, 02 जुलाई 2008	639774 वा अ प्रवीण कुमार पाहवा, इलेक्ट फिटर, 06 दिसम्बर 2007
670477 वा अ अमर नाथ पाण्डेय, क्रिप्टोग्राफर, 02 जुलाई 2008	653866 वा अ धरमवीर यादव, इलेक्ट फिटर, 02 मई 2008
670783 वा अ अजय कुमार झा, क्रिप्टोग्राफर, 02 जुलाई 2008	654420 वा अ बदी नाथ राय, इलेक्ट फिटर, 08 दिसम्बर 2007
671765 वा अ चौधरी शम्भु प्रसाद, क्रिप्टोग्राफर, 01 सितम्बर 2008	654589 वा अ बछीतर सिंह, इलेक्ट फिटर, 04 दिसम्बर 2007
671883 वा अ राजेन्द्र कुमार शर्मा, क्रिप्टोग्राफर, 01 सितम्बर 2008	673282 वा अ शिबु बझुकल नारायणन, इलेक्ट फिटर, 04 दिसम्बर 2007
649520 वा अ दिनेश कुमार, शिक्षा अनुदेशक, 01 अगस्त 2007	673447 वा अ प्रदीप कुमार सेठी, इलेक्ट फिटर, 02 जनवरी 2008
679370 वा अ भारत भूषण सिंह, शिक्षा अनुदेशक, 02 नवम्बर 2007	673529 वा अ राजेन्द्र पाण्डेय, इलेक्ट फिटर, 04 दिसम्बर 2007
701748 वा अ सतविन्दर सिंह रणधावा, शिक्षा अनुदेशक, 01 अगस्त 2007	674553 वा अ सिंह सुरेन्द्र, इलेक्ट फिटर, 06 दिसम्बर 2007
704226 वा अ प्रफुल्ल कुमार मिश्रा, शिक्षा अनुदेशक, 01 फरवरी 2008	674695 वा अ दीन दयाल, इलेक्ट फिटर, 08 दिसम्बर 2007
704425 वा अ तापस भट्टाचार्या, शिक्षा अनुदेशक, 01 फरवरी 2008	674900 वा अ श्याम किशोर झा, इलेक्ट फिटर, 02 जनवरी 2008
728597 वा अ काशीनाथ तिवारी, शिक्षा अनुदेशक, 03 फरवरी 2008	680388 वा अ कृष्ण कुमार कादयान, इलेक्ट फिटर, 06 दिसम्बर 2007
736814 वा अ प्रवीर कुमार रॉय, शिक्षा अनुदेशक, 01 मई 2008	680432 वा अ पंकज पॉल, इलेक्ट फिटर, 02 जनवरी 2008
736819 वा अ रामकिंकर त्रिपाठी, शिक्षा अनुदेशक, 05 फरवरी 2008	680436 वा अ मनोज सिंहा, इलेक्ट फिटर, 06 दिसम्बर 2007
736821 वा अ शशिकांत मिश्रा, शिक्षा अनुदेशक, 01 मई 2008	680605 वा अ राजेन्द्र सिंह दहिया, इलेक्ट फिटर, 04 दिसम्बर 2007
736825 वा अ राजिन्दर कुमार सैनी, शिक्षा अनुदेशक, 01 मई 2008	680631 वा अ राकेश अनिल रावत, इलेक्ट फिटर, 02 जनवरी 2008
737990 वा अ कृपाल सिंह बेदी, शिक्षा अनुदेशक, 01 मई 2008	680652 वा अ प्रदीप कुमार शर्मा, इलेक्ट फिटर, 04 दिसम्बर 2007
737995 वा अ सुभाष प्रसाद सिंह, शिक्षा अनुदेशक, 03 मई 2008	680749 वा अ रामऔतार यादव, इलेक्ट फिटर, 02 मार्च 2007
738802 वा अ सुशांत कुमार मोहपात्रा, शिक्षा अनुदेशक, 01 सितम्बर 2008	680939 वा अ राजकुमार सिंह, इलेक्ट फिटर, 02 सितम्बर 2008
738803 वा अ नबीन कुमार, शिक्षा अनुदेशक, 13 नवम्बर 2007	680944 वा अ संतोष कुमार, इलेक्ट फिटर, 02 सितम्बर 2008
738805 वा अ रवीन्द्र कुमार, शिक्षा अनुदेशक, 05 मई 2008	681027 वा अ रंजीत सिंह, इलेक्ट फिटर, 02 सितम्बर 2008
770142 वा अ प्रमोद कुमार के, शिक्षा अनुदेशक, 01 सितम्बर 2008	681330 वा अ असिम विश्वास, इलेक्ट फिटर, 02 सितम्बर 2008
	681461 वा अ राजेन्द्र कुमार बेहरा, इलेक्ट फिटर, 02 सितम्बर 2008
	681540 वा अ गजानन मदासुदन नाईक, इलेक्ट फिटर, 02 अक्टूबर 2008

- 681675 वा अ बसकर साहा, इलेक्ट फिटर, 02 अक्टूबर 2008
- 681717 वा अ शशांक कुमार महपात्रा, इलेक्ट फिटर, 02 जून 2008
- 682213 वा अ अजय कुमार, इलेक्ट फिटर, 02 अक्टूबर 2008
- 682232 वा अ सुब्रता चक्रवर्ती, इलेक्ट फिटर, 02 नवम्बर 2008
- 682840 वा अ प्रणय नाथ, इलेक्ट फिटर, 02 जून 2008
- 683436 वा अ एस नारायण राव रेड्डी, इलेक्ट फिटर, 02 जून 2008
- 683596 वा अ शमशेर सिंह काजल, इलेक्ट फिटर, 02 मई 2008
- 683615 वा अ धारा जीत, इलेक्ट फिटर, 02 जनवरी 2008
- 683694 वा अ रामजनम ओहदार, इलेक्ट फिटर, 02 जून 2008
- 684041 वा अ जगदीश सिंह पूनिया, इलेक्ट फिटर, 02 जनवरी 2008
- 684229 वा अ शेखर सेन, इलेक्ट फिटर, 02 जून 2008
- 690486 वा अ धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय, इलेक्ट फिटर, 02 जनवरी 2008
- 690496 वा अ राजकुमार वर्मा, इलेक्ट फिटर, 02 जून 2008
- 690577 वा अ फईमुद्दीन खान, इलेक्ट फिटर, 02 जनवरी 2008
- 690589 वा अ मदन पाल वत्स, इलेक्ट फिटर, 02 जून 2008
- 690686 वा अ अशोक कुमार शर्मा, इलेक्ट फिटर, 02 फरवरी 2008
- 690715 वा अ सत्य पाल, इलेक्ट फिटर, 02 फरवरी 2008
- 691479 वा अ चमन लाल शर्मा, इलेक्ट फिटर, 02 फरवरी 2008
- 691488 वा अ सरूप सिंह सैनी, इलेक्ट फिटर, 02 फरवरी 2008
- 691520 वा अ अनिल कुमार वर्मा, इलेक्ट फिटर, 02 फरवरी 2008
- 691604 वा अ तेज वीर सिंह चाहर, इलेक्ट फिटर, 02 मार्च 2008
- 691678 वा अ संजय कुमार, इलेक्ट फिटर, 02 फरवरी 2008
- 691681 वा अ लाल देव प्रसाद सिंह, इलेक्ट फिटर, 02 मार्च 2008
- 691793 वा अ अशोक कुमार अंतिल, इलेक्ट फिटर, 02 मई 2008
- 691951 वा अ अनुप कुमार उपाध्याय, इलेक्ट फिटर, 02 मार्च 2008
- 692041 वा अ नजिमुद्दीन, इलेक्ट फिटर, 02 मई 2008
- 658716 वा अ योगेन्द्र चौधरी, इंजन फिटर, 02 सितम्बर 2006
- 658720 वा अ गुप्तेश्वर कुमार सिंह, इंजन फिटर, 02 दिसम्बर 2006
- 659363 वा अ राजपाल सिंह यादव, इंजन फिटर, 02 दिसम्बर 2006
- 659430 वा अ विजय कुमार, इंजन फिटर, 02 दिसम्बर 2006
- 659632 वा अ रामजनम सिंह, इंजन फिटर, 02 दिसम्बर 2006
- 667082 वा अ विक्रम सिंह कुशवाहा, इंजन फिटर, 18 जुलाई 2006
- 612959 वा अ हरी नाथ, उपस्कर सहायक, 25 जून 2008
- 613148 वा अ राजेन्द्र प्रसाद सिंह, उपस्कर सहायक, 25 जून 2008
- 648692 वा अ विजेन्द्र सिंह, उपस्कर सहायक, 16 अप्रैल 2007
- 671912 वा अ मदन सिंह, उपस्कर सहायक, 23 मार्च 2007
- 672017 वा अ नरेन्द्र कुमार, उपस्कर सहायक, 15 जून 2008
- 658793 वा अ प्रेम सिंह, फलाईट गनर, 02 जून 2007
- 659916 वा अ रमेश कुमार, फलाईट गनर, 02 जून 2007
- 665147 वा अ प्रमोद कुमार यादव, फलाईट गनर, 02 जून 2007
- 666748 वा अ अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, फलाईट गनर, 02 जून 2007
- 667336 वा अ ककाडे राम सिंह बाजीराव, फलाईट गनर, 02 जून 2007
- 646496 वा अ मुनी सामी बसु, जी टी आई, 01 फरवरी 2008
- 646505 वा अ प्रीत पाल सिंह, जी टी आई, 01 फरवरी 2008
- 646781 वा अ दर्शन लाल, जी टी आई, 01 फरवरी 2008
- 646879 वा अ नरेन्द्र बहादुर सिंह, जी टी आई, 19 जून 2008
- 646923 वा अ वीरेन्द्र नाथ पाण्डेय, जी टी आई, 01 फरवरी 2008
- 646925 वा अ जवाहर लाल, जी टी आई, 01 फरवरी 2008
- 647157 वा अ अवध बिहारी पाठक, जी टी आई, 20 जून 2008
- 647238 वा अ नरेन्द्र बर्मन, जी टी आई, 15 जून 2008
- 647590 वा अ शमशुल जोहा आजाद, जी टी आई, 15 जून 2008
- 647796 वा अ रमेश चन्द्र लेंका, जी टी आई, 25 जून 2008
- 648254 वा अ कान सिंह तनवर, जी टी आई, 01 जुलाई 2008
- 671711 वा अ राम नेवल, जी टी आई, 17 जून 2008
- 672124 वा अ सुब्बइया चन्द्रा शेखरन, जी टी आई, 01 सितम्बर 2008
- 672660 वा अ ज्ञान सिंह शेखावत, जी टी आई, 01 जुलाई 2008
- 726436 वा अ रमेश कुमार, जी टी आई (एस), 13 जून 2008
- 726523 वा अ अनिल कुमार, जी टी आई (एस), 01 फरवरी 2008
- 727048 वा अ भावे सुजित श्री राम, जी टी आई (एस), 01 सितम्बर 2008
- 616011 वा अ राम नाथ सिंह, आई ए एफ पी, 25 सितम्बर 2008

617049 वा अ पुरुषोत्थमन थजाथवीडु, आई ए एफ पी, 25 सितम्बर 2008

624613 वा अ उपेन्द्र नायक, आई ए एफ पी, 23 दिसम्बर 2007

628295 वा अ अब्दुल कलाम फारुकी, आई ए एफ पी, 21 सितम्बर 2008

635016 वा अ मनोज शर्मा, चिकित्सा सहायक, 27 दिसम्बर 2006

650673 वा अ त्रिलोकी नाथ कौशिक, चिकित्सा सहायक, 21 दिसम्बर 2006

650686 वा अ ओमप्रकाश सिंह, चिकित्सा सहायक, 23 दिसम्बर 2006

655001 वा अ ब्रजमोहन बछेती, चिकित्सा सहायक, 19 दिसम्बर 2006

655120 वा अ योगेन्द्र प्रसाद, चिकित्सा सहायक, 19 दिसम्बर 2006

655178 वा अ निर्मल कुमार, चिकित्सा सहायक, 21 दिसम्बर 2006

655308 वा अ मोहम्मद अकरम, चिकित्सा सहायक, 21 दिसम्बर 2006

655309 वा अ विष्णु कुमार गौर, चिकित्सा सहायक, 21 दिसम्बर 2006

655316 वा अ बाबू थोमस, चिकित्सा सहायक, 21 दिसम्बर 2006

655330 वा अ देवमणी शर्मा, चिकित्सा सहायक, 02 जनवरी 2007

655340 वा अ पुर्णेनन्दु कुमार देब, चिकित्सा सहायक, 21 दिसम्बर 2006

655345 वा अ मान बहादुर सिंह, चिकित्सा सहायक, 23 दिसम्बर 2006

655363 वा अ प्रभात कुमार शाहा, चिकित्सा सहायक, 25 दिसम्बर 2006

655401 वा अ प्रबीर मुखोपाध्याय, चिकित्सा सहायक, 25 दिसम्बर 2006

655940 वा अ राम सजीवन, चिकित्सा सहायक, 17 दिसम्बर 2006

655948 वा अ अजय कुमार सिंह, चिकित्सा सहायक, 02 फरवरी 2007

655962 वा अ गजराज सिंह धामा, चिकित्सा सहायक, 02 फरवरी 2007

655968 वा अ श्री श्यामल कुमार दास, चिकित्सा सहायक, 02 फरवरी 2007

655988 वा अ रामास्वामी श्रीधर, चिकित्सा सहायक, 03 जुलाई 2008

627613 वा अ जगमोहन लाल गर्ग, मेट सहायक, 02 नवम्बर 2007

668168 वा अ राण प्रताप सिंह, मेट सहायक, 02 मार्च 2008

669031 वा अ सुरेन्द्र कुमार शर्मा, मेट सहायक, 02 अक्टूबर 2007

669223 वा अ सुरेश कुमार श्रीवास्तव, मेट सहायक, 02 अक्टूबर 2007

629616 वा अ सत्येन्द्र सिंह, एम एस फिटर (ई), 02 जुलाई 2008

654958 वा अ राजकुमार शा, एम एस फिटर (ई), 02 जुलाई 2008

654966 वा अ उमेश चन्द्र शर्मा, एम एस फिटर (ई), 02 जुलाई 2008

654969 वा अ अउतापल्ली रमेश बाबू, एम एस फिटर (ई), 02 जुलाई 2008

654972 वा अ महेन्द्र नाथ मिश्रा, एम एस फिटर (ई), 02 जुलाई 2008

654973 वा अ भुवन मोहन राय, एम एस फिटर (ई), 02 जुलाई 2008

654975 वा अ जगजीत सिंह, एम एस फिटर (ई), 02 जुलाई 2008

654977 वा अ प्रवीण कुमार सहरावत, एम एस फिटर (ई), 02 जुलाई 2008

654978 वा अ मोहम्मद सलीम, एम एस फिटर (ई), 02 जुलाई 2008

654979 वा अ सुरेन्द्र नाथ यादव, एम एस फिटर (ई), 02 जुलाई 2008

692080 वा अ विनय कुमार गुप्ता, एम एस फिटर (ई), 02 जुलाई 2007

629608 वा अ पदमनाभन बी पी, एम एस फिटर (एल), 02 जुलाई 2008

705172 वा अ संजय कुमार शर्मा, एम एस फिटर (एल), 02 जुलाई 2008

705183 वा अ दिनेश चन्द्र तिवारी, एम एस फिटर (एल), 02 जुलाई 2008

705193 वा अ लल्लन कुमार, एम एस फिटर (एल), 02 जुलाई 2008

705261 वा अ मोहम्मद अशफाक अहमद, एम एस फिटर (एल), 02 जुलाई 2008

638801 वा अ नरेश चन्द्र राठौर, एम टी फिटर, 03 जुलाई 2008

653918 वा अ देवी प्रसाद पाण्डेय, एम टी फिटर, 03 जुलाई 2008

662600 वा अ भूरी सिंह, एम टी फिटर, 03 जुलाई 2008

662626 वा अ कृष्णा सामी श्रीनिवासन, एम टी फिटर, 03 जुलाई 2008

662632 वा अ राज कुमार बघेल, एम टी फिटर, 03 जुलाई 2008	622455 वा अ विष्णुदेव शुक्ला, एम टी डी, 17 जून 2008
668451 वा अ अर्जुन देव कालरा, एम टी फिटर, 03 जुलाई 2008	622553 वा अ धर्मनाथ शाह, एम टी डी, 17 जून 2008
668550 वा अ अशोक कुमार सिंह, एम टी फिटर, 03 जुलाई 2008	622561 वा अ रोहिताश्व यादव, एम टी डी, 17 जून 2008
668565 वा अ रघुजीत सिंह यादव, एम टी फिटर, 03 जुलाई 2008	623617 वा अ पदभनाभा उमाथानु पिल्लई, एम टी डी, 02 मार्च 2006
668569 वा अ रामराज विश्वकर्मा, एम टी फिटर, 03 जुलाई 2008	620444 वा अ वट्टपरमफिल फ्रांसिस एंटेनी, म्युजीशियन, 04 अगस्त 2008
616314 वा अ चन्देश्वर प्रसाद सिंह, एम टी डी, 15 जून 2008	626588 वा अ एंथनी लॉर्ड्स मैक्सवेल, म्युजीशियन, 05 अक्टूबर 2009
617728 वा अ श्रीकृष्ण सिंह, एम टी डी, 07 जून 2008	644866 वा अ गोकुलानंदा साहू, फोटो फिटर, 01 नवम्बर 2007
617795 वा अ अमिय कुमार सरकार, एम टी डी, 07 जून 2008	650411 वा अ रवीन्द्र सिंह, फोटो फिटर, 02 फरवरी 2008
618135 वा अ वीरप्पा बसानेप्पा देयान्नावर, एम टी डी, 07 जून 2008	657978 वा अ नरेन्द्र प्रसाद सिंह, फोटो फिटर, 01 नवम्बर 2007
618495 वा अ मतिलाल दास, एम टी डी, 07 जून 2008	614757 वा अ अहीर दिनकर भगवान, पी जे आई, 12 अप्रैल 2006
618899 वा अ राधेलाल हर्षवाल, एम टी डी, 07 जून 2008	621183 वा अ बेरेन्द्र सिंह जाडु, पी जे आई, 07 जून 2008
619213 वा अ कृपासिंधु खुंटिया, एम टी डी, 07 जून 2008	705325 वा अ सुरेश कुमार ठाकुर, पी एम एफ (ई), 02 जुलाई 2008
619443 वा अ अचल कुमार त्रिवेदी, एम टी डी, 15 जून 2008	680974 वा अ धनश्याम प्रसाद यादव, रेडार फिटर, 12 दिसम्बर 2008
619644 वा अ कन्हैया लाल पटेल, एम टी डी, 07 जून 2008	681031 वा अ पवन कुमार, रेडार फिटर, 20 दिसम्बर 2008
620106 वा अ मेहताब सिंह, एम टी डी, 07 जून 2008	681116 वा अ राजीव रंजन, रेडार फिटर, 12 दिसम्बर 2008
621109 वा अ साहब सिंह मलिक, एम टी डी, 07 जून 2008	681389 वा अ शिवा कुमारन कुमार निलायम, रेडार फिटर, 22 दिसम्बर 2008
621488 वा अ विनोद कुमार कुकरेति, एम टी डी, 09 जून 2008	681576 वा अ राजेन्द्र कुमार सी पी, रेडार फिटर, 24 दिसम्बर 2008
621564 वा अ सिंह सूर्यनारायण सीताराम, एम टी डी, 09 जून 2008	681812 वा अ निर्मल कुमार एम सी, रेडार फिटर, 12 दिसम्बर 2008
621595 वा अ राजू चेरीयन, एम टी डी, 09 जून 2008	682334 वा अ गदम कृष्ण मूर्थी, रेडार फिटर, 12 दिसम्बर 2008
621685 वा अ लालजी सिंह, एम टी डी, 09 जून 2008	682576 वा अ अरूण कुमार माथुरी, रेडार फिटर, 12 दिसम्बर 2008
621714 वा अ मधुसूदन पाण्डा, एम टी डी, 09 जून 2008	682704 वा अ वीरभद्र राव मंत्रीप्रगदा, रेडार फिटर, 24 दिसम्बर 2008
621715 वा अ बसंत कुमार सेनापति, एम टी डी, 09 जून 2008	682844 वा अ सौमेन देबनाथ, रेडार फिटर, 24 दिसम्बर 2008
621773 वा अ इन्द्रपाल सिंह चौहान, एम टी डी, 09 जून 2008	683090 वा अ सौमित्र कुमार सेन, रेडार फिटर, 22 दिसम्बर 2008
621970 वा अ ब्रजेन्द्र कुमार दिवेदी, एम टी डी, 11 जून 2008	683119 वा अ हरिहरन पदनाभा पिल्लई, रेडार फिटर, 14 दिसम्बर 2008
622007 वा अ थंकाचलम मोहन, एम टी डी, 11 जून 2008	683408 वा अ राजेन्द्र कुमार पाण्डेय, रेडार फिटर, 14 दिसम्बर 2008
622024 वा अ गोपीनाथ मोहपात्रा, एम टी डी, 11 जून 2008	683411 वा अ महेन्द्र प्रताप मिश्रा, रेडार फिटर, 14 दिसम्बर 2008
622032 वा अ देवाशीष काम्प, एम टी डी, 15 जून 2008	683440 वा अ अनिल कुमार सिंह, रेडार फिटर, 14 दिसम्बर 2008
622044 वा अ बंशी सिंह राजपूत, एम टी डी, 11 जून 2008	
622045 वा अ राजेन्द्र प्रसाद बेदी, एम टी डी, 11 जून 2008	
622325 वा अ रण सिंह यादव, एम टी डी, 15 जून 2008	
622391 वा अ सत्यनारायण मिश्रा, एम टी डी, 15 जून 2008	

- 683560 वा अ हरेन्द्र प्रताप सिंह, रेडार फिटर, 16 दिसम्बर 2008
- 683563 वा अ मनोज कुमार, रेडार फिटर, 16 दिसम्बर 2008
- 683567 वा अ कुंज बिहारी प्रसाद, रेडार फिटर, 16 दिसम्बर 2008
- 683771 वा अ प्रिया वर्त, रेडार फिटर, 16 दिसम्बर 2008
- 683834 वा अ धरमवीर सिंह, रेडार फिटर, 16 दिसम्बर 2008
- 683881 वा अ अशोक कुमार सिंह, रेडार फिटर, 16 दिसम्बर 2008
- 683957 वा अ परमेश्वरन के सी, रेडार फिटर, 18 दिसम्बर 2008
- 683990 वा अ गवेन्द्र चौहान, रेडार फिटर, 22 दिसम्बर 2008
- 684098 वा अ मकरन्द सिंह राजपूत, रेडार फिटर, 18 दिसम्बर 2008
- 684297 वा अ कमलेश प्रसाद, रेडार फिटर, 20 दिसम्बर 2008
- 684303 वा अ राम बाबू, रेडार फिटर, 20 दिसम्बर 2008
- 684325 वा अ बोग सिंह, रेडार फिटर, 18 दिसम्बर 2008
- 684534 वा अ सत्येन्द्र सिंह रावत, रेडार फिटर, 20 दिसम्बर 2008
- 684549 वा अ ब्रजेश कुमार शर्मा, रेडार फिटर, 24 दिसम्बर 2008
- 684558 वा अ दिनेश कुमार अरोरा, रेडार फिटर, 22 दिसम्बर 2008
- 684642 वा अ बलवान सिंह, रेडार फिटर, 24 दिसम्बर 2008
- 684773 वा अ दलजीत सिंह धंजल, रेडार फिटर, 24 दिसम्बर 2008
- 684780 वा अ वीरेन्द्र उपाध्याय, रेडार फिटर, 20 दिसम्बर 2008
- 622525 वा अ स्वपन कुमार करमाकर, रेडियो फिटर, 02 फरवरी 2008
- 623990 वा अ सतीश चन्द्र मौर्या, रेडियो फिटर, 02 फरवरी 2008
- 624418 वा अ करणी सिंह उदावत, रेडियो फिटर, 12 फरवरी 2008
- 624470 वा अ दिलीप सिंह, रेडियो फिटर, 24 फरवरी 2008
- 624553 वा अ सत्यवीर सिंह, रेडियो फिटर, 12 फरवरी 2008
- 624555 वा अ महावीर, रेडियो फिटर, 12 फरवरी 2008
- 624557 वा अ ज्यूटिके इम्मैनुएल, रेडियो फिटर, 18 फरवरी 2008
- 624686 वा अ अंगद सिंह, रेडियो फिटर, 18 फरवरी 2008
- 624695 वा अ रमेश चन्द, रेडियो फिटर, 18 फरवरी 2008
- 626817 वा अ ओम प्रकाश शर्मा, रेडियो फिटर, 18 फरवरी 2008
- 625202 वा अ रामरबी मुखोपाध्याय, रेडियो फिटर, 20 फरवरी 2008
- 625420 वा अ बिसन सिंह धामी, रेडियो फिटर, 22 फरवरी 2008
- 625429 वा अ उमेद सिंह गहलौत, रेडियो फिटर, 01 जून 2008
- 633360 वा अ टी तिरुपथी मनोकरन, रेडियो फिटर, 06 फरवरी 2008
- 633551 वा अ सुरजीत सिंह बाछल, रेडियो फिटर, 22 फरवरी 2008
- 633974 वा अ ओंकार पाल, रेडियो फिटर, 06 फरवरी 2008
- 633999 वा अ जगदीश सिंह यादव, रेडियो फिटर, 06 फरवरी 2008
- 634099 वा अ जसबीर सिंह सहोता, रेडियो फिटर, 06 फरवरी 2008
- 634167 वा अ राजनाथ राय, रेडियो फिटर, 06 फरवरी 2008
- 634298 वा अ शिवजी चौधरी, रेडियो फिटर, 06 फरवरी 2008
- 634300 वा अ नवल किशोर शर्मा, रेडियो फिटर, 06 फरवरी 2008
- 634433 वा अ अनिरुध राम, रेडियो फिटर, 06 फरवरी 2008
- 634437 वा अ उमेश कुमार, रेडियो फिटर, 06 फरवरी 2008
- 634442 वा अ मदन मुरारी साहू, रेडियो फिटर, 06 फरवरी 2008
- 634493 वा अ यशपाल सिंह सोम, रेडियो फिटर, 06 फरवरी 2008
- 635965 वा अ सुबोध कुमार, रेडियो फिटर, 02 फरवरी 2008
- 636939 वा अ रजाक खॉन, रेडियो फिटर, 12 फरवरी 2008
- 637147 वा अ निर्मल कुमार, रेडियो फिटर, 02 फरवरी 2008
- 637453 वा अ नब कुमार राँव, रेडियो फिटर, 12 फरवरी 2008
- 637484 वा अ धीर सिंह यादव, रेडियो फिटर, 12 फरवरी 2008
- 637485 वा अ जीवन सिंह, रेडियो फिटर, 12 फरवरी 2008
- 637487 वा अ पितम सिंह तोमर, रेडियो फिटर, 12 फरवरी 2008
- 637585 वा अ विजय कुमार शर्मा, रेडियो फिटर, 24 फरवरी 2008
- 637675 वा अ तुलसीधरन मुरलीधरन, रेडियो फिटर, 18 फरवरी 2008
- 637770 वा अ अरविन्द कुमार तिवारी, रेडियो फिटर, 18 फरवरी 2008
- 637868 वा अ नरसिंह साहू, रेडियो फिटर, 12 फरवरी 2008
- 637884 वा अ गोपाल सिंह राजपूत, रेडियो फिटर, 01 जून 2008
- 638044 वा अ बलिराम सिंह, रेडियो फिटर, 12 फरवरी 2008
- 638051 वा अ रबीन्द्र कुमार सिंह, रेडियो फिटर, 26 फरवरी 2008
- 638067 वा अ कुंवर बिनोद सिंह, रेडियो फिटर, 01 जून 2008
- 638078 वा अ शेष नारायण मिश्रा, रेडियो फिटर, 18 फरवरी 2008
- 638187 वा अ सुरेन्द्र कुमार, रेडियो फिटर, 18 फरवरी 2008
- 638246 वा अ लाल सुबीर, रेडियो फिटर, 26 फरवरी 2008
- 638247 वा अ सिंह विनीत कुमार, रेडियो फिटर, 12 फरवरी 2008
- 638257 वा अ सिंह श्यामबीर, रेडियो फिटर, 20 फरवरी 2008

638270 वा अ मोहम्मद जकी अहमद खान, रेडियो फिटर, 20 फरवरी 2008

638278 वा अ सुकोमल सेन, रेडियो फिटर, 20 फरवरी 2008

638569 वा अ अरुण कुमार पाण्डेय, रेडियो फिटर, 22 फरवरी 2008

638571 वा अ तेज नारायण सिंह, रेडियो फिटर, 24 फरवरी 2008

638707 वा अ रबीन्द्र कुमार मिश्रा, रेडियो फिटर, 01 दिसम्बर 2008  
639213 वा अ रबीन्द्र कुमार सक्सेना, रेडियो फिटर, 02 फरवरी 2008

639634 वा अ राजकेश राय, रेडियो फिटर, 01 दिसम्बर 2008

652430 वा अ रंगराजन रामा सुब्बु, रेडियो फिटर, 02 फरवरी 2008

652892 वा अ दलीप सिंह, रेडियो फिटर, 12 फरवरी 2008

652899 वा अ रमेश कुमार, रेडियो फिटर, 12 फरवरी 2008

653002 वा अ हरशरण सिंह, रेडियो फिटर, 18 फरवरी 2008

653157 वा अ माधव लाल जांगिड, रेडियो फिटर, 01 जून 2008

653197 वा अ कसब चन्द्रा मजूमदार, रेडियो फिटर, 24 फरवरी 2008

653253 वा अ क्षत्रिय ए टी, रेडियो फिटर, 24 फरवरी 2008

653274 वा अ मनोरंजन पांडा, रेडियो फिटर, 12 फरवरी 2008

653281 वा अ परवीन चन्द्रा, रेडियो फिटर, 01 जून 2008

653314 वा अ मदन मोहन दिवेदी, रेडियो फिटर, 26 फरवरी 2008

653495 वा अ उदय नाथ, रेडियो फिटर, 22 फरवरी 2008

653519 वा अ कोमेश कुमार त्यागी, रेडियो फिटर, 12 फरवरी 2008

653734 वा अ लोकेश चन्द्र प्रजापति, रेडियो फिटर, 22 फरवरी 2008

654014 वा अ देवराज विलियम चार्ल्स, रेडियो फिटर, 01 जून 2008

654373 वा अ पदम सिंह सोगरवाल, रेडियो फिटर, 02 फरवरी 2008

654527 वा अ बहादुर सिंह त्यागी, रेडियो फिटर, 02 फरवरी 2008

672956 वा अ विनोद कुमार सिंह, रेडियो फिटर, 02 फरवरी 2008

673518 वा अ तेज नारायण मंडल, रेडियो फिटर, 01 दिसम्बर 2008

673622 वा अ टिंगसे यशवंत बापूरावजी, रेडियो फिटर, 01 दिसम्बर 2008

673947 वा अ जनार्दन कुमार दिवेदी, रेडियो फिटर, 01 दिसम्बर 2008

674220 वा अ जगदीश सिंह सोलंकी, रेडियो फिटर, 01 दिसम्बर 2008

674668 वा अ प्रेम लाल डेडेवा, रेडियो फिटर, 01 दिसम्बर 2008

626035 वा अ रामाचन्द्रन कृष्णन, रेडियो टेक्नीशियन, 07 फरवरी 2008

626421 वा अ नरेश कुमार सूद, रेडियो टेक्नीशियन, 01 फरवरी 2009

626776 वा अ कृष्ण सिंह यादव, रेडियो टेक्नीशियन, 03 फरवरी 2009

635843 वा अ चितरंजन दास, रेडियो टेक्नीशियन, 02 अक्टूबर 2006

638586 वा अ गजेन्द्र कुमार सिंह, रेडियो टेक्नीशियन, 28 जनवरी 2009

638619 वा अ कीर्ति बस दास, रेडियो टेक्नीशियन, 28 जनवरी 2009

638840 वा अ एस बाल रेड्डी (सिंगी रेड्डी), रेडियो टेक्नीशियन, 30 जनवरी 2009

638865 वा अ गोपाल सिंह, रेडियो टेक्नीशियन, 07 फरवरी 2009

638928 वा अ देवी चन्द, रेडियो टेक्नीशियन, 05 फरवरी 2009

639264 वा अ प्रदीप कुमार जयसवाल, रेडियो टेक्नीशियन, 13 फरवरी 2009

639781 वा अ रामहंस वर्मा, रेडियो टेक्नीशियन, 28 जनवरी 2009

653909 वा अ बिजय प्रताप पाण्डेय, रेडियो टेक्नीशियन, 13 फरवरी 2009

654082 वा अ सिंह जुगेन्द्र, रेडियो टेक्नीशियन, 30 जनवरी 2009

654203 वा अ अमान उल्लाह खान, रेडियो टेक्नीशियन, 02 अक्टूबर 2006

654208 वा अ लक्ष्मण कुमार यादव, रेडियो टेक्नीशियन, 09 फरवरी 2009

654471 वा अ अबनी बल्लव दत्ता, रेडियो टेक्नीशियन, 11 फरवरी 2009

654550 वा अ रवीन्द्र सिंह यादव, रेडियो टेक्नीशियन, 03 फरवरी 2009

672855 वा अ तारामणी बलगोत्रा, रेडियो टेक्नीशियन, 28 जनवरी 2009

672877 वा अ कवल जीत सिंह, रेडियो टेक्नीशियन, 30 जनवरी 2009

673044 वा अ चन्द्र भूषण सिंह, रेडियो टेक्नीशियन, 03 फरवरी 2009

673400 वा अ रणवीर सिंह शोरेण, रेडियो टेक्नीशियन, 02 अक्टूबर 2006



673454 वा अ बिनय भूषण पटनायक, रेडियो टेक्नीशियन, 02 अक्टूबर 2006

673544 वा अ श्रीपदा वेंकेटस्वरा राव, रेडियो टेक्नीशियन, 02 अक्टूबर 2006

673550 वा अ बसंत कुमार, रेडियो टेक्नीशियन, 02 अक्टूबर 2006

641018 वा अ सिया राम, एस ई डब्ल्यू, 02 अगस्त 2007

643622 वा अ के प्रेम नाथ, एस ई डब्ल्यू, 02 नवम्बर 2007

644452 वा अ नित्यानंद शर्मा, एस ई डब्ल्यू, 02 फरवरी 2008

644881 वा अ भुवनेश्वर प्रसाद, एस ई डब्ल्यू, 02 अगस्त 2007

644886 वा अ सुरेश कुमार चौधरी, एस ई डब्ल्यू, 02 अगस्त 2007

657168 वा अ गुरनाम सिंह, एस ई डब्ल्यू, 02 अगस्त 2007

657179 वा अ मोहन सिंह बघेल, एस ई डब्ल्यू, 02 अगस्त 2007

657454 वा अ श्यामघन साहू, एस ई डब्ल्यू, 27 जून 2008

657731 वा अ श्रीकृष्ण प्रसाद, एस ई डब्ल्यू, 02 सितम्बर 2007

658009 वा अ अशोक कुमार तिवारी, एस ई डब्ल्यू, 02 सितम्बर 2007

658010 वा अ सैयद जमाल हुसैन रिजवी, एस ई डब्ल्यू, 02 फरवरी 2008

658989 वा अ रामनरेश प्रसाद, एस ई डब्ल्यू, 27 जून 2008

662295 वा अ बलजीत सिंह, एस ई डब्ल्यू, 27 जून 2008

666856 वा अ बसब चन्द्रा सलोई, एस ई डब्ल्यू, 27 जून 2008

667639 वा अ सुरेश प्रसाद सिंह, एस ई डब्ल्यू, 27 जून 2008

635715 वा अ रघुवीर सिंह, टेलिस्ट आर टी ओ, 26 अप्रैल 2008

636123 वा अ मुहम्मद कलामुद्दीन, टेलिस्ट आर टी ओ, 26 अप्रैल 2008

636566 वा अ महेश चन्द्र मौर्य, टेलिस्ट आर टी ओ, 26 अप्रैल 2008

637845 वा अ मोहित चन्द्र शर्मा, टेलिस्ट आर टी ओ, 12 अक्टूबर 2008

636965 वा अ आनंदवीर, टेलिस्ट आर टी ओ, 26 अप्रैल 2008

637164 वा अ ओमप्रकाश सिंह, टेलिस्ट आर टी ओ, 26 अप्रैल 2008

637166 वा अ जवाहरलाल, टेलिस्ट आर टी ओ, 26 अप्रैल 2008

637283 वा अ संजय कुमार यादव, टेलिस्ट आर टी ओ, 26 अप्रैल 2008

637425 वा अ विष्णुदत्त भारद्वाज, टेलिस्ट आर टी ओ, 26 अप्रैल 2008

637499 वा अ श्रीनिवास चौहान, टेलिस्ट आर टी ओ, 26 अप्रैल 2008

637689 वा अ गंगानारायण पानिग्रही, टेलिस्ट आर टी ओ, 26 अप्रैल 2008

637789 वा अ मदनपाल सिंह, टेलिस्ट आर टी ओ, 12 अगस्त 2008

637820 वा अ रामचन्द्र सिंह, टेलिस्ट आर टी ओ, 12 अक्टूबर 2008

637908 वा अ उमाशंकर शर्मा, टेलिस्ट आर टी ओ, 26 अप्रैल 2008

638805 वा अ हरीमंगल, टेलिस्ट आर टी ओ, 26 अप्रैल 2008

643738 वा अ सुदर्शन सिंह यादव, वेपन फिटर, 02 नवम्बर 2007

657499 वा अ अमल कुमार दास, वेपन फिटर, 12 दिसम्बर 2007

657555 वा अ विनोद कुमार मिश्रा, वेपन फिटर, 11 अप्रैल 2007

657823 वा अ रंजीत कुमार घोषाल, वेपन फिटर, 09 अप्रैल 2007

658335 वा अ विनोद कुमार, वेपन फिटर, 01 जून 2007

658566 वा अ वीरेश कुमार तिवारी, वेपन फिटर, 11 अप्रैल 2007

658569 वा अ अशोक प्रसाद, वेपन फिटर, 11 अप्रैल 2007

658576 वा अ दिलीप सिंह जोधा, वेपन फिटर, 17 अप्रैल 2007

658828 वा अ अजित कुमार पाण्डेय, वेपन फिटर, 11 अप्रैल 2007

658844 वा अ रमेश चन्द्र पाण्डेय, वेपन फिटर, 11 अप्रैल 2007

658855 वा अ माखन लाल डे, वेपन फिटर, 01 जून 2007

658865 वा अ बिरमा राम राईका, वेपन फिटर, 17 अप्रैल 2007

659032 वा अ मोहिन्दर सिंह खटकर, वेपन फिटर, 17 अप्रैल 2007

659057 वा अ धनन्जय कुमार सिंह, वेपन फिटर, 13 अप्रैल 2007

659424 वा अ सुरेन्द्र सिंह मौर्य, वेपन फिटर, 13 अप्रैल 2007

659427 वा अ विनोद कुमार श्रीवास्तवा, वेपन फिटर, 13 अप्रैल 2007

659485 वा अ नकुल पोद्दार, वेपन फिटर, 01 जून 2007

659525 वा अ अशोक कुमार, वेपन फिटर, 01 जून 2007

659714 वा अ राजमणि दुबे, वेपन फिटर, 17 अप्रैल 2007

659988 वा अ लक्ष्मीधर परीक्ष्य, वेपन फिटर, 09 अप्रैल 2007

660038 वा अ कृष्ण मुरारी साहू, वेपन फिटर, 02 जनवरी 2008

660194 वा अ रवी प्रकाश पाण्डेय, वेपन फिटर, 03 जून 2007

660402 वा अ चन्द्रशेखर तिवारी, वेपन फिटर, 02 दिसम्बर 2007

660733 वा अ कौशलेन्द्र त्रिपाठी, वेपन फिटर, 02 जनवरी 2008

660774 वा अ सफी आलम, वेपन फिटर, 02 दिसम्बर 2007

660990 वा अ मोहम्मद मुस्तफा, वेपन फिटर, 02 मार्च 2008

661694 वा अ विश्वनाथ दास, वेपन फिटर, 19 अप्रैल 2007

661839 वा अ सुल्तान मुहम्मद माइदीन बासा, वेपन फिटर, 09 अप्रैल 2007

661879 वा अ अलखदेव राय, वेपन फिटर, 19 अप्रैल 2007

662004 वा अ राजीव कुमार गुप्ता, वेपन फिटर, 02 फरवरी 2008

662055 वा अ इन्दर कुमार वैद, वेपन फिटर, 02 दिसम्बर 2007

662204 वा अ विजेन्द्र कुमार, वेपन फिटर, 01 जून 2007

662799 वा अ रामकेवल, वेपन फिटर, 01 जून 2007

665021 वा अ गोपाल चन्द्र दास, वेपन फिटर, 19 अप्रैल 2007

665024 वा अ महेश पाल, वेपन फिटर, 19 अप्रैल 2007

666490 वा अ दिबाकर खटुआ, वेपन फिटर, 21 अप्रैल 2007

666746 वा अ विनय कुमार यादव, वेपन फिटर, 01 जून 2007

668975 वा अ शैलेन्द्र सिंह तेवतिया, वेपन फिटर, 01 जून 2007

669845 वा अ काम्बले रघुनाथ हम्बीर राव, वेपन फिटर, 01 जून 2007

293239 वा अ संतोष कुमार दीक्षित, डब्ल्यू एस फिटर (बी), 03 अप्रैल 2009

641968 वा अ अजोय सेन गुप्ता, डब्ल्यू एस फिटर (बी), 05 अप्रैल 2009

657305 वा अ दुखहरण प्रसाद, डब्ल्यू एस फिटर (बी), 07 अप्रैल 2009

658378 वा अ कुमुदरंजन प्रसाद सिंहा, डब्ल्यू एस फिटर (बी), 01 अप्रैल 2009

643752 वा अ ब्रह्मपाल सिंह नाडार, डब्ल्यू एस फिटर (सी), 02 अक्टूबर 2008

657954 वा अ तपन सेन, डब्ल्यू एस फिटर (सी), 02 अक्टूबर 2008

657868 वा अ पिस्तौल सिंह, डब्ल्यू एस फिटर (सी), 02 अक्टूबर 2008

660730 वा अ अशोक शर्मा, डब्ल्यू एस फिटर (सी), 02 मई 2008

644921 वा अ प्रमोद कुमार शर्मा, डब्ल्यू एस फिटर (एम), 02 अप्रैल 2005

644923 वा अ देववीर प्रसाद सिंह, डब्ल्यू एस फिटर (एम), 04 जुलाई 2005

658274 वा अ रबीन्द्र पाणिग्रही, डब्ल्यू एस फिटर (एम), 01 मार्च 2007

सेना शाखा

सं. 61, दिनांक 19 जनवरी 2011:--राष्ट्रपति स से मु सिविल सेवा की अनुभाग अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) श्रीमती निधि ओझा को स से मु सिविल सेवा नियमावली 2001 के नियम 7(8) के अंतर्गत वेतन बैंड-III में 6,600 रु. ग्रेड वेतन सहित 15,600--34,800 रु. वेतनमान में 11 जून 2009 से 31 दिसम्बर 2010 तक अथवा नियमित पदधारी मिलने तक, जो भी पहले हो, उप निदेशक (समूह 'क' राजपत्रित) के रूप में पदोन्नत करते हैं।

यह नियुक्ति पूर्णतः कामचलाऊ आधार पर की गई है और नियमित पदधारी मिलने पर अथवा प्रशासनिक कारणों से बिना कोई सूचना दिए समाप्त की जा सकती है।

स से मु सिविल सेवा नियमावली 2001 के नियम 7(8) के अंतर्गत प्रदान की गई पदोन्नति के आधार पर नियमित पदोन्नति/नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा। इस ग्रेड में उनकी वरिष्ठता उनकी नियमित नियुक्ति अर्थात् अनुभाग अधिकारी के लिए गिनी जाएगी।

सक्षम प्राधिकारी स से मु सिविल सेवा नियमावली के नियम 7(8) के अंतर्गत स से मु सिविल सेवा के निम्नलिखित सहायकों (समूह 'ख' अराजपत्रित) को वेतन बैंड-2 में 4,800/- रु. ग्रेड वेतन सहित 9,300--34,800/- रु. के वेतनमान में उनके नाम के सामने लिखी गई तारीख से दी गई अवधि तक अथवा सेवानिवृत्ति अथवा नियमित पदधारी मिलने तक, जो भी पहले हो, अनुभाग अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) के रूप में पदोन्नति प्रदान करते हैं :--

नाम, जन्म तिथि तथा अवधि

श्री आई सी शर्मा, 14 जून 1955--19 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक

श्री एस सी गर्ग, 03 जुलाई 1955--19 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक

यह नियुक्ति पूर्ण रूप से कामचलाऊ आधार पर की गई है और प्रशासनिक कारणों से अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर बिना कोई सूचना दिए समाप्त की जा सकती है।

स से मु सी एस आर 2001 के नियम 7(8) के अंतर्गत प्रदान की गई पदोन्नति के आधार पर नियमित पदोन्नति/नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा। इस ग्रेड में उनकी वरिष्ठता उनकी नियमित नियुक्ति अर्थात् सहायक के लिए गिनी की जाएगी।

ए के लारोइया  
उप मुप्रअ (प्रशा)

वित्त प्रभाग

अंजलि सिंह  
निदेशक  
वायु-1

सं. 62, दिनांक 19 जनवरी 2011--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में अनुभाग अधिकारी, श्री अशोक कुमार के अधिवर्षिता की

आयु प्राप्त होने पर उन्हें दिनांक 31 दिसम्बर 2010 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

पी एल जलवा  
सहायक वित्तीय सलाहकार (स्था)

सेना शाखा

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

सं. 63, दिनांक 19 जनवरी 2011--श्रीमती एस चेल्लम, संयुक्त निदेशक (स्व-स्थाने) के अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर राष्ट्रपति उन्हें 31 मार्च 2010 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करके 01 अप्रैल 2010 से पेंशन स्थापना में स्थानांतरित करते हैं।

अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सक्षम अधिकारी निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करके पेंशन स्थापना में स्थानांतरित करते हैं:--

नाम, सेवानिवृत्ति की तारीख तथा पेंशन स्थापना में स्थानांतरण की तारीख

श्री के एन चतुर्वेदी 31 मार्च 2010, 01 अप्रैल 2010

श्री सतीश कुमार 31 जुलाई 2010, 01 अगस्त 2010

श्री आर एल तक्खी 31 जुलाई 2010, 01 अगस्त 2010

श्री सुशील कुमार 31 अगस्त 2010, 01 सितम्बर 2010

ए के लारोड्या  
उप मुप्रअ (प्रशा)

सं. 64, दिनांक 20 जनवरी 2011--इस कार्यालय की दिनांक 15.12.2009 और 26.02.2010 की समसंख्यक अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1) तथा 19(1) के अनुसार समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 14.06.2008 की अधिसूचना संख्या 283 में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:--

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम और दूरभाष संख्या	अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम और दूरभाष संख्या	विषय-वस्तु
1	2	3
श्री के मुरली अवर सचिव, रक्षा (स्था.-I/युप-I) दूरभाष सं. 23012538	श्री मनीष पाठक, निदेशक (स्था.) 23014369	रक्षा मंत्रालय (सचिवालय) के राजपत्रित अधिकारियों के सभी स्थापना तथा प्रशासनिक मामले।
श्रीमती टी पी केरकेट्टा, अवर सचिव, रक्षा (स्था.-I/युप-II) दूरभाष सं. 23012846	-वही-	रक्षा मंत्रालय (सचिवालय) के अराजपत्रित कर्मचारियों (श्रेणी-IV को छोड़कर) के सभी स्थापना तथा प्रशासनिक मामले।
श्री एस के रस्तोगी अवर सचिव, रक्षा (स्था.-II/सामान्य) दूरभाष सं. 23015004	-वही-	रक्षा मंत्री/रक्षा राज्य मंत्री/रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री के आकस्मिक खर्चों का भुगतान। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सभी प्रशासनिक मामले, सभी अधिकारियों (राजपत्रित/अराजपत्रित) के रिहायशी मामले, सामान्य प्रशासनिक मामले। कार्यालय व्यय/वेतन तथा भत्ते/टी ए/डी ए आदि के बजट मामले आदि। सामान्य प्रकृति के अन्य कार्य।
श्री अंगना राम, अवर सचिव, रक्षा (श्रमिक) दूरभाष सं. 23012660	श्री नितिन चायांदे, निदेशक (सी पी), 23013416	रक्षा विभाग की निम्नतर विरचनाओं में काम करने वाले रक्षा सिविलियन, जिनके नियुक्ति प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति हैं, के अनुशासनिक विषय संबंधी व्यक्तिगत मामले, रक्षा विभाग की निम्नतर विरचनाओं में सिविलियनों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां, निम्नतर विरचनाओं में समूह 'क' और 'ख' कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/त्याग-पत्र, चल/अचल संपत्तियों का लेन-देन।
श्री एस एस एस शर्मा अवर सचिव, रक्षा (नियुक्तियाँ) दूरभाष सं. 23011449	-वही-	भर्ती नियम (समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' पदों के मामले में) बनाना/संशोधित करना। संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से समूह 'क' और 'ख' पदों के लिए सीधी भर्ती। समूह 'क' और 'ख' पदों में पदोन्नति। समूह 'क' पदों का स्थायीकरण और वरिष्ठता। समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' पदों के मामले में जन्मतिथि में परिवर्तन तथा सेवा दस्तावेजों को पुनः तैयार करना।

1	2	3
श्री एस शंकर अवर सचिव, रक्षा (जे सी एम) दूरभाष सं. 23011260	श्री नितिन चायांदे, निदेशक (सी पी), दूरभाष सं. 23013416	सी एस एस/सी एस सी एस/सी एस एस एस/ए एफ एच क्यू संवर्गों के कर्मचारियों को छोड़कर रक्षा मंत्रालय की निम्नतर विरचनाओं में काम करने वाले रक्षा सिविलियन कार्मिकों के सभी जे सी एम मामले। जे सी एम-II स्तर की परिषदों का पुनर्गठन तथा उनकी आवधिक बैठकें। केन्द्रीय सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक विकलांग कार्मिकों की संख्या के बारे में रिपोर्ट और विवरणी देना तथा इससे संबंधित अन्य मामले। हड़ताल मामले।
श्री एस अशरफ अवर सचिव, रक्षा (एजी-I) दूरभाष सं. 23017398	श्री नवीन कुमार निदेशक (ए जी) दूरभाष सं. 23014036	सांविधिक शिकायतें--सेना के अफसरों के अनुशासनिक विषयों संबंधी व्यक्तिगत मामले तथा सभी रैंकों की नीति। सभी सेना अफसरों/कार्मिकों के कोर्ट मार्शल तथा अनुशासनिक मामले, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भेजे गए मानवाधिकार उल्लंघन के अनुशासन संबंधी मामले।
श्री जे राय चौधरी, अवर सचिव, रक्षा (एजी-II) दूरभाष सं. 23018602	-वही-	सेना में भर्ती, सेवा संबंधी निबंधन और शर्तें, सेना अफसरों/कार्मिकों के लिए भर्ती नीति, जे सी ओ तथा एन सी ओ को ऑनरेरी रैंक/कमीशन दिए जाने संबंधी नीति; सेना कार्यालयों की प्रलेखन तथा अभिलेख संबंधी नीति; स्थायी कमीशन अल्पकालीन सेवा कमीशन, एस एल कमीशन तथा अंतर-सेनांग स्थानांतरण दिए जाने संबंधी नीति; अल्पकालीन सेवा कमीशन अफसरों के सेवाकाल विस्तार की नीति; सेना कार्मिकों के छुट्टी नकदीकरण, समस्त भारत में भर्ती कार्यालय/शाखा भर्ती कार्यालय/केन्द्र खोले जाने की नीति, सेना में भर्ती जालसाजी/अनियमितता से संबंधित नीतिगत मामले।
श्री परमजीत सिंह वालिया, अवर सचिव, रक्षा (वेतन/सेवाएं) दूरभाष सं. 23012739	-वही-	भारत तथा विदेश में सशस्त्र सेनाओं के अफसरों तथा कार्मिकों के वेतन तथा भत्तों से संबंधित मामले; ड्यूटी के दौरान यातायात दुर्घटनाएं तथा भारतीय सेना के कार्मिकों द्वारा किए गए अन्य कृत्यों के लिए अनुग्रह क्षतिपूर्ति के दावे, सेवा के दौरान दिवंगत रक्षा सेना कार्मिकों के परिवारों के लिए एकमुश्त क्षतिपूर्ति अनुग्रह राशि के भुगतान से संबंधित नीति। सेना अफसरों/कार्मिकों को फील्ड सेवा रियायतें प्रदान करने संबंधी नीति, मृतक सेना अफसरों की संपत्तियों का सेना तथा वायुसेना (निजी संपत्ति का निपटान) अधिनियम 1950 के उपबंधों के अधीन निपटान किए जाने के बारे में संबंधित मामले।
श्री ए के घोष अवर सचिव, रक्षा (संसद/सीआर/कल्याण) दूरभाष सं. 23012560	श्री एस डी पॉल, निदेशक (संसद)	संसदीय कार्य मामले--समन्वय, नीति और उनकी प्रक्रियाएं। रक्षा मंत्रालय से संबद्ध संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों से संबंधित कार्य। संसद सदस्यों की विभिन्न संसदीय समितियों (वित्त समिति को छोड़कर) द्वारा की गई सिफारिशों से उत्पन्न कार्य। संसद के प्रत्येक सत्र के शुरू होने से पहले संसद के दोनों सदनों के लिए राष्ट्रपति के संबोधन में शामिल किए जाने के लिए सामग्री की सफाई करने का समन्वय कार्य, विधायी तथा अन्य प्रस्ताव और प्रधान मंत्री कार्यालय के लिए संक्षिप्त ब्यौरा। रक्षा मंत्रालय सचिवालय के साथ-साथ रक्षा उत्पादन विभाग और अनुसंधान तथा विकास विभाग में तैनात कर्मचारियों से संबंधित कल्याण कार्यक्रम। 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित विषयों का समन्वय।
श्री एम एस शर्मा अवर सचिव, रक्षा (सिव.-I/सी एम यू) दूरभाष सं. 23014675	श्री एस एस मेहरा, उप सचिव (सी + एम आई एस) दूरभाष सं. 23011681	रक्षा सिविल कर्मचारियों से संबंधित मामले; अदालती मामलों तथा अवमानना मामलों की मॉनीटरी तथा अदालती मामलों से संबंधित अन्य मामलों की मॉनीटरी।
श्रीमती डी रे अवर सचिव, रक्षा (सिव.-II) दूरभाष सं. 23012414	-वही-	सिव.-I अनुभाग के अंतर्गत आने वाले रक्षा सिविलियन कर्मचारियों से भिन्न अन्य कर्मचारियों से संबंधित मामले।

1	2	3
श्री के के दैमारी, अवर सचिव (ओ/एम) दूरभाष सं. 23013963	श्री एस एस मेहरा, उप सचिव (सी + एम आई एस) दूरभाष सं. 23011681	कार्यालय पद्धति, रिकॉर्ड प्रबंधन, कार्य का युक्तिकरण, वी आई पी संदर्भों की मॉनीटरी, मंत्रियों के बीच कार्य का आबंटन, मंत्रालय के अराजपत्रित स्टाफ का प्रशिक्षण, विवादित संदर्भ, प्रवेश सामग्री, रक्षा मंत्रालय में सर्वश्रेष्ठ संगठित अनुभागों हेतु रक्षा मंत्री की चल ट्राफी।
श्री रामेन्द्र सिंह भाटिया, उप सचिव (वायु-II) दूरभाष सं. 23012034	श्री आर के घोष संयुक्त सचिव तथा ए एम (वायु) दूरभाष सं. 23014944	रक्षा मंत्रालय में वायु अर्जन (पूँजीगत) विंग से संबंधित मामले।
श्रीमती अंजलि सिंह, निदेशक (वायु-I) दूरभाष सं. 23011872	श्री सुभाष चन्द्र संयुक्त सचिव (जी/वायु) दूरभाष सं. 23011410	पूँजीगत अर्जन तथा राजस्व अधिप्राप्ति को छोड़कर भारतीय वायुसेना से संबंधित सभी मामले।
श्री के एल नंदवानी, उप सचिव (एम एस) दूरभाष सं. 23017523	-वही-	राष्ट्रपति के प्रधान ऑनरेरी/ऑनरेरी ए डी सी/सैन्य सचिव की नियुक्ति। सिविलियन/सैन्य अफसरों का ऑनरेरी रैंक दिया जाना। मेजर जनरल तथा इससे ऊपर के रैंक के अफसरों की प्रतिनियुक्ति/प्रतिनियुक्ति को बढ़ाना तथा उनकी तैनाती। मेजर जनरल तथा इनसे ऊपर के रैंक के सेवानिवृत्त/सेवामुक्त सैन्य अफसरों को व्यावसायिक नियुक्ति हेतु स्वीकृति की अनुमति से संबंधित व्यक्तिगत मामले। लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक पर मूल पदोन्नति। ब्रिगेडियर तथा उनसे ऊपर के कार्यकारी रैंक में पदोन्नति। सेना के अफसरों की जन्मतिथि में परिवर्तन/सत्यापन। सेना अफसरों के संबंध में भाग घ परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति। मेजर जनरल तथा उनसे ऊपर के अफसरों की समयपूर्व सेवानिवृत्ति/त्याग-पत्र/सेवामुक्ति। अधिवर्षिता की आयु के बाद सेवा विस्तार। वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट तथा अधिक्रमण/वरिष्ठता/पदोन्नति/तैनाती के खिलाफ सांविधिक शिकायतें। रिजर्व दायित्व का वहन करने वाले अफसरों को विदेश जाने की अनुमति। छुट्टी का विनियमन।
श्री आलोक श्रीवास्तव, निदेशक (प्रोक), दूरभाष सं. 23011455	श्री जतिन्द्रबीर सिंह, संयुक्त सचिव एवं ए एम (एल एस), दूरभाष सं. 23015952	तोपखाना, सेना विमानन कोर, कवचित कोर, वायु रक्षा तोपखाना, क्यू मूव (प्लानिंग) इन्फैन्ट्री, पैरामिलिट्री (विशेष बल), केन्द्रीय मॉनीटरी संगठन तथा सैन्य आसूचना की पूँजीगत अधिप्राप्ति से संबंधित मामले।
श्री पंकज गुप्ता उप सचिव (जीएस-IV) दूरभाष सं. 23019748	-वही-	सिगनल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनाइज्ड इन्फैन्ट्री, ई एम ई तथा इंजीनियर के पूँजीगत अधिप्राप्ति से संबंधित मामले।
श्री आर सी गुप्ता, निदेशक (एम सी) दूरभाष सं. 23018304	-वही-	'ओ' विंग तथा अर्जन विंग द्वारा किए गए संविदागत प्रावधान के भीतर सभी विदेशी संविदाओं की मॉनीटरी।
श्री प्रवीन कुमार, अवर सचिव (ऑप.)/(नौसेना-II) दूरभाष सं. 23011734	श्री डी. एस. चावला निदेशक (नौसेना-I) दूरभाष सं. 23014563	नौसेना मुख्यालय के संक्रियात्मक मामले।
श्री दिवाकर मिश्रा, अवर सचिव (एम पी) (नौसेना-II) दूरभाष सं. 23011734	-वही-	सिविलियन (गुप क को छोड़कर) के सेवा मामले, नौसेना के जनशक्ति मामले, नौसेना में प्रतिनियुक्ति और प्रशिक्षण।
श्री आशीष शर्मा, अवर सचिव (पी)/(नौसेना-II) दूरभाष सं. 23011774	-वही-	नौसेना अफसरों के सभी सेवा मामले।

1	2	3
श्री आर पी सिंह अवर सचिव (नौसेना-III) दूरभाष सं. 23011734	श्री डी. एस. चावला, निदेशक (नौसेना-I) दूरभाष सं. 23014563	नौसेना के सभी अवसंरचना परियोजना। भूमि अर्जन/रिलीज, अचल संपत्ति से संबंधित मामले, नौसेना से संबंधित अंडमान और निकोबार का विकास, सिविल कार्य, नौसेना हवाई अड्डों का अनुरक्षण और विस्तार कार्य।
श्री के सुधाकरण, अवर सचिव (नौसेना-IV) दूरभाष सं. 23016099	श्री संजय कुमार ओझा, निदेशक (नौसेना-II) दूरभाष सं. 23012429	नौसेना मुख्यालय के राजस्व अधिप्राप्ति मामले।
श्री टी सी शर्मा, अवर सचिव (सी जी) दूरभाष सं. 23013858	-वही-	तटरक्षक के सभी मामले।
श्री एन के कश्मोरा अवर सचिव, रक्षा (ओ-II) दूरभाष सं. 23012085	श्री ..... उप सचिव (ओ) दूरभाष सं. 23010461	ए एम सी, ई एम आर, इन्फैन्ट्री निदेशालय, यंत्रीकृत बलों और सेना विमानन के स्थापना/प्रशासनिक मामले। संसद सदस्यों/विशिष्ट व्यक्तियों आदि को वाहन जारी करने सहित अधिशेष रक्षा सामान और वाहन के निपटान से संबंधित मामलों संबंधी नीति।
श्री एस के तंवर अवर सचिव (ओ-I) दूरभाष सं. 23012770	-वही-	ई एम ई, पी एन वी डी के लिए इंजीनियरी उपस्करों की राजस्व अधिप्राप्ति, सैन्य उपस्करों तथा कवचित वाहनों के लिए हिस्से-पुर्जे, गोलाबारूद।
श्री प्रदीप कुमार अवर सचिव, रक्षा (मूव) दूरभाष सं. 23012962	श्री अनिल बहुगुणा, निदेशक (क्यू) दूरभाष सं. 23011372	सी एस डी, डी एस सी, ए पी एस, मूव निदेशालय, ओ एल निदेशालय, डब्ल्यू ई निदेशालय से संबंधित मामले।
श्री ए वी बागुर अवर सचिव (क्यू एस) दूरभाष सं. 23013347	-वही-	ए एस सी, एस टी निदे., आर वी सी, सैन्य फार्म, सिग्नल निदे., वायु रक्षा तोपखाना, तोपखाना, पायनियर निदे., ओ एल निदे., से संबंधित मामले।
श्री हरि सिंह, अवर सचिव (डी एम आर एंड एफ) दूरभाष सं. 26106225	-वही-	डी एम आर एंड एफ से संबंधित मामले।
श्री के एस राणा, अवर सचिव (मेड) दूरभाष सं. 23016684	श्री डी के बैनर्जी, उप सचिव (मेड) दूरभाष सं 23793714	डी जी ए एफ एम एस से संबंधित सभी मामले।
श्री ए एम मणिचन, अवर सचिव (आई सी-IV) दूरभाष सं. 23011905	श्री आशीष जैन, निदेशक (आईसी-III) दूरभाष सं 23793835	रक्षा योजना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
श्री एम एल मीणा, अवर सचिव (आइ टी-समन्वय) दूरभाष सं. 23793681	श्री मुरलीधर पाण्डेय, निदेशक (समन्वय) दूरभाष सं 23015187	उन्हें आबंटित विषयों से संबंधित मामले।
श्री एस डी भसोर अवर सचिव (समन्वय) दूरभाष सं. 23012729	-वही-	उन्हें आबंटित विषयों से संबंधित मामले।
श्री वी के भाटिया, उप मु.क्र.नि. से क्र सं. दूरभाष सं. 23012581	ब्रिगेडियर आर के कोहली, मुख्य क्रय निदेशक दूरभाष सं. 23384358	सशस्त्र सेनाओं को खाद्य पदार्थों की अधिप्राप्ति से संबंधित सभी मामले।

1	2	3
श्री के बी नय्यर, अवर सचिव (सतर्कता) दूरभाष सं. 23012581	श्री पी के गुप्ता, निदेशक (सतर्कता) दूरभाष सं. 23012304	रक्षा मंत्रालय से संबंधित वायु मुख्यालय, डी आर डी ओ, एन डी ए तथा ई- इन-सी शाखा को छोड़कर सतर्कता संबंधी तथा शिकायती मामले (डी डी पी के अलावा)। उपर्युक्त कर्मचारियों के संबंध में सतर्कता स्वीकृति। सी बीआई मामलों को विशेष प्रकोष्ठ देख रहा है। रक्षा मंत्रालय से संबंधित (डी डी पी के अलावा) मुकद्दों की मंजूरी देना।
श्री आर के वर्मा अवर सचिव (सतर्कता) दूरभाष सं. 23014067	-वही-	रक्षा मंत्रालय (डी डी पी के अलावा) से संबंधित सतर्कता वाले अनुशासनिक मामले, जो वायु मुख्यालय, डी आर डी ओ, एनडीए से संबंधित हों। उपर्युक्त कार्यालयों के कार्मिकों से संबंधित सतर्कता स्वीकृति और शिकायती मामले।

क्रम संख्या 26 में केन्द्रीय सूचना अधिकारी के नाम के मामले में नियमित पदधारी के आने तक, लिंक अफसर अथवा ऐसे अफसर जिन्हें उपर्युक्त पदों का कार्यभार सौंपा गया है, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी मानित होंगे। यदि अधिसूचना में उल्लिखित अफसरों में से किसी ने प्रभार छोड़ दिया है अथवा वह प्रशिक्षण अथवा लम्बी छुट्टी पर है तो उसका लिंक अफसर अथवा वह अफसर जिसे प्रभार सौंपा गया हो, नियमित अथवा नियमित पदधारी के प्रभार लेने तक, केन्द्रीय जन-सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी की भूमिका निभाएगा।

ऐसे विषय जो उपर्युक्त केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी को सौंपे गए विषयों में कवर नहीं होते हैं वे इस विषय में पूर्व की अधिसूचना के अनुसार यथावत् रहेंगे।

के मुरली  
अवर सचिव

सं. 65, दिनांक 20 जनवरी 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मैकनाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेंट

शुद्धि-पत्र

भारत के राजपत्र सं. 284 दिनांक 11 मई 2010 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 23 दिनांक 11 जून 2010 शीर्षक नियमित सेना उपशीर्षक "इन्फैन्ट्री और मैकनाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेंट" के नीचे निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

नायब सूबेदार के रैंक में

के स्थान पर :

हवलदार क्रिशन कुमार (सं. 14917375एफ अब जेसी-421471पी), 10 नवम्बर 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

पढ़ा जाए :

हवलदार क्रिशन कुमार (सं. 14917375एफ अब जेसी-421471पी), 10 नवम्बर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

जे रॉय चौधरी  
अवर सचिव

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 12th February 2011

## D(MS)/SECTION

No. 52, dated 17th January 2011—The President has made the following appointment on her Honorary Personal Staff with effect from 01st Dec 2010 :—

## Honorary Air ADC

Air Marshal NAK Browne, PVSM, AVSM, VM (13129) F(P)

## Honorary Army ADC (Inf)

IC-24584 Lt Gen BS Jaswal, PVSM, AVSM\*\*, VSM

Vice IC-24178 Lt Gen PC Bhardwaj, PVSM, AVSM, VrC, SC, VSM (Retd)

## Honorary Army ADC (Arty/AAD)

IC-32844 Lt Gen Ram Pratap, AVSM, VSM (ADD)

Vice IC-24198 Lt Gen CKS Sabu, PVSM, AVSM, VSM (Arty) (Retd)

## Honorary Army ADC (ASC/AOC/EME)

IC-27767 Lt Gen Pradeep Bhalla, VSM (AOC)

Vice IC-24219 Lt Gen AKS Chande, PVSM, AVSM (EME) (Retd)

The President has made the following appointment on her Honorary Personal Staff with effect from 01st January 2011 :—

## Honorary Army ADC (Inf)

IC-25434 Lt Gen SR Ghosh, AVSM, SM

Vice IC-24260 Lt Gen BS Nagal, PVSM, AVSM, SM (Retd)

## Honorary Air ADC

Air Marshal GS Kochar, AVSM, VM, (13149 F(P)

Air Marshal S Mukerji, SC, VSM, (12925) F(P)

R SUNDER  
Under Secy

## ARMY BRANCH

No. 53, dated 17th January 2011—The President is pleased to extend the appointment of the following officiating Deputy Directors under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules, 2001 with effect from and upto the dates mentioned against their names or till retirement or till regular incumbents become available whichever is earlier :—

Name, Date of birth & Appointment (from/upto)

Abinash Kumar, 16 Nov 1965, 01 Jan 2010/31 Dec 2010

Anupam Mishra, 29 Jul 1967, 01 Jan 2010/31 Dec 2010

Arvind, 17 Jun 1969, 01 Jan 2010/31 Dec 2010

Arvind Bakshi, 21 Sep 1957, 01 Jan 2010/31 Dec 2010

CP Gusia, 03 Jan 1964, 01 Jan 2010/31 Dec 2010

Deepak Khosla, 13 Jun 1967, 01 Jan 2010/31 Dec 2010

KN Mishra, 17 Jul 1954, 01 Jan 2010/31 Dec 2010

M Chandrashekhar, 17 Jul 1969, 01 Jan 2010/31 Dec 2010

Nidhi Ojha, 26 Sep 1972, 01 Jan 2010/31 Dec 2010

Nishi Srivastava, 08 Nov 1966, 01 Jan 2010/31 Dec 2010

Nirmal Wadhwa, 23 Jun 1958, 01 Jan 2010/31 Dec 2010

Pragya Shantanu, 06 Jun 1969, 01 Jan 2010/31 Dec 2010

Rajesh Tiwari, 30 Jun 1961, 01 Jan 2010/31 Dec 2010

SC Pujari, 26 Jan 1955, 01 Jan 2010/31 Dec 2010

Shiv Ram Bairwa, 11 Sep 1965, 01 Jan 2010/01 Feb 2010

SK Mishra, 25 Jan 1962, 01 Jan 2010/31 Dec 2010

The appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

There will be no claim for regular promotion/appointment on the basis of promotion granted under Rule 7(8) of AFHQ CSR 2001

The Competent Authority is pleased to extend the appointment of the following officiating Section Officers under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules, 2001 with effect from the date mentioned against their names or till retirement or till regular incumbents become available whichever is earlier :—

Name, Date of birth & Period (from/to)

Gulshan Rai, 30 Oct 1968, 01 Jan 2010/31 Dec 2010

A K L Das, 26 Jan 1966, 01 Jan 2010/31 Dec 2010

Desh Raj, 05 Oct 1955, 01 Jan 2010/31 Dec 2010

Dipak Kumar Das, 01 Aug 1966, 01 Jan 2010/31 Dec 2010

SK Melkani, 20 May 1967, 01 Jan 2010/31 Dec 2010

Devi Dayal, 14 May 1953, 01 Jan 2010/31 Dec 2010

Raminder Singh, 29 May 1969, 01 Jan 2010/31 Dec 2010

Ashis Ray, 07 Jul 1969, 01 Jan 2010/31 Dec 2010



RK Talwar, 25 Dec 1951, 01 Jan 2010/31 Dec 2010  
 KN Chaturvedi, 07 Mar 1950, 01 Jan 2010/31 Mar 2010  
 Pankaj Bharati, 09 Jul 1971, 01 Jan 2010/31 Dec 2010  
 Ram Niwas, 14 May 1951, 01 Jan 2010/31 Dec 2010  
 Satish Kumar, 05 Jul 1950, 01 Jan 2010/31 Jul 2010  
 Binoda Nand Jha, 10 Oct 1968, 01 Jan 2010/31 Dec 2010  
 Shiv Kumar, 23 Feb 1971, 01 Jan 2010/31 Dec 2010  
 RC Sahoo, 13 Jun 1973, 01 Jan 2010/31 Dec 2010  
 Ashok Kumar, 02 Jul 1969, 01 Jan 2010/31 Dec 2010  
 Sushil Kumar, 20 Aug 1950, 01 Jan 2010/31 Aug 2010  
 Sajjan Lal, 05 Oct 1973, 01 Jan 2010/31 Dec 2010  
 BD Prasad, 06 Dec 1951, 01 Jan 2010/31 Dec 2010  
 MC Vashist, 28 Apr 1954, 01 Jan 2010/31 Dec 2010  
 RP Singh, 07 Jan 1951, 27 May 2010/26 Nov 2010

The appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents

There will be no claim for regular promotion/appointment on the basis of promotion granted under rule 7(8) of AFHQ CSR 2001. The seniority in this Grade will count towards his regular appointment i.e. Assistant.

A K LAROYA  
 Dy CAO (A)

#### ARMY BRANCH

No. 54, dated 17th January 2011—The President is pleased to make the following appointments:—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

(To be Lts wef 12 Jun 2010)

The undermentioned Gentlemen Cadets of 126 Regular Course (126 DE, 116 Ex NDA and 93 Ex ACC) are granted Permanent Commission in the Army in the rank of Lt wef 12 Jun 2010 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC).

IC No., Name, Arm/Service

(IC-72199H) Sumeet S Lahane, AC  
 (IC-72200M) Gaurav Hridaya, Inf  
 (IC-72201P) Yogendra Kathayat, Inf  
 (IC-72202X) Tul Bahadur Gurung, Inf

(IC-72203A) Vaibhav Kumar Mishra, Inf  
 (IC-72204H) Rohit Salaria, Inf  
 (IC-72206N) Anuj Sharma, Inf  
 (IC-72207W) Ajay Dhanik, Engrs  
 (IC-72208Y) Prabhat Singh Rana, Inf  
 (IC-72209F) Sunny Gurung, Inf  
 (IC-72210W) Rudrakumar C Sulikeri, Arty  
 (IC-72211Y) Abhishek Kumar, Sigs  
 (IC-72212F) Vikas Yadav, ASC  
 (IC-72213K) Rampreet Singh, Inf  
 (IC-72214M) Avinash Sahani, Inf  
 (IC-72215P) Siddharth Mishra, Arty  
 (IC-72216X) Vikash, AAD  
 (IC-72217A) Saurabh Tripathi, Inf  
 (IC-72218H) Paramjeet Jakhar, Inf  
 (IC-72219L) Sujay Santoshkumar Ghorpade, Arty  
 (IC-72220A) Setu Vikas, Arty  
 (IC-72221H) Kale Manas Madhukar, Inf  
 (IC-72222L) Vijesh Kumar, Inf  
 (IC-72223N) Ravinder Singh, EME  
 (IC-72224W) Girish Kumar B V, Mech  
 (IC-72225Y) Vivek Subhash Kalukhe, AC  
 (IC-72226F) Garjinder Singh, Arty  
 (IC-72227K) Anshuman Gairola, Inf  
 (IC-72228M) Chitre Vaibhav Prakash, AOC  
 (IC-72229P) Kartikeya Manral, Inf  
 (IC-72230K) Priyank Puri, Arty  
 (IC-72231M) Ashok Jakhar, Inf  
 (IC-72232P) Shinde Shrikant Pandharinath, AVN  
 (IC-72233X) Ankit Mishra, Inf  
 (IC-72234A) B Saravanan, Inf  
 (IC-72235H) Madhav Basavaraj Iliger, Arty  
 (IC-72236L) Manish Kumar Rai, Arty  
 (IC-72237N) Abhay Sharma, Arty  
 (IC-72238W) Ravi Prakash Singh, Inf  
 (IC-72239Y) Palugulla Mastanreddy, Int  
 (IC-72240N) Anadi Jyoti Singh, Arty  
 (IC-72241W) Robin Thakur, Arty  
 (IC-72242Y) Pushkar Basu, Arty

(IC-72243F) Sakil Ahmad, Arty	(IC-72283H) Sangamesh Shivabasappa Mole, Inf
(IC-72244K) Snehit Niranjana Gawande, AAD	(IC-72284L) Nishchal Bharadwaj, AOC
(IC-72245M) Pujam Manhas, AOC	(IC-72285N) Sharma Baljit Jagannath, Arty
(IC-72246P) Praveen Kumar Singh, Arty	(IC-72286W) Gaurav Tewari, AC
(IC-72247X) Lama Bikash, ASC	(IC-72287Y) Virendrapal Singh Deora, Arty
(IC-72248A) Nitin Gautam, Inf	(IC-72288F) Aliyar A, Inf
(IC-72249H) Maneet Kumar Pant, Inf	(IC-72289K) Vipin Bais, Inf
(IC-72250X) Tejas Bharat Deshpande, Inf	(IC-72290Y) Rakesh Singh, Inf
(IC-72251A) Mhakala Shravan Kumar, Inf	(IC-72291F) Anubhav Sharma, Arty
(IC-72252H) Nitin Dhaania, Inf	(IC-72292K) Ankit Singh, AC
(IC-72253L) Navin Shiroadkar, EME	(IC-72293M) Ambesh Bhaskar, Mech
(IC-72254N) Ajay Singh Pathania, ASC	(IC-72294P) Rohit Kumar, Arty
(IC-72255W) Vineet Kumar, Arty	(IC-72295X) Sneh Kumar, Arty
(IC-72256Y) Baride Tanmay Mukund, AC	(IC-72296A) Attish Sharma, Inf
(IC-72257F) Shree Ram Bhamu, Inf	(IC-72297H) Tajvir Kadyan, AOC
(IC-72258K) Avneet Kumar, Inf	(IC-72298L) Anmol Kumar, EME
(IC-72259M) Neeraj Kumar Dubey, AOC	(IC-72299N) Rahul Verma, Mech
(IC-72260F) Hemant Dutta, Inf	(IC-72300X) Pawan Bhardwaj, Inf
(IC-72261K) Raj Singh, Arty	(IC-72301A) Suyog Gowardhan Khadatkhar, Arty
(IC-72263P) Mayekar Sameer Suresh, Inf	(IC-72302H) Savant Shounak Sushil, AC
(IC-72264X) Brijesh Kumar, ASC	(IC-72303L) Randeep Singh Randhawa, Inf
(IC-72265A) Gaurav Dahiya, Inf	(IC-72304N) Sandeep Singh, Arty
(IC-72266H) Deepak Dalal, Engrs	(IC-72305W) Nikhilesh Kumar Sahu, Arty
(IC-72267L) Sharad Sagar Joshi, Arty	(IC-72306Y) Sahil Dua, EME
(IC-72268N) Avinash Kumar, Arty	(IC-72307F) V Rahul Saxena, Inf
(IC-72269W) Rajat Gaur, Sigs	(IC-72308K) Pawan Kumar Dubey, Engrs
(IC-72270L) Girish Chandra Joshi, Inf	(IC-72309M) Karan Khanna, Arty
(IC-72271N) Ranjeet Singh, AAD	(IC-72310F) Rajeev Ranjan Rai, ASC
(IC-72272W) Pritam Pryadarshi, Inf	(IC-72311K) Aman Lamba, Inf
(IC-72273Y) Abhishek Sharma, ASC	(IC-72312M) Sagar Bastia, Inf
(IC-72274F) Alok Kumar Singh, Inf	(IC-72313P) Rohan Singh Rawat, Inf
(IC-72275K) Palwinder Singh, ASC	(IC-72314X) Saurabh Siddharth, Inf
(IC-72276M) Dharendra Pratap Singh, Inf	(IC-72315A) Mahaveer Prasad, AVN
(IC-72277P) Sushant Rai, Inf	(IC-72316H) Arnab Anand Sanyal, Arty
(IC-72278X) Shikhar Tyagi, Arty	(IC-72318N) Dileepu Kumar Sanapala, Mech
(IC-72279A) Saurabh, Arty	(IC-72319W) Raghavendra Singh Rathore, AAD
(IC-72280P) Nikhil Jha, Engrs	(IC-72321N) Dhruv Vashist, ASC
(IC-72281X) Abhijeet Singh, Inf	(IC-72322W) Abhishek Sharma, Inf
(IC-72282A) Navjot Singh, Arty	(IC-72323Y) Nikhil Teotia, Arty

(IC-72324F) Deepak Singh Mehta, Inf	(IC-72364H) Taposh Bose, ASC
(IC-72325K) Ankit Thakur, Arty	(IC-72365L) Kavi Kashyap Mithilajee, AAD
(IC-72326M) Tushar Mahajan, Inf	(IC-72366N) Raj Kamal, Arty
(IC-72327P) Kunal Sharma, Inf	(IC-72367W) Mohit Singh, Arty
(IC-72328X) Valaparla Vidya Sagara Rao, Inf	(IC-72368Y) Nanha Durgesh, Arty
(IC-72329A) Vasudeo Damodar Awari, Arty	(IC-72369F) Anshul Kumar Yadav, Inf
(IC-72331X) Anurag Dwivedi, Inf	(IC-72370W) Liju R, Inf
(IC-72332A) Amit S Baradwaj, AOC	(IC-72371Y) Arun Kumar Pandey, Inf
(IC-72333H) Harish Thakur, Inf	(IC-72372F) Sonup Kumar Tripathy, Arty
(IC-72334L) Gaurav Kumar Thapliyal, Inf	(IC-72373K) Bresh Singh, AC
(IC-72335N) Sandeep Kumar Jakhar, AOC	(IC-72374M) Sanjesh Khyalia, Inf
(IC-72336W) Binu V S, Engrs	(IC-72375P) Renjith R, EME
(IC-72337Y) Santosh Kumar Pandey, Mech	(IC-72376X) Md Raja Hussain Azad, ASC
(IC-72338F) Basant Kumar Vishwakarma, Inf	(IC-72377A) Satya Jeet, AOC
(IC-72339K) Vinod Chandra Norki, AC	(IC-72378H) Dharmendra Pandey, EME
(IC-72340Y) Devanshu Paliwal, Arty	(IC-72379L) Sachin Kumar Agarwal, Inf
(IC-72341F) Ved Prakash, AAD	(IC-72380A) Preetam Kumar, Engrs
(IC-72342K) Rohit Kumar Singh, Arty	(IC-72381H) Yudhvir Singh Takhar, Arty
(IC-72343M) Anupam Prajapati, Inf	(IC-72382L) Chandan Singh, Inf
(IC-72344P) Animesh Kumar Jha, EME	(IC-72383N) Rakesh Singh, Inf
(IC-72345X) Toshikaba, Int	(IC-72384W) Anand Swarup, Mech
(IC-72346A) Kumar Rishabh, Inf	(IC-72385Y) Narender Singh, Inf
(IC-72347H) Amit Singh Tomar, AC	(IC-72386F) Amresh, AOC
(IC-72348L) Ashutosh Kumar, Sigs	(IC-72387K) Amar Kant Sharma, Arty
(IC-72349N) Vinod Dhankhar, Arty	(IC-72388M) Abhinav Bhardwaj, Inf
(IC-72350H) Ahmed Pasha, Inf	(IC-72389P) Mehtab Singh Khatana, Inf
(IC-72351L) Kuldeep Singh, Inf	(IC-72390K) Pravin Kumar, Inf
(IC-72352N) Deepak Kumar Singh, Arty	(IC-72391M) Anuj Kumar, Inf
(IC-72353W) Amit Kumar Singh, Arty	(IC-72392P) Aditya Sinha, ASC
(IC-72354Y) Mangeshwar Singh, Inf	(IC-72393X) Amit Thapa, Inf
(IC-72355F) Dinesh Khanderao Kamble, ASC	(IC-72394A) Umesh Shrivastava, Arty
(IC-72356K) Arun Bhardwaj, Arty	(IC-72395H) Karunakar Upadhyay, Arty
(IC-72357M) Neeraj Parmar, Engrs	(IC-72396L) Rahul Malik, ASC
(IC-72358P) Sushil Bisht, Arty	(IC-72397N) Rohan Nandal, AOC
(IC-72359X) Sandeep Kumar, Inf	(IC-72398W) S Balasubramanian, Inf
(IC-72360M) Randhishwar Singh, Inf	(IC-72400H) Ajay Pal Singh Mann, AC
(IC-72361P) Amod Kumar, ASC	(IC-72401L) Vijender Pal Singh, Arty
(IC-72362X) Vikas Panghal, AC	(IC-72402N) Rakesh Ranjan, Inf
(IC-72363A) Sumit Kumar Mahata, Inf	(IC-72403W) Siddhartha Sinha, Inf

(IC-72404Y) Radhakrishnan P, Inf	(IC-72444A) Hari Louis Gopalakrishnan, Inf
(IC-72405F) Sumeet Luhach, Inf	(IC-72445H) Ajay Chambial, Inf
(IC-72406K) Siddharth Samant, Arty	(IC-72447N) Ashish Kumar, Arty
(IC-72407M) Rohin Anand, Arty	(IC-72448W) Arun Kumar Sharma, Int
(IC-72408P) Kshitij Khare, Arty	(IC-72449Y) Amit Kumar Saini, Inf
(IC-72409X) Krishna Singh, Inf	(IC-72450N) Kshitij Mishra, EME
(IC-72410M) Devesh Singh, Inf	(IC-72451W) Tarun Wadhwa, Arty
(IC-72411P) Mayank Bhardwaj, AOC	(IC-72452Y) Ravi Dhaka, Mech
(IC-72412X) Pankaj Chand Thakur, Engrs	(IC-72453F) Subodh Kumar Gangwar, ASC
(IC-72413A) Priyadarshi, AAD	(IC-72454K) Harendra Kumar, Inf
(IC-72414H) Nikhil Pargal, Arty	(IC-72455M) Vikas Kumar, Inf
(IC-72415L) Amit Kumar Yadav, Inf	(IC-72456P) Abhishek Kumar Singh, Sigs
(IC-72416N) Naveen Kumar Bohra, Arty	(IC-72457X) Nagare Ashirwad Rajabhau, Inf
(IC-72417W) Abhishek Kumar, Inf	(IC-72458A) Amit Kumar, Inf
(IC-72418Y) Chandra Shekhar, EME	(IC-72459H) Kuldeep Sharma, AC
(IC-72419F) Mahabir Singh, Inf	(IC-72460X) Ritesh Roy, Arty
(IC-72420W) Harish Garg, Arty	(IC-72461A) Kanwaljeet Singh Budhwar, Inf
(IC-72421Y) Jaiveer Singh, AVN	(IC-72462H) Shilpam Bharali, Engrs
(IC-72422F) Dilbagh Singh, Arty	(IC-72463L) Saurabh Lahiri, Arty
(IC-72423K) Vipin P Menon, AAD	(IC-72464N) Bibhanshu Dhondiyal, Inf
(IC-72424M) Satish Kumar R, Engrs	(IC-72465W) Atul Srivastava, AAD
(IC-72425P) Ankur Chaudhary, Inf	(IC-72466Y) Vinayakumar V, Inf
(IC-72426X) Suresh Bhatt, Arty	(IC-72467F) Radharaman Goswami, Arty
(IC-72427A) Rohit Sharma, Inf	(IC-72469M) Arun Pandey, AVN
(IC-72428H) Divyadarshan, ASC	(IC-72471K) Pranav Prabhat, Inf
(IC-72429L) Ajay Kumar, AC	(IC-72472M) Deependra Mishra, Inf
(IC-72430A) Somveer Singh, Arty	(IC-72473P) Gurinder Rana, Arty
(IC-72431H) Panch Deo Singh, Inf	(IC-72474X) Rajkumar Sangwan, AOC
(IC-72432L) Priyank Upadhyay, Inf	(IC-72475A) Pankaj Upadhyay, Arty
(IC-72433N) Kula Prasad Chettri, AOC	(IC-72476H) Vivek Singh, Arty
(IC-72434W) Doungul Thonggoulén Haokip, Inf	(IC-72477L) Rahul, ASC
(IC-72435Y) Ravinder Singh Kuntal, Arty	(IC-72478N) Abhishek Sharma, AOC
(IC-72437K) Saurabh Dutt, Arty	(IC-72479W) Sachin Kumar, Inf
(IC-72438M) Vikas Gurung, Inf	(IC-72480L) Yogesh Hooda, Inf
(IC-72439P) Pawan Gulia, EME	(IC-72481N) Pankaj Tyagi, AC
(IC-72440K) Ankur Saxena, Inf	(IC-72482W) Arpit Raman, Inf
(IC-72441M) Raveesh Kumar, Inf	(IC-72483Y) Sambasiva Rao Korrapati, Inf
(IC-72442P) Mahadeo Sanjay Suryawanshi, Arty	(IC-72484F) Karan Goswami, EME
(IC-72443X) Upender, ASC	(IC-72485K) Amit Karanpuria, Inf

(IC-72486M) Basavaraj V Mathapati, ASC	(IC-72528N) Vinod Kaushal, Inf
(IC-72487P) Deepanshu Chaudhary, Arty	(IC-72531N) Vikram Yadav, Mech
(IC-72488X) Deepak Joshi, Inf	(IC-72533Y) Manish Kumar Pathak, Arty
(IC-72489A) Mubarakali B Mujawar, AC	(IC-72534F) Rahul Shukla, Inf
(IC-72490P) Rajasekhar Binumon, Inf	(IC-72535K) Vidhan Sunwar, Inf
(IC-72491X) Ravi Panwar, AOC	(IC-72536M) Saket Ranjan, Inf
(IC-72492A) Arvind Rawat, AAD	(IC-72537P) Sandeep Rathi, Inf
(IC-72493H) Ajay Pandey, AOC	(IC-72538X) Gaurav Chavan, Inf
(IC-72494L) Astik Kumar, Inf	(IC-72539A) Varun Sharma, AC
(IC-72495N) Anurag Bisht, Inf	(IC-72541X) Rakendu Upadhyay, ASC
(IC-72496W) Adarsh Dubey, Arty	(IC-72542A) Amit Sah, Inf
(IC-72497Y) Abhay Rana, Arty	(IC-72543H) S Arun, Inf
(IC-72498F) Amit Singh, Inf	(IC-72544L) Ankit Bhishma, Engrs
(IC-72499K) Thaper Harish Prakash, Arty	(IC-72545N) Ajay Kumar, Arty
(IC-72500N) Varun Jaswal, Engrs	(IC-72546W) Pankaj Kumar Panday, Inf
(IC-72501W) Anubhav Tiwari, ASC	(IC-72547Y) Davinder Pal Singh, Int
(IC-72502Y) Pankaj, Arty	(IC-72548F) Lonkar Ashwin Ramesh, AAD
(IC-72503F) Naveen Singh, Arty	(IC-72550Y) Jagpreet Singh, Arty
(IC-72504K) Ravi Ranjan Kumar, Inf	(IC-72551F) Simthesh Kumar Dalal, Inf
(IC-72505M) Deepak Singh, Inf	(IC-72552K) Vinod Kumar K S, ASC
(IC-72506P) Satish Kumar Yadav, Inf	(IC-72553M) Pawan Kumar, Inf
(IC-72508A) Rahul Chauhan, Arty	(IC-72554P) Himanshu Purohit, Inf
(IC-72509H) Abhijit Sharma, Arty	(IC-72555X) Chandradev Singh Hada, Inf
(IC-72510X) Shashi Nandan Kumar, Mech	(IC-72556A) Nitesh Kumar, Inf
(IC-72512H) Ravi Thapa, Mech	(IC-72557H) Jayant Singh Balyan, Sigs
(IC-72513L) Jitender Rathore, AC	(IC-72558L) Raut Tushar Ashok, Inf
(IC-72515W) Avinash Kumar, Arty	(IC-72559N) D Madona Enrich, Arty
(IC-72516Y) Shaji P V, ASC	(IC-72560H) Bibhuti Bhusan Panigrahi, ASC
(IC-72517F) Sajad Ahmed, Arty	(IC-72561L) Avinash Kumar Srivastava, Arty
(IC-72518K) Ashish Pandey, Inf	(IC-72562N) Nikhil Kumar, Arty
(IC-72519M) Shubham Agarwal, AAD	(IC-72563W) A Vijay Kumar, AVN
(IC-72520F) Sahil Chhikara, AOC	(IC-72564Y) Sahil Jangir, Inf
(IC-72521K) Surender Singh, Engrs	(IC-72565F) Hemchander Singh, Inf
(IC-72522M) Pankaj Sharma, Inf	(IC-72566K) Anurag Rajawat, EME
(IC-72523P) Deepak Singh Thakuri, Inf	(IC-72567M) Anil Kandpal, Engrs
(IC-72524X) Vikas Singh Basera, Arty	(IC-72568P) Shiv Pratap Singh, Inf
(IC-72525A) K S Sooraj, Arty	(IC-72569X) Abhishek Kumar, Arty
(IC-72526H) Surinder Kumar, Arty	(IC-72570M) Bhupendra Pal Singh, Inf
(IC-72527L) Bikram Singh Badal, Arty	(IC-72572X) Manish Tomer, Inf

(IC-72573A) Bharat Singh, Inf  
 (IC-72574H) Sandeep Singh Bajwa, AOC  
 (IC-72575L) Priyaranjan Kumar Thakur, AC  
 (IC-72576N) Brij Bhushan Verma, AC  
 (IC-72577W) Bharat Sharma, Arty  
 (IC-72578Y) Abhinav Tripathi, Inf  
 (IC-72579F) Abhishek Kumar Tiwari, Inf  
 (IC-72580W) Bunny Sharma, ASC  
 (IC-72581Y) Abhay Rathore, AAD  
 (IC-72582F) Rahul Kumar Alley, Inf  
 (IC-72583K) Sumeet Khajuria, Inf  
 (IC-72584M) Mantavya Kumar, Inf  
 (IC-72585P) Savale Anupam Shrikant, Arty  
 (IC-72586X) Rohit Kumar Rai, Inf  
 (IC-72587A) Paritosh Singh Kanwal, Inf  
 (IC-72588H) Ranjeet Bhambhu, EME  
 (IC-72589L) Ranjan Thapa, AOC  
 (IC-72590A) Anirudha Chakrabarty, Inf  
 (IC-72591H) Okram Papu Singh, Inf  
 (IC-72592L) Aman Mahant, AOC  
 (IC-72593N) Giri Vikas Rajendra, Arty  
 (IC-72594W) Ankit Sharma, Sigs  
 (IC-72595Y) Yogender Gurung, Arty  
 (IC-72596F) Handeep Raj Puri, Arty  
 (IC-72597K) Tiju Thomas, Inf  
 (IC-72598M) Ravirajan Kumar Sinha, Arty  
 (IC-72599P) Jatin Gambhir, Inf  
 (IC-72600Y) Venkat Sharda, ASC  
 (IC-72601F) Garge Kedar Padmakar, Arty  
 (IC-72602K) Daljeet Singh, Mech  
 (IC-72603M) Vikram Singh Rathore, Inf  
 (IC-72604P) Anshul Yadav, AC  
 (IC-72605X) Akash Raj, Arty  
 (IC-72606A) Shiva Gurung, Arty

#### SHORT SERVICE COMMISSION (On Probation)

The undermentioned 88 (Eighty Eight) GCs of 109 Technical Graduates and 18 University Entry Scheme Course are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their pre-commissioning training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect

from the dated shown against their names, under the provisions of SAI 1/S/94, as amended for GCs of TG Course and AI 2/93, as amended for GCs of UES Course :—

IMA No., Name, SS No., Arm/Service & Date of SSC (on Probation)

#### 109 TECHNICAL GRADUATES COURSE

T/6633 Ravinder Singh Jodha (SS-43948L), EME, 15 Jul 2009

T/6634 Ravindra Singh Mahla (SS-43949N), Engrs, 15 Jul 2009

T/6636 Amit Kumar Jha (SS-43950H), Sigs, 15 Jul 2009

T/6637 Rohan Verma (SS-43951L), Sigs, 15 Jul 2009

T/6639 Sachin Singh Rawat (SS-4394), Sigs, 15 Jul 2009

T/6642 Animesh Dubey (SS-43955F), Sigs, 15 Jul 2009

T/6644 Bhurgu Vyas Patro (SS-43957M), Sigs, 15 Jul 2009

T/6646 Manish Makhloga (SS-43959X), EME, 15 Jul 2009

T/6647 Gaurav Mittal (SS-43960M), EME, 15 Jul 2009

T/6648 Anuj Singh Chauhan (SS-43961P), Sigs, 15 Jul 2009

T/6649 Yashwant Suhag (SS-43962X), EME, 15 Jul 2009

T/6650 Harshvardhan Singh Salathia (SS-43963A), Sigs, 15 Jul 2009

T/6651 Rahul Deva (SS-43964H), Sigs, 15 Jul 2009

T/6652 Simranjeet Singh (SS-43965L), Sigs, 15 Jul 2009

T/6653 Ravi Jamwal (SS-43966N), EME, 15 Jul 2009

T/6655 Udit Chaturvedi (SS-43968Y), Sigs, 15 Jul 2009

T/6657 Durga Prasad Mishra (SS-43970W), Sigs, 15 Jul 2009

T/6660 Ranjodh Singh (SS-43973K), Sigs, 15 Jul 2009

T/6662 Debmalya Mookherjee (SS-43975P), Sigs, 15 Jul 2009

T/6663 Dildeep Singh Chahal (SS-43976X), Sigs, 15 Jul 2009

T/6665 Abhay Sirohi (SS-43978H), EME, 15 Jul 2009

T/6667 Depinder Dhanjal (SS-43980A), Sigs, 15 Jul 2009

T/6668 Raj Kumar (SS-43981H), EME, 15 Jul 2009

T/6669 Sushant Dwivedi (SS-43982L), Sigs, 15 Jul 2009

T/6674 Atul Thapa (SS-43987K), Sigs, 15 Jul 2009

T/6675 Abhinav Sharma (SS-43988M), Sigs, 15 Jul 2009

T/6676 Bhavya Singh Shishodia (SS-43989P), Sigs, 15 Jul 2009

T/6679 Banahatti Karan Singh (SS-43992P), Engrs, 15 Jul 2009

T/6680 Abhas Sharma (SS-43993X), Sigs, 03 May 2009

T/6681 Nitesh Kumar Sangwan (SS-43994A), EME, 03 May 2009

T/6682 Mohit (SS-43995H), EME, 03 May 2009

T/6684 Rishi R (SS-43997N), EME, 03 May 2009

T/6685 Ankush Sharma (SS-43998W), EME, 03 May 2009

T/6686 Manikandan M (SS-43999Y), EME, 03 May 2009

T/6687 Deepak Bohra (SS-44000A), EME, 03 May 2009

T/6688 D Krishna Kumar (SS-44001H), EME, 03 May 2009

T/6689 Yajuvendra Kumar Gautam (SS-44002L), EME, 03 May 2009

T/6690 Bharat Mohan (SS-44003N), EME, 03 May 2009

T/6691 Saket Jha (SS-44004W), Sigs, 01 Aug 2009

#### 18 UNIVERSITY ENTRY SCHEME COURSE

U/944 Tailani Nimesh Chimanlal (SS-44005Y) Sigs, 15 Jul 2009

U/945 Waikar Anand Deepak (SS-44006F) Sigs, 15 Jul 2009

U/947 Amis Thampy John (SS-44008M) EME, 14 Jul 2008

U/948 Kranthi Kanal (SS-44009P) EME, 15 Jul 2009

U/950 Kulkarni Shubham Deepak (SS-44011M) EME, 01 Jul 2008

U/952 Simrat Pal Singh Thind (SS-44013X) EME, 02 Aug 2008

U/953 Raghavendra Prasad G M (SS-44014A) Sigs, 15 Jul 2009

U/954 Thimmaiah I B (SS-44015H) Sigs, 15 Jul 2009

U/957 Hari Shankar R Nair (SS-44018W) Sigs, 28 Jul 2008

U/959 Satnam Singh (SS-44020N) Sigs, 15 Jul 2009

U/960 Vikas Kumar Srivastava (SS-44021W) Engrs, 01 Jul 2008

U/961 Bibhuti Bhusan Borborua (SS-44022Y) EME, 15 Jul 2009

U/962 Omkar Uday Bhadbhade (SS-44023F) Sigs, 15 Jul 2009

U/964 Jobin M Varghese (SS-44025M) Sigs, 15 Jul 2009

U/965 Abhimanyu Mahajan (SS-44026P) Sigs, 15 Jul 2009

U/968 Abhay Kumar Singh (SS-44029H) Sigs, 15 Jul 2009

U/969 Simant Kamal Dutta (SS-44030X) Sigs, 15 Jul 2009

U/970 Rishabh Yadav (SS-44031A) Sigs, 01 Jul 2008

U/974 Karan Vasudev (SS-44035W) Sigs, 07 Aug 2008

U/976 Ankit Singh Rawat (SS-44037F) EME, 18 Aug 2008

U/978 M Deepak (SS-44039M) Sigs, 15 Jul 2009

U/979 Jagadeesh Shetteppa Nandihal (SS-44040F) Sigs, 15 Jul 2009

U/980 Vineeth S (SS-44041K) Engrs, 15 Jul 2009

U/982 Atul Parashar (SS-44043P) Sigs, 15 Jul 2009

U/983 Harpreet Singh Liddar (SS-44044X) Sigs, 05 Aug 2008

U/984 Pruno Robert (SS-44045A) EME, 23 Jun 2008

U/985 Gaurav Kathait (SS-44046H) Sigs, 01 Jul 2008

U/986 Aditya Kaushik (SS-44047L) Sigs, 28 Jul 2008

U/987 Kuldeep Kumar (SS-44048N), Sigs, 20 Aug 2008

U/990 Rishabh Sood (SS-44051N), Sigs, 15 Jul 2008

U/991 Sankalp Dogra (SS-44052W), Sigs, 15 Jul 2009

U/992 Shailendra Saiwal (SS-44053Y), Sigs, 15 Jul 2009

U/993 Shishir Makwana (SS-44054F), Engrs, 01 Sep 2008

U/995 Nagendra Pratap Singh (SS-44056M), EME, 15 Jul 2009

U/996 Sanjeev Singh (SS-44057P), EME, 15 Jul 2009

U/998 Syed Nazim Mehdi (SS-44059A), EME, 28 Jul 2008

U/999 Mayank Mathur (SS-44060P), EME, 26 Jul 2008

U/1000 Jerin Martin (SS-44061X), EME, 14 Jul 2008

U/1001 Amanat Jagjit Singh (SS-44062A), EME, 16 Aug 2008

U/1004 Arun Pundir (SS-44065N), Sigs, 25 Jul 2008

U/1005 Birendra Singh (SS-44066W), EME, 01 Jul 2008

U/1009 Abhinav Chauhan (SS-44070Y), EME, 25 Jul 2008

U/1011 Jatin Kumar (SS-44072K), Sigs, 28 Jul 2008

U/1012 Shekhar Kumar (SS-44073M), Sigs, 12 Aug 2009

U/1013 Navaneeth Gopinathan (SS-44074P), EME, 01 Jul 2008

U/1014 Sachin Dhiman (SS-44075X), Sigs, 01 Sep 2008  
 U/1015 Tapan Sodhi (SS-44076A), EME, 09 Jul 2008  
 U/1018 Kumar Amit Yadav (SS-44079N), Sigs, 25 Jul 2008

U/1019 Manjul Raj (SS-44080H), Sigs, 25 Sep 2009

2. The Arms/Services allotted to the GCs is valid for the duration of their training only.

RAHUL SHARMA  
 Lt Col  
 AMS 8B

#### INTEGRATED HEADQUARTERS (NAVY)

Dte of Admin/Civ Section

No. 55, dated 17th January 2011—The appointment of the following Officers of AFHQ Civil Service has been extended as Section Officer {Group 'B' (Gaz)} by the Competent Authority in Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with GP Rs. 4,800/- under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service rules 2001 for the period mentioned against their name or till regular incumbents become available or till such time the officer retires, whichever is earlier :—

Kailash Chand, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 BP Singh, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 RK Sahni, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 DK Prasad, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 KL Mamchand, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 Chand Singh, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 Het Prakash, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 IS Bramniya, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 Roop Chand, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 Balwan Singh, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 Subhash Biswas, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 Neeraj Ranjan, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 Debasis Pradhan, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 Uday Kapat, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 JP Meena, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 SC Sethi, 01 Jul 2010 to 30 Sep 2010  
 RP Upreti, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 Gurbachan Singh, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 PN Valecha, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 Sudesh Ailawadi, 01 Jul 2010 to 31 Oct 2010  
 Vinay Kumar, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 RD Kushwaha, 01 Jul 2010 to 31 Jul 2010

AK Gupta, 01 Jul 2010 to 31 Jul 2010  
 AK Chadha, 01 Jul 2010 to 31 Jul 2010  
 Amarjeet Salhotra, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 DP Khurana, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 HS Negi, 01 Jul 2010 to 30 Sep 2010  
 GD Sharma, 01 Jul 2010 to 31 Oct 2010  
 Bikash Krishna, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 Rampal Meena, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 Saumyajit Mondal, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 TS Negi, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 Devinder Mohan, 01 Jul 2010 to 30 Sep 2010  
 Syamala Raman, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 Bansi Lal, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 V Ramu, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 Manjushri Dass, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 SK Barman, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 Dinesh Chandra, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 Sudesh Kapur, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 Gurmeet Mukha, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 Raj Singh, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 Vinod Kumar, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 Darshan Kumar, 01 Jul 2010 to 30 Sep 2010  
 Indrani Gupta, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 Promila Jaggi, 01 Jul 2010 to 31 Jul 2010  
 Narendar Singh, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010  
 Satwinder Singh, 01 Jul 2010 to 31 Dec 2010

This appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

AK LAROIYA  
 Dy. CAO(A)

#### MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 56, dated 18th January 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

To be Subs Brig

IC No., Rank, Name, Arm & Date of Subs Rank



V-00344 Col NS Kanwar, RVC, 12 Aug 2009

V-00347 Col Jagvinder Singh, RVC, 23 Oct 2009

V-00352 Col RR Yadava, RVC, 01 May 2010

RB ASTHANA  
Dir/MS(X)

#### ARMY BRANCH

No. 57, dated 18th January 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION (ARMY MEDICAL CORPS)

Col (& Equivalent) to be Brig (& Equivalent)

(NTR-16501K) M Ramanujaiah, 01 May 2010

Lt Col to Colonel (Time Scale)

NTR-16682A Lt Col Ram Kumar, 21 Apr 2010

Wg Cdr to GP Capt (Time Scale)

(MR-6443X)(AF-18669N) Wg Cdr SP Chaturvedi, 01 Jun 2010

(MR-5326A)(AF-17989S) Wg Cdr BS Sekhon, 05 Jun 2010

(MR-5582H)(AF-18916S) Wg Cdr D Chakraborty, 21 Sep 2010

(MR-5707F)(AF-18249N) Wg Cdr AK Baral, 01 Oct 2010

(MR-6444H)(AF-18355L) Wg Cdr KK Pooniwala, 30 Aug 2010

YASH PANDE  
Brig  
Dy DGAFMS (HR)

No. 58, dated 18th January 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION (SL)

Capt to be Maj

SL No., Name & Arm

(SL-04808) Patil Rajkumar Dattaram, SL/ICO, 03 Jul 2010

IC No., Name, Arm & Subs Maj wef

(IC-64000) Sandeep Shankar, Inf, 12 Jun 2010

(IC-64157) Rohit Mehra, Arty, 12 Jun 2010

(IC-65782) P Appalla Satyaprasad, Inf, 07 May 2010

(IC-68401) Ritu Raj Singh, EME, 13 Jun 2010

(IC-68412) Varun Prakash, EME, 13 Jun 2010

(IC-68436) Sharath MU, EME, 13 Jun 2010

#### SHORT SERVICE COMMISSION (MEN)

Capt to be Maj

SS No., Name, Arm, DOS, Course, Revised Date of Seniority for Promotion & Maj wef

(SS-39840) Virant Sharma, Sigs, 07 Sep 2002, SSC-74 (NT), 07 May 2003, 07 May 2009

(SS-39848) Sanjeev Kumar Mishra, ADA, 07 Sep 2002, SSC-74 (NT), 07 May 2003, 07 May 2009

#### SHORT SERVICE COMMISSION (WSES)

Capt to be Maj

WS No., Name, Arm, Course, Revised date of Seniority for Promotion & Date of Sub Major

(WS-00793) Mohit Pramila Janardhan, AOC, WS-22(NT), 06 Sep 2004, 06 Sep 2010

(WS-00797) Nitu Singh Sengar, AOC, WS-22(NT), 06 Sep 2004, 06 Sep 2010

(WS-00800) Aparna Bisen, AOC, WS-22(NT), 06 Sep 2004, 06 Sep 2010

(WS-00803) Anjana Paliwal, Int, WS-22(NT), 06 Sep 2004, 06 Sep 2010

(WS-00805) Rohina Mary Varghese, Int, WS-22(NT), 06 Sep 2004, 06 Sep 2010

(WS-00807) Tila Whista, AOC, WS-22(NT), 06 Sep 2004, 06 Sep 2010

(WS-00815) Saroj Gupta, AOC, WS-22(NT), 06 Sep 2004, 06 Sep 2010

(WS-00821) Wakankar Ritcha Madhav, Int, WS-22(NT), 06 Sep 2004, 06 Sep 2010

(WS-01143) Padman Anita Ashok, EME, WS-27(T), 21 Sep 2004, 21 Sep 2010

(WS-01156) Chelur Sumalata Nagraj, EME, WS-27(T), 21 Sep 2004, 21 Sep 2010

(WS-01166) Aanchal Porwal, EME, WS-27(T), 21 Sep 2004, 21 Sep 2010

(WS-01199) Poonam Verma, EME, WS-27(T), 21 Sep 2004, 21 Sep 2010

Lt to be Capt

WS No., Name & Arm/Service

(WS-01071) Nutan Chillar, ASC

(WS-01072) Pragya Painuly, AOC  
 (WS-01082) Preeti Sharma, AAD  
 (WS-01086) Amrita Singh, AOC  
 (WS-01087) Ramandeep Kaur Multani, AOC  
 (WS-01089) Shweta Sharma, AOC  
 (WS-01096) Ankita Srivastava, ASC  
 (WS-01106) Chandni Vasudev, AOC  
 (WS-01111) Vyas Pooja Pundrikbhai, AOC  
 (WS-01134) Baljeet Kaur, ASC

—17 Sep 2010

PK SHASTRI  
 Maj  
 AMS 8B

#### ARMY BRANCH

No. 59, dated 18th January 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY RECORDS THE MIR

#### To be Sub

Nb Sub Clk (SD) Manik Chandra Mourya (JC-420662X),  
 01 Oct 2010

Nb Sub Clk (SD) Dharam Bir Singh (JC-420711P),  
 01 Oct 2010

Nb Sub Clk (SD) Pawar Maruti Sripati (JC-420689P),  
 07 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2010  
 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (GNRPT) Gurmit Singh (JC-420504H), 01 Oct  
 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2010  
 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (OW AFV) Pat Ram (JC-420822M), 07 Sep  
 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2010  
 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (GNRPT) Jagdish Singh (JC-420881Y), 11 Oct  
 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2010  
 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (Gunner) Anil Kumar (JC-420350F), 01 Oct  
 2010

Nb Sub OP (Radio) Krishna Singh (JC-420458Y),  
 01 Oct 2010

Nb Sub OP (Radio) Chandra Shekhar (JC-420459F),  
 01 Oct 2010

Nb Sub (Dvr FTVEH) Bansi Lal Bishnoi (JC-420461Y),  
 01 Oct 2010

Nb Sub (Dvr AFV) Baswanand (JC-420720W), 01 Oct  
 2010

Nb Sub (Dvr FTVEH) Satya Prakash (JC-420729L),  
 01 Oct 2010

Nb Sub (Dvr AFV) Awadhesh Singh (JC-420732L),  
 01 Oct 2010

Nb Sub (GNPRT) Daulat Singh (JC-420733N), 01 Oct  
 2010

Nb Sub (Gunner) Kushi Ram Raturi (JC-420739P),  
 01 Oct 2010

Nb Sub OP (Radio) Dalbir Singh (JC-420746L), 01 Oct  
 2010

Nb Sub (Dvr FTVEH) Ramesh Singh (JC-420747N),  
 01 Oct 2010

Nb Sub (Dvr FTVEH) Ravi Kumar (JC-420748W), 01  
 Oct 2010

Nb Sub (GNRPT) Rattan Singh (JC-420771K), 01 Oct  
 2010

Nb Sub (Dvr AFV) Ghadage Sajjan Jijaba (JC-420775A),  
 01 Oct 2010

Nb Sub (Dvr AFV) Dharambir (JC-420817F), 01 Oct  
 2010

Nb Sub (Dvr AFV) Ranjit Singh (JC-420842A), 01 Oct  
 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2010  
 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (Gunner) Bhim Singh (JC-420856A), 01 Oct  
 2010

Nb Sub (Gunner) Patil Dharerao Shrimant (JC-  
 420917M), 01 Oct 2010

Nb Sub (Dvr FTVEH) Satpal (JC-420891H), 01 Oct  
 2010

Nb Sub (Dvr AFV) Suresh Kumar (JC-420895Y),  
 01 Oct 2010

Nb Sub (GNRPT) Udai Singh (JC-420922X), 05 Oct  
 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2010  
 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (GNRPT) Om Raj Bharali (JC-420958W),  
 01 Oct 2010

Nb Sub (OW AFV) Bahadur Singh (JC-420959Y),  
05 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (OW AFV) Baldev Singh (JC-420960N),  
05 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (Dvr AFV) Gannavarapu Tirupati Rao (JC-421059Y), 04 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (Dvr AFV) Enamul Haque Ansari (JC-421061Y),  
04 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (Dvr FTVEH) Birendra Ram (JC-421228X),  
01 Oct 2010

Nb Sub Clk (SD) Bhupender Singh (JC-420690K),  
01 Nov 2010

Nb Sub (Dvr AFV) Narender Singh (JC-420657M),  
24 Nov 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (GNRPT) Raghubir Singh (JC-420286P), 25 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub OP (Radio) Bhim Singh (JC-420707M),  
26 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (Dvr FTVEH) Anil Kumar Mohanty (JC-420768K), 04 Oct 2010

Nb Sub OP (Radio) Suresh Singh Rathore (JC-420785K),  
27 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (Dvr AFV) Karambir (JC-420813L), 27 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (OW AFV) Madan Singh Shekhawat (JC-420873A), 01 Oct 2010\*

Nb Sub (Dvr AFV) Dharmendra Bahadur Singh (JC-420938H), 01 Nov 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (Dvr AFV) Prafulla Chandra Mohanty (JC-421060W), 23 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (OW AFV) Virendra Kumar (JC-421095M),  
22 Nov 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (Gunner) Sham Singh (JC-420677A), 01 Nov 2010

Nb Sub (Dvr AFV) Madan Singh Pal (JC-420827L), 04 Nov 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (Dvr AFV) Basant Ballabh (JC-420828N),  
01 Nov 2010

Nb Sub (Gunner) Zala Praduman Singh Bapubha (JC-420951M), 01 Nov 2010

Nb Sub (Dvr FTVEH) Dharmendar Singh (JC-420953X),  
01 Nov 2010

Nb Sub (OP) (Radio) Bharvad Jashu Bhai Bhula Bhai (JC-420954A), 01 Nov 2010

Nb Sub (GNRPT) Khengar Bhai K Priyadashi (JC-420940A), 01 Nov 2010

Nb Sub (Dvr AFV) Balbir Singh (JC-421014F), 01 Nov 2010

Nb Sub (Gunner) Ram Das Singh (JC-421022A),  
01 Nov 2010

Nb Sub (Dvr AFV) Azad Singh (JC-420756P), 01 Dec 2010

Nb Sub (OW AFV) Ganga Charan (JC-420757X),  
01 Dec 2010

#### To be Nb Sub

Hav Jacob Benoy (No. 14914793L now JC-421719N),  
20 Nov 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Simanchala Parida (No. 14915865W now JC-421720H), 10 Nov 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Mesariya Mohan Bhai Seva Bhai (No. 14916370W now JC-421721L), 06 Nov 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Kana Ram (No. 14916422F now JC-421722N),  
22 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct  
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Chandan Nand Kumar Tuka Ram (No. 14916554L  
now JC-421723W), 31 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct  
2010 without effect on pay and allowances)

Hav PB Shaji Lal (No. 14917528A now JC-421724Y),  
08 Nov 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct  
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Abdul Alim (No. 2484086M now JC-421725F),  
28 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct  
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Dillip Kumar Parida (No. 14918644P now JC-  
421726K), 28 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct  
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Ashwani Kumar Sahu (No. 14915877L now JC-  
421727M), 04 Nov 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov  
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Udai Singh (No. 14919104H now JC-421728P),  
09 Nov 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov  
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Kehar Singh (No. 14919443H now JC-421729X),  
08 Nov 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov  
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Bidhi Chand (No. 14915354M now JC-421730M),  
01 Nov 2010

Hav Virendra Singh Shekhawat (No. 14919458L now  
JC-421731P), 01 Nov 2010

Hav Jitender Singh (No. 14919497K now JC-421732X),  
01 Nov 2010

Hav More Sanjay Maruti (No. 14918155K now JC-  
421733A), 22 Nov 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov  
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Pach Bahadur Yadav (No. 14916717X now JC-  
421734H), 01 Nov 2010

Hav Jagpal Singh Chauhan (No. 14918582A now JC-  
421735L), 01 Nov 2010

Hav Mohan Lal Pandey (No. 14917226N now JC-  
421736N), 01 Nov 2010

Hav Chharundu Ram (No. 14918743X now JC-  
421737W), 08 Nov 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov  
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Kuldeep Chand Sharma (No. 14918035L now JC-  
421738Y), 03 Dec 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec  
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Ravindra Kumar (No. 14918031P now JC-421739F),  
01 Dec 2010

Hav Dhanesh (No. 14917862F now JC-421684B), 11 Oct  
2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Aug  
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Sri Pal (No. 14914603N now JC-421685L), 11 Oct  
2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct  
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Prasad (No. 14914844N now JC-421686N),  
11 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct  
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Nirmal Singh (No. 14915420K now JC-421687W),  
07 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct  
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Viswamohanan A (No. 14916461A now JC-  
421688Y), 01 Oct 2010

Hav Sasidharan KV (No. 14914937H now JC-421689F),  
01 Oct 2010

Hav Tapas Kumar Malakar (No. 14915612F now JC-  
421690W), 11 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct  
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Sakti Pada Bose (No. 14915619L now JC-  
421691Y), 11 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct  
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Dinesh Prasad Tiwari (No. 14915944L now JC-421692F), 11 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Pritam Chand (No. 14917050N now JC-421693K), 26 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Mudaliar Balan Shanmugam (No. 14916123H now JC-421696M), 01 Oct 2010

Hav Pramod Kumar Pani (No. 14915863L now JC-421695P), 01 Oct 2010

Hav Virendra Kumar Singh (No. 14915878N now JC-421696X), 13 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Shiv Dayal (No. 14916207W now JC-421697A), 13 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Shioyash Trigune (No. 14916390K now JC-421698H), 13 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Abdul Mannan (No. 14914752F now JC-421699L), 21 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Budireddi V Ramana Rao (No. 14915301N now JC-421700P), 11 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Satish Kumar Sharma (No. 14915784W now JC-421701X), 21 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Malay Kumar Ghosh (No. 14916758F now JC-421702A), 21 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Mantu Kumar Rajbangshi (No. 14916908M now JC-421703H), 13 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Rakesh Kumar Tripathi (No. 14917383A now JC-421704L), 25 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Rabindra Nath Deb Nath (No. 14917029L now JC-421705N), 13 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Om Prakash (No. 14917520N now JC-421706W), 25 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Manoja Kumar Nayak (No. 14915864N now JC-421707Y), 12 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Bhagwan Singh (No. 14918341A now JC-421708F), 08 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Swadesh Kumar (No. 14917236X now JC-421709K), 28 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Ramashray Chaudhary (No. 14918467A now JC-421710Y), 08 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Mohite Hanamant Rajaram (No. 14917506F now JC-421711F), 13 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Prabhu Ram Meghwal (No. 14917644H now JC-421712K), 19 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Uday Shankar Mondal (No. 14918766Y now JC-421713M), 08 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Rajesh Kumar (No. 14918433M now JC-421714P), 13 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Santosh Kumar Gurung (No. 14918598L now JC-421715X), 13 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Vijay Partap Singh (No. 14918809H now JC-421716A), 13 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Chandra Lal (No. 14914554W now JC-421717H), 03 Nov 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Manish Kumar (No. 14916679M now JC-421666A), 01 Sep 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Bhag Singh (No. 2987897L now JC-421667H), 21 Sep 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Mukesh Kumar Singh (No. 2987674N now JC-421668L), 21 Sep 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Gabinda Chandra Basumatary (No. 14916003K now JC-421669N), 01 Sep 2010

Hav Dilip Ramchiary (No. 14916005P now JC-421670H), 01 Sep 2010

Hav Subedar Singh Yadava (No. 14916033F now JC-421671L), 01 Sep 2010

Hav Ranveer Singh (No. 14917049Y now JC-421672N), 04 Sep 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Ajit Kumar Mishra (No. 14916044N now JC-421673W), 01 Sep 2010

Hav Firoj Khan (No. 14916081F now JC-421674Y), 01 Sep 2010

Hav Inder Singh (No. 14916485K now JC-421675F), 01 Sep 2010

Hav Shiv Prasad Gurung (No. 14917032L now JC-421676K), 01 Sep 2010

Hav Anil Kumar (No. 14916622X now JC-421677M), 01 Sep 2010

Hav Ram Murti (No. 14916507X now JC-421678P), 01 Sep 2010

Hav Satish Singh (No. 14916646F now JC-421679X), 06 Sep 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Karan Singh (No. 14916551F now JC-421680M), 01 Sep 2010

Hav (Clk) (SD) Ajay Pal Singh (No. 14916392P now JC-421681P), 01 Oct 2010

Hav (Clk) (SD) Kavindra Singh (No. 14916447N now JC-421682X), 01 Oct 2010

Hav (Clk) (SD) Om Parkash (No. 14916495N now JC-421683A), 11 Oct 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk) (SD) Joydev Chand (No. 14916653X now JC-421718L), 08 Nov 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2010 without effect on pay and allowances)

#### SPECIAL LIST

##### ARMOURED CORPS

##### To be Subs Ris Maj (Religious Teacher)

Ris (Pandit) Laxmi Prasad Khanduri (JC-152315N), 10 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Ris (Pandit) Rajveer Sharma (JC-152316W), 01 Dec 2009

Ris (Pandit) Suresh Kumar Shastri (JC-152317Y), 01 Apr 2010

Ris (Pandit) Mata Charan Shukla (JC-155574F), 01 Apr 2010

Ris (Pandit) Shiv Sharan Sharma (JC-152322K), 01 Sep 2010

Ris (Pandit) Dev Raj Sharma (JC-158226L), 03 Sep 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

##### To be Subs Ris

Nb Ris/Clk (SD) Krishan Chand (JC-241980L), 02 Mar 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris/Clk (SD) Rajender Singh (JC-241982W), 01 Apr 2010

Nb Ris/Clk (SD) Mahender Singh (JC-242067K), 01 Apr 2010

Nb Ris/Clk (SD) Mahender Singh (JC-242068M), 01 Jul 2010

Nb Ris/Clk (SD) Ratan Singh (JC-242069P), 01 Jul 2010

Nb Ris/Clk (SD) Mala Ram (JC-242070K), 06 Jul 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris/Clk (SD) Hakim Ali (JC-242125H), 12 Jul 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris/Clk (SD) Raja Kumar H D (JC-242126L), 01 Jul 2010

Nb Ris/Clk (SD) Udaya Kumar P (JC-242128W), 01 Aug 2010

Nb Ris/Clk (SD) Om Prakash Ray (JC-242129Y), 01 Aug 2010

Nb Ris/Clk (SD) Shyama Pada Mandal (JC-242130N), 21 Aug 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris/Clk (SD) Shyama Kumar Bhattacharyya (JC-242163Y), 02 Aug 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris/Clk (SD) Bimalendu Bikas Chowdhury (JC-242164F), 02 Aug 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris/Clk (SD) Ram Niwas (JC-242193W), 01 Aug 2010

Nb Ris/Clk (SD) Kallu Singh (JC-242194Y), 01 Aug 2010

Nb Ris/Clk (SD) Ram Swarup Raigar (JC-242195F), 01 Aug 2010

Nb Ris/SKT Shailendra Singh (JC-240263L), 01 Apr 2009

Nb Ris/SKT Pratap Singh (JC-241638L), 06 Apr 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Ris/SKT Bahadur Singh (JC-240416K), 24 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Ris/SKT Prem Pal Singh (JC-240640W), 01 Nov 2009

Nb Ris/SKT Ramzan Khan (JC-240712P), 01 Dec 2009

Nb Ris/SKT Suresh Kumar Dogra (JC-240713X), 01 Mar 2010

Nb Ris/SKT Raj Kumar (JC-240745A), 01 Mar 2010

Nb Ris/SKT Naresh Kumar (JC-241128K), 01 Mar 2010

Nb Ris/SKT Nirdos Kumar (JC-241130F), 01 Apr 2010

Nb Ris/SKT Krishan Kant (JC-242071M), 06 Jul 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

(To be Nb Ris)

Dfr/SKT Gora Ram (No. 1086101L now JC-244032M), 17 Dec 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr/SKT Raj Kumar (No. 1086102N now JC-244033P), 24 Dec 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr/Clk Darbare Sunil (No. 1089497L now JC-244034X), 01 Jan 2010

Dfr/Clk Biswajit Ray (No. 1089744N now JC-244035A), 01 Jan 2010

Dfr/Clk Mohd Tariq (No. 1089796K now JC-244036H), 01 Jan 2010

Dfr/Clk Bramha Naraina Tiwari (No. 1089993M now JC-244125F), 09 Feb 2010

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr/Clk Harlal Singh (No. 1098903F now JC-244126K), 01 Feb 2010

Dfr/Clk Hakim Yadaw (No. 1098999P now JC-244173F), 01 Mar 2010

Dfr/Clk Azad Singh (No. 1086103W now JC-244174K), 01 Mar 2010

Dfr/Clk Kanwar Singh (No. 1086135Y now JC-244175M), 01 Mar 2010

Dfr/SKT Devender Kumar (No. 1086154K now JC-244176P), 02 Mar 2010

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr/SKT Brij Nandan Sharma (No. 1086153F now JC-244177X), 01 Mar 2010

Dfr/Clk Subhash Chandra Shukla (No. 1089990Y now JC-244196H), 01 Apr 2010

Dfr/Clk P Siva Sankara Rao (No. 1089284X now JC-244197L), 01 Apr 2010

Dfr/Clk S Pandiarajan (No. 1088905Y now JC-244198N), 01 Apr 2010

Dfr/Clk Lal Bachan Yadava (No. 1089352A now JC-244199W), 01 Apr 2010

Dfr/Clk Krishna Kumar Mishra (No. 1089499W now JC-244200A), 01 Apr 2010

Dfr/Clk Harwinder Singh (No. 1089880K now JC-244201H), 01 Apr 2010

Dfr/Clk Anuj Kumar Singh (No. 1086155M now JC-244202L), 01 Apr 2010

Dfr/Clk Pushvinder Singh (No. 1086170F now JC-244203N), 01 Apr 2010

Dfr/Clk Badruddin (No. 1089500A now JC-244425H), 01 Jun 2010

Dfr/Clk Mira Prasad Sah (No. 1088662Y now JC-244426L), 01 Jun 2010

Dfr/Clk Godadhar Roy (No. 1088792F now JC-244427N), 01 Jun 2010

Dfr/Clk Mohammad Zakir Hussain Ansari (No. 1089867A now JC-244428W), 01 Jun 2010

Dfr/Clk Lal Singh (No. 1099034K now JC-244458N), 01 Jul 2010

Dfr/Clk Anil Kumar (No. 1098904K now JC-244459W), 01 Jul 2010

Dfr/Clk Ram Layak Yadava (No. 1098845H now JC-244460L), 01 Jul 2010

Dfr/Clk Biplab Lahiri (No. 1088831P now JC-244461N), 01 Jul 2010

Dfr/SKT Ramesh Kumar Kedian (No. 1086190P now JC-244462W), 04 Jul 2010

\*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr/Clk Govind Singh (No. 1088862P now JC-244548P), 01 Aug 2010

Dfr/Clk Sheo Shankar Rai (No. 1088567M now JC-244549X), 01 Aug 2010

Dfr/Clk Akhilesh Kumar Singh (No. 1089992K now JC-244550M), 01 Aug 2010

Dfr/Clk Sajeev C (No. 1088890F now JC-244551P), 01 Aug 2010

Dfr/Clk Diljeet Kumar (No. 1089759W now JC-244553A), 01 Aug 2010

Dfr/Clk Barge Shrikrishna Shankar (No. 1089868H now JC-244554H), 01 Aug 2010

Dfr/Clk Ganpat Singh (No. 1089995X now JC-244555L), 01 Aug 2010

Dfr/Clk Amar Singh (No. 1099432L now JC-244556N), 02 Aug 2010

\*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr/Clk Ganesh Prasad Mishra (No. 1098608Y now JC-244557W), 01 Aug 2010

Dfr/Clk Shelke Sanjay Tukaram (No. 1089871H now JC-244651A), 01 Sep 2010

J ROY CHOWDHARY  
Under Secy

## AIR BRANCH

No. 60, dated 19th January 2011—No. Air HQ/406681/PA (CPC) dated Apr 2010. The President is pleased to make the following promotions :—

### JWOs to Sub WOs

Sl. No., Rank, Name, Trade and Sub Rank Date
613341 WO Mohammad Shami, Ach GD, 02 Sep 2007
613782 WO Brij Nandan Yadav, Ach GD, 02 Sep 2007
614519 WO Birendra Singh Tomar, Ach GD, 02 Sep 2007
617263 WO Akshya Kumar Routray, Ach GD, 02 Sep 2007
619633 WO Bhogendra Jha, Ach GD, 01 Dec 2007
632419 WO Chandragit Prasad, Ach GD, 04 Sep 2007
643387 WO Arun Kumar Samdershy, Ach GD, 02 Sep 2007
644204 WO Om Prakash Dikshit, Ach GD, 04 Sep 2007
645075 WO Krishna Prasad, Ach GD, 02 Sep 2007
646286 WO Rajendra Singh, Ach GD, 01 Dec 2007
646705 WO Ram Chandra Singh, Ach GD, 01 Dec 2007
647179 WO Santosh Kumar Mahato, Ach GD, 01 Dec 2007
647528 WO Jai Prakash Kanaujiya, Ach GD, 01 Dec 2007
647594 WO Bhojraj Hamar, Ach GD, 03 Dec 2007
625938 WO Shekhar Chakravarty, ADSO, 01 Dec 2007
626812 WO Oum Prakash Chahar, ADSO, 01 Dec 2007
626862 WO Samuel Gnanchand Katy, ADSO, 01 Dec 2007
638867 WO Rajendra Prasad Yadav, ADSO, 01 Dec 2007
639166 WO Rajbir Singh, ADSO, 01 Dec 2007
639312 WO Girish Kumar Beniwal, ADSO, 01 Dec 2007
654005 WO Ram Kumar, ADSO, 01 Dec 2007
654135 WO Bhalgat R A, ADSO, 01 Mar 2008
654186 WO Umesh Singh, ADSO, 01 Dec 2007
654217 WO Sunil Kumar Bajpai, ADSO, 01 Dec 2007
654342 WO Brajendra Kumar Dixit, ADSO, 01 Dec 2007
654363 WO Md Eqbaluddin, ADSO, 01 Dec 2007
654528 WO Narendra Singh, ADSO, 01 Dec 2007
672875 WO Jaimal Boora, ADSO, 01 Dec 2007



673186 WO Promod Kumar Chaudhary, ADSO, 01 Dec 2007

669055 WO Arvind Kumar Sharma, Af Fit, 02 Dec 2006

677126 WO Sanjeev Kumar Singh, Af Fit, 14 Jan 2009

610502 WO Ananta Sarma, Clk Accts, 15 May 2009

610649 WO Ashok Kumar Pathak, Clk Accts, 17 May 2009

611140 WO Ram Shanker, Clk Accts, 10 Jun 2009

611373 WO Khadag Singh, Clk Accts, 17 May 2009

611458 WO Ram Kuwar, Clk Accts, 15 May 2009

611734 WO Baikunth Singh, Clk Accts, 10 Jun 2009

612179 WO Mahendra Pratap Singh, Clk Accts, 15 May 2009

612545 WO Rang Lal Ram, Clk Accts, 17 May 2009

612561 WO Kuldip Singh, Clk Accts, 17 May 2009

612813 WO Sharma Panchanan, Clk Accts, 08 Jun 2009

612839 WO Surendra Kumar, Clk Accts, 10 Jun 2009

612938 WO Doodh Nath, Clk Accts, 17 May 2009

612996 WO Mangu Singh Rathore, Clk Accts, 17 May 2009

613031 WO Devendra Prasad Singh, Clk Accts, 19 May 2009

613313 WO Ranjit Singh, Clk Accts, 19 May 2009

613330 WO Pari Mal Kumar Das, Clk Accts, 19 May 2009

613664 WO Baban Prasad, Clk Accts, 23 May 2009

613824 WO Paresh Nath Goswami, Clk Accts, 19 May 2009

614163 WO Ram Kumar Ram, Clk Accts, 08 Jun 2009

614469 WO Ramakant, Clk Accts, 19 May 2009

614907 WO Ajoy Kumar Mondal, Clk Accts, 23 May 2009

614935 WO Brahm Jit Yadaw, Clk Accts, 21 May 2009

625275 WO Bhuban Gajurel, Clk Accts, 13 May 2009

645225 WO Akram Tiwary, Clk Accts, 23 May 2009

645384 WO Bama Pada Das, Clk Accts, 09 Aug 2009

645425 WO Mahabir Kaushik, Clk Accts, 08 Jun 2009

645506 WO Khajan Singh Chahar, Clk Accts, 23 May 2009

645813 WO Ravi Prakash Gupta, Clk Accts, 23 May 2009

646865 WO Kameshwar Pandey, Clk Accts, 25 May 2009

647628 WO Rama Chandra Singh, Clk Accts, 25 May 2009

671721 WO Lakhan Singh, Clk Accts, 29 May 2009

671916 WO Om Prakash, Clk Accts, 29 May 2009

671961 WO Parshu Ram, Clk Accts, 04 Jun 2009

671965 WO Radhe Shyam Singh, Clk Accts, 29 May 2009

672008 WO Narendra Kumar, Clk Accts, 29 May 2009

672090 WO Suresh Singh Chauhan, Clk Accts, 08 Jun 2009

672100 WO Chatur Bhuj Dwiwedi, Clk Accts, 29 May 2009

672358 WO Dinesh Singh, Clk Accts, 04 Jun 2009

672547 WO Dinesh Singh, Clk Accts, 31 May 2009

672549 WO Ramesh Chandra Srivastava, Clk Accts, 29 May 2009

672726 WO Dharam Singh Saini, Clk Accts, 04 Jun 2009

672833 WO Chandra Sekhar Prasad Jaiswal, Clk Accts, 31 May 2009

673042 WO Pradip Kumar, Clk Accts, 31 May 2009

673139 WO Singh Kuldeep, Clk Accts, 04 Jun 2009

673165 WO Raveendran Nanoo, Clk Accts, 13 May 2009

673169 WO Shyam Kishore Sharma, Clk Accts, 02 Jun 2009

673216 WO Ajithkumar Karunakaran Nair, Clk Accts, 08 Jun 2009

673386 WO Mohan K M V N, Clk Accts, 06 Jun 2009

673442 WO Auti Shantaram Chandrarao, Clk Accts, 13 May 2009

673612 WO Mankar Machhindra Khandu, Clk Accts, 06 Jun 2009

673929 WO Randhir Singh Panwar, Clk Accts, 06 Jun 2009

673931 WO Rameshwar Sharma, Clk Accts, 13 May 2009

673938 WO Rajendra Singh, Clk Accts, 06 Jun 2009

674605 WO Shashi Kant Mishra, Clk Accts, 06 Jun 2009

610460 WO Narayanlal Mehra, Clk GD, 31 Dec 2007

610867 WO Rajendra Nath Sarma, Clk GD, 31 Dec 2007

612201 WO Jagar Nath Singh, Clk GD, 31 Dec 2007

612204 WO Dwivedi Ramesh Kumar, Clk GD, 31 Dec 2007

612315 WO Shive Dhani Pandey, Clk GD, 31 Dec 2007

612346 WO Vias Dev Sharma, Clk GD, 31 Dec 2007

- 612681 WO Satya Narain Mishra, Clk GD, 31 Dec 2007  
612888 WO Awadhesh Kumar Chauhan, Clk GD, 31 Dec 2007  
613414 WO Ram Chandra Prasad Singh, Clk GD, 02 Jan 2008  
613416 WO Ram Charitra Yadav, Clk GD, 02 Jan 2008  
613554 WO Rabi Narayan Mohapatra, Clk GD, 31 Dec 2007  
613951 WO Dashrath Lal Soni, Clk GD, 02 Jan 2008  
614059 WO Harchand Singh, Clk GD, 27 Dec 2007  
614313 WO Yugal Prasad Singh, Clk GD, 02 Jan 2008  
614810 WO Amrendra Kumar, Clk GD, 02 Jan 2008  
614914 WO Samar Kumar Debnath, Clk GD, 04 Jan 2008  
621239 WO Kamla Kant Tiwari, Clk GD, 10 Jan 2008  
645025 WO Ram Pyare Yadav, Clk GD, 31 Dec 2007  
645217 WO Surendra Prasad Yadav, Clk GD, 04 Jan 2008  
645318 WO Rajendra Kumar Shukla, Clk GD, 31 Dec 2007  
645447 WO Vishnu Mahadev Gaikwad, Clk GD, 02 Jan 2008  
645504 WO Krishan Pal, Clk GD, 02 Jan 2008  
645615 WO Bateswar Saha, Clk GD, 02 Jan 2008  
645960 WO Baban Yadav, Clk GD, 02 Jan 2008  
645998 WO Pramod Kumar, Clk GD, 04 Jan 2008  
646003 WO Ashok Kumar Tripathi, Clk GD, 02 Jan 2008  
646007 WO Kedar Singh, Clk GD, 04 Jan 2008  
646062 WO Apolinus Kispotta, Clk GD, 04 Jan 2008  
646141 WO Kulwant Singh, Clk GD, 04 Jan 2008  
646204 WO Kripa Shankar Upadhyay, Clk GD, 04 Jan 2008  
646522 WO Upendra Singh, Clk GD, 08 Jan 2008  
646716 WO Abdul Wahid, Clk GD, 01 Feb 2008  
646848 WO Sri Krishna Yadav, Clk GD, 04 Jan 2008  
646854 WO Pillala Jairam, Clk GD, 01 Feb 2008  
646859 WO Bijadhar Choudhary, Clk GD, 06 Jan 2008  
646932 WO Chandra Bhushan, Clk GD, 06 Jan 2008  
647010 WO Mahmood Ahmad, Clk GD, 01 Feb 2008  
647166 WO Prabal Narayan Nandy, Clk GD, 06 Jan 2008  
647334 WO Nizamuddin, Clk GD, 06 Jan 2008  
647443 WO Narendra Singh Rajora, Clk GD, 10 Jan 2008  
647536 WO Rajendra Nath Mishra, Clk GD, 10 Jan 2008  
647555 WO Chanchal Ghosh, Clk GD, 10 Jan 2008  
647666 WO Chandi Prasad Chamola, Clk GD, 10 Jan 2008  
647674 WO Bhan Swarup Saraswat, Clk GD, 10 Jan 2008  
647734 WO Chandra Kishore Prasad, Clk GD, 10 Jan 2008  
647736 WO Md Ajaz Akhter Khan, Clk GD, 10 Jan 2008  
647739 WO Ramesh Jha, Clk GD, 01 Feb 2008  
647834 WO Rambahadur Kushwaha, Clk GD, 01 Feb 2008  
647932 WO Mahammad Sayeed Yargatti, Clk GD, 01 Feb 2008  
649298 WO Shakil Ahmad, Clk GD, 29 Dec 2007  
649765 WO Tilakch Patowary, Crypto, 02 Jul 2008  
670039 WO Santosh Kumar Dwivedi, Crypto, 02 Jul 2008  
670371 WO Lukman Khan Joya, Crypto, 02 Jul 2008  
670477 WO Amar Nath Pandey, Crypto, 02 Jul 2008  
670783 WO Ajay Kumar Jha, Crypto, 02 Jul 2008  
671765 WO Choudhary Shambhu Prasad, Crypto, 01 Sep 2008  
671883 WO Rajendra Kumar Sharma, Crypto, 01 Sep 2008  
649520 WO Dinesh Kumar, Ed Inst, 01 Aug 2007  
679370 WO Bharat Bhushan Singh, Ed Inst, 02 Nov 2007  
701748 WO Satvinder Singh Randhawa, Ed Inst, 01 Aug 2007  
704226 WO Prafulla Kumar Mishra, Ed Inst, 01 Feb 2008  
704425 WO Tapash Bhattacharya, Ed Inst, 01 Feb 2008  
728597 WO Kashi Nath Tiwary, Ed Inst, 03 Feb 2008  
736814 WO Probir Kumar Roy, Ed Inst, 01 May 2008  
736819 WO Ramkinkar Tripathi, Ed Inst, 05 Feb 2008  
736821 WO Shashi Kant Mishra, Ed Inst, 01 May 2008  
736825 WO Rajinder Kumar Saini, Ed Inst, 01 May 2008  
737990 WO Kirpal Singh Bedi, Ed Inst, 01 May 2008

- 737995 WO Subhash Prasad Singh, Ed Inst, 03 May 2008
- 738802 WO Susanta Kumar Mohapatra, Ed Inst, 01 Sep 2008
- 738803 WO Nabin Kumar, Ed Inst, 13 Nov 2007
- 738805 WO Ravindra Kumar, Ed Inst, 05 May 2008
- 770142 WO Pramod Kumar K, Ed Inst, 01 Sep 2008
- 770150 WO Harish Singh, Ed Inst, 02 Sep 2007
- 626003 WO Krishan Kumar Antal, Elect Fit, 06 Dec 2007
- 639256 WO Kulamani Pradhan, Elect Fit, 08 Dec 2007
- 639412 WO Bhupendra Nath Chowdhary, Elect Fit, 02 Jun 2008
- 639749 WO Ramji Verma, Elect Fit, 04 Dec 2007
- 639771 WO Arjun Singh Yadav, Elect Fit, 08 Dec 2007
- 639774 WO Parveen Kumar Pahwa, Elect Fit, 06 Dec 2007
- 653866 WO Dharambir Yadav, Elect Fit, 02 May 2008
- 654420 WO Badri Nath Rai, Elect Fit, 08 Dec 2007
- 654589 WO Bachittar Singh, Elect Fit, 04 Dec 2007
- 673282 WO Shibu Vazhukal Narayanan, Elect Fit, 04 Dec 2007
- 673447 WO Pradip Kumar Sethi, Elect Fit, 02 Jan 2008
- 673529 WO Rajendra Pandey, Elect Fit, 04 Dec 2007
- 674553 WO Singh Surendra, Elect Fit, 06 Dec 2007
- 674695 WO Deen Dayal, Elect Fit, 03 Dec 2008
- 674900 WO Shyamal Kishor Jha, Elect Fit, 02 Jan 2008
- 680388 WO Krishan Kumar Kadyan, Elect Fit, 06 Dec 2007
- 680432 WO Pankaj Paul, Elect Fit, 02 Jan 2008
- 680436 WO Manoj Sinha, Elect Fit, 06 Dec 2007
- 680605 WO Rajendra Singh Dahiya, Elect Fit, 04 Dec 2007
- 680631 WO Rakesh Anil Rawat, Elect Fit, 02 Jan 2008
- 680652 WO Pradeep Kumar Sharma, Elect Fit, 04 Dec 2007
- 680749 WO Ramautar Yadav, Elect Fit, 02 Mar 2007
- 680939 WO Rajkumar Singh, Elect Fit, 02 Sep 2008
- 680944 WO Santosh Kumar, Elect Fit, 02 Sep 2008
- 681027 WO Ranjit Singh, Elect Fit, 02 Sep 2008
- 681330 WO Asim Biswas, Elect Fit, 02 Sep 2008
- 681461 WO Rajendra Kumar Behara, Elect Fit, 02 Sep 2008
- 681540 WO Gajanan Madasoodan Naik, Elect Fit, 02 Oct 2008
- 681675 WO Vaskar Saha, Elect Fit, 02 Oct 2008
- 681717 WO Shashanka Kumar Mohapatra, Elect Fit, 02 Jun 2008
- 682213 WO Ajay Kumar, Elect Fit, 02 Oct 2008
- 682232 WO Subrata Chakravorty, Elect Fit, 02 Nov 2008
- 682840 WO Pranay Nath, Elect Fit, 02 Jun 2008
- 683436 WO S Narayan Rao Reddy, Elect Fit, 02 Jun 2008
- 683596 WO Shamsher Singh Kazal, Elect Fit, 02 May 2008
- 683615 WO Dharajeet, Elect Fit, 02 Jan 2008
- 683694 WO Ram Janam Ohdar, Elect Fit, 02 Jun 2008
- 684041 WO Jagdish Singh Pooniya, Elect Fit, 02 Jan 2008
- 684229 WO Shekhar Sen, Elect Fit, 02 Jun 2008
- 690486 WO Dharmendra Kumar Pandey, Elect Fit, 02 Jan 2008
- 690496 WO Rajkumar Verma, Elect Fit, 02 Jun 2008
- 690577 WO Fai Muddin Khan, Elect Fit, 02 Jan 2008
- 690589 WO Madan Pal Vatsa, Elect Fit, 02 Jun 2008
- 690686 WO Ashok Kumar Sharma, Elect Fit, 02 Feb 2008
- 690715 WO Satya Pal, Elect Fit, 02 Feb 2008
- 691479 WO Chaman Lal Sharma, Elect Fit, 02 Feb 2008
- 691488 WO Sarup Singh Saini, Elect Fit, 02 Feb 2008
- 691520 WO Anil Kumar Verma, Elect Fit, 02 Feb 2008
- 691604 WO Tej Bir Singh Chahar, Elect Fit, 02 Mar 2008
- 691678 WO Sanjay Kumar, Elect Fit, 02 Feb 2008
- 691681 WO Laldeo Prasad Singh, Elect Fit, 02 Mar 2008
- 691793 WO Ashok Kumar Antil, Elect Fit, 02 May 2008
- 691951 WO Anup Kumar Upadhyay, Elect Fit, 02 Mar 2008
- 692041 WO Nazimuddin, Elect Fit, 02 May 2008
- 658716 WO Yogendra Choudhary, Eng Fit, 02 Sep 2006
- 658720 WO Gupteshwar Kumar Singh, Eng Fit, 02 Dec 2006
- 659363 WO Rajpal Singh Yadav, Eng Fit, 02 Dec 2006
- 659430 WO Vijay Kumar, Eng Fit, 02 Dec 2006
- 659632 WO Ram Janam Singh, Eng Fit, 02 Dec 2006
- 667082 WO Vikrama Singh Kushwaha, Eng Fit, 18 Jul 2006
- 612959 WO Hari Nath, Eqpt Asst, 25 Jun 2008
- 613148 WO Rajendra Prasad Singh, Eqpt Asst, 25 Jun 2008

- 648692 WO Vijendra Singh, Eqpt Asst, 16 Apr 2007  
 671912 WO Madan Singh, Eqpt Asst, 23 Mar 2007  
 672017 WO Narendra Kumar, Eqpt Asst, 15 Jun 2008  
 658793 WO Prem Singh, Flt Gun, 02 Jun 2007  
 659916 WO Ramesh Kumar, Flt Gun, 02 Jun 2007  
 665147 WO Pramod Kumar Yadav, Flt Gun, 02 Jun 2007  
 666748 WO Arvind Kumar Srivastava, Flt Gun, 02 Jun 2007  
 667336 WO Kakade Ramchandra Bajirao, Flt Gun, 02 Jun 2007  
 646496 WO Muni Samy Vasu, GTI, 01 Feb 2008  
 646505 WO Pritpal Singh, GTI, 01 Feb 2008  
 646781 WO Darshan Lal, GTI, 01 Feb 2008  
 646879 WO Narendra Bahadur Singh, GTI, 19 Jun 2008  
 646923 WO Virendra Nath Panday, GTI, 01 Feb 2008  
 646925 WO Jawahar Lal, GTI, 01 Feb 2008  
 647157 WO Awadh Bihari Pathak, GTI, 20 Jun 2008  
 647238 WO Narendra Barman, GTI, 15 Jun 2008  
 647590 WO Sham Sul Joha Azad, GTI, 15 Jun 2008  
 647796 WO Ramesh Chandra Lenka, GTI, 25 Jun 2008  
 648254 WO Kan Singh Tanwar, GTI, 01 Jul 2008  
 671711 WO Ram Newal, GTI, 17 Jun 2008  
 672124 WO Subbiah Chandrasekaran, GTI, 01 Sep 2008  
 672660 WO Gyan Singh Shekhawat, GTI, 01 Jul 2008  
 726436 WO Ramesh Kumar, GTI (S), 13 Jun 2008  
 726523 WO Anil Kumar, GTI (S), 01 Feb 2008  
 727048 WO Bhawe Sujit Shri Ram, GTI (S), 01 Sep 2008  
 616011 WO Ram Nath Singh, IAF (P), 25 Sep 2008  
 617049 WO Purushothaman Thazhath Veedu, IAF (P), 25 Sep 2008  
 624613 WO Upendra Nayak, IAF (P), 23 Dec 2007  
 628295 WO Abdul Kalam Farooqui, IAF (P), 21 Sep 2008  
 635016 WO Manoj Sharma, Med Asst, 27 Dec 2006  
 650673 WO Trilokinath Kaushik, Med Asst, 21 Dec 2006  
 650686 WO Omparkash Singh, Med Asst, 23 Dec 2006  
 655001 WO Brij Mohan Bachheti, Med Asst, 19 Dec 2006  
 655120 WO Yogendra Prasad, Med Asst, 19 Dec 2006  
 655178 WO Nirmal Kumar, Med Asst, 21 Dec 2006  
 655308 WO Mohammed Akaram, Med Asst, 21 Dec 2006  
 655309 WO Vishnu Kumar Gaur, Med Asst, 21 Dec 2006  
 655316 WO Babu Thomas, Med Asst, 21 Dec 2006  
 655330 WO Devmani Sharma, Med Asst, 02 Jan 2007  
 655340 WO Purendu Kumar Deb, Med Asst, 21 Dec 2006  
 655345 WO Man Bahadur Singh, Med Asst, 23 Dec 2006  
 655363 WO Prabhat Kumar Shah, Med Asst, 25 Dec 2006  
 655401 WO Prabir Mukhopadhaya, Med Asst, 25 Dec 2006  
 655940 WO Ramsajiwan, Med Asst, 17 Dec 2006  
 655948 WO Ajay Kumar Singh, Med Asst, 02 Feb 2007  
 655962 WO Gajraj Singh Dhama, Med Asst, 02 Feb 2007  
 655968 WO Sri Shyamal Kumar Das, Med Asst, 02 Feb 2007  
 655988 WO Ramaswamy Sreedhar, Med Asst, 02 Feb 2007  
 627613 WO Jag Mohan Lal Garg, Met Asst, 02 Nov 2007  
 668168 WO Rana Pratap Singh, Met Asst, 02 Mar 2008  
 669031 WO Surendra Kumar Sharma, Met Asst, 02 Oct 2007  
 669223 WO Suresh Kumar Srivastava, Met Asst, 02 Oct 2007  
 629616 WO Satyendra Singh, MS Fit (E), 02 Jul 2008  
 654958 WO Raj Kumar Shaw, MS Fit (E), 02 Jul 2008  
 654966 WO Umesh Chandra Sharma, MS Fit (E), 02 Jul 2008  
 654969 WO Avutapalli Ramesh Babu, MS Fit (E), 02 Jul 2008  
 654972 WO Mahendra Nath Misra, MS Fit (E), 02 Jul 2008  
 654973 WO Bhuvan Mohan Rai, MS Fit (E), 02 Jul 2008  
 654975 WO Jagjit Singh, MS Fit (E), 02 Jul 2008  
 654977 WO Praveen Kumar Sahraot, MS Fit (E), 02 Jul 2008  
 654978 WO Mohammed Salim, MS Fit (E), 02 Jul 2008  
 654979 WO Surendra Nath Yadav, MS Fit (E), 02 Jul 2008  
 692080 WO Vinay Kumar Gupta, MS Fit (E), 02 Jul 2007  
 629608 WO Padmanabhan B P, MS Fit (L), 02 Jul 2008  
 705172 WO Sanjay Kumar Sharma, MS Fit (L), 02 Jul 2008  
 705183 WO Dinesh Chandra Tiwari, MS Fit (L), 02 Jul 2008  
 705193 WO Lalan Kumar, MS Fit (L), 02 Jul 2008  
 705261 WO Mohammad Ashfaque Ahamad, MS Fit (L), 02 Jul 2008

638801 WO Naresh Chandra Rathore, MT Fit, 03 Jul 2008  
653918 WO Devi Prasad Pandey, MT Fit, 03 Jul 2008  
662600 WO Bhuri Singh, MT Fit, 03 Jul 2008  
662626 WO Krishna Sami Srinivasan, MT Fit, 03 Jul 2008  
662632 WO Rajkumar Baghel, MT Fit, 03 Jul 2008  
668451 WO Arjun Dev Kalra, MT Fit, 03 Jul 2008  
668550 WO Ashok Kumar Singh, MT Fit, 03 Jul 2008  
668565 WO Raghujeet Singh Yadav, MT Fit, 03 Jul 2008  
668569 WO Ramraj Vishvakarma, MT Fit, 03 Jul 2008  
616314 WO Chandeshwar Prasad Singh, MTD, 15 Jun 2008  
617728 WO Shree Krishna Singh, MTD, 07 Jun 2008  
617795 WO Amiya Kumar Sarkar, MTD, 07 Jun 2008  
618135 WO Veerapa Basaanneppa Deyannavar, MTD, 07 Jun 2008  
618495 WO Mati Lal Das, MTD, 07 Jun 2008  
618899 WO Radhey Lal Harswal, MTD, 07 Jun 2008  
619213 WO Krupasindhu Khuntia, MTD, 07 Jun 2008  
619443 WO Achal Kumar Trivedi, MTD, 15 Jun 2008  
619644 WO Kanhaiyalal Patel, MTD, 07 Jun 2008  
620106 WO Mah Tab Singh, MTD, 07 Jun 2008  
621109 WO Sahab Singh Malik, MTD, 07 Jun 2008  
621488 WO Vinod Kumar Kukreti, MTD, 09 Jun 2008  
621564 WO Singh Suryanarayan Seetaram, MTD, 09 Jun 2008  
621595 WO Raju Cheriyan, MTD, 09 Jun 2008  
621685 WO Laljee Singh, MTD, 09 Jun 2008  
621714 WO Madhu Sudan Panda, MTD, 09 Jun 2008  
621715 WO Basanta Kumar Senapati, MTD, 09 Jun 2008  
621772 WO Indra Pal Singh Chauhan, MTD, 09 Jun 2008  
621970 WO Brijendra Kumar Dwivedi, MTD, 11 Jun 2008  
622007 WO Thankachalam Mohan, MTD, 11 Jun 2008  
622024 WO Gopinath Mohapatra, MTD, 11 Jun 2008  
622032 WO Debasis Kamp, MTD, 15 Jun 2008  
622044 WO Banshi Singh Rajput, MTD, 11 Jun 2008  
622045 WO Rajendera Prasad VEDI, MTD, 11 Jun 2008  
622325 WO Ran Singh Yadav, MTD, 15 Jun 2008  
622391 WO Satya Narayan Mishra, MTD, 15 Jun 2008  
622455 WO Bishnu Deo Shukla, MTD, 17 Jun 2008  
622553 WO Dharma Nath Shah, MTD, 17 Jun 2008  
622561 WO Rohitashwa Yadav, MTD, 17 Jun 2008

623617 WO Padbhanabha Umathanu Pillai, MTD, 02 Mar 2006  
620444 WO Vattaparamphil Francies Antony, Musn, 04 Aug 2008  
626588 WO Anthoney Lourdes Maxwell, Musn, 05 Oct 2009  
644866 WO Gokula Nanda Sahu, Photo Fit, 01 Nov 2007  
650411 WO Ravinder Singh, Photo Fit, 02 Feb 2008  
657978 WO Narendra Prasad Singh, Photo Fit, 01 Nov 2007  
614757 WO Aher Dinkar Bhagvan, PJI, 12 Apr 2006  
621183 WO Berendra Singh Jadu, PJI, 07 Jun 2008  
705325 WO Suresh Kumar Thakur, PMF (Elec), 02 Jul 2008  
680974 WO Ghanshyam Prasad Yadav, Rad Fit, 12 Dec 2008  
681031 WO Pawan Kumar, Rad Fit, 20 Dec 2008  
681116 WO Rajeev Ranjan, Rad Fit, 12 Dec 2008  
681389 WO Siva Kumaran Kumar Nilayam, Rad Fit, 22 Dec 2008  
681576 WO Rajendra Kumar C P, Rad Fit, 24 Dec 2008  
681812 WO Nirmalkumar MC, Rad Fit, 12 Dec 2008  
682334 WO Gaddam Krishna Moorthy, Rad Fit, 12 Dec 2008  
682576 WO Arun Kumar Mathuri, Rad Fit, 12 Dec 2008  
682704 WO Veerabhadra Rao Mantripragada, Rad Fit, 24 Dec 2008  
682844 WO Soumen Debnath, Rad Fit, 24 Dec 2008  
683090 WO Soumitra Kumar Sen, Rad Fit, 22 Dec 2008  
683119 WO Hariharan Padmanabha Pillai, Rad Fit, 14 Dec 2008  
683408 WO Rajendra Kumar Pandey, Rad Fit, 14 Dec 2008  
683411 WO Mahendra Pratap Mishra, Rad Fit, 14 Dec 2008  
683440 WO Anil Kumar Singh, Rad Fit, 14 Dec 2008  
683560 WO Harendra Pratap Singh, Rad Fit, 16 Dec 2008  
683563 WO Manoj Kumar, Rad Fit, 16 Dec 2008  
683567 WO Kunj Bihari Prasad, Rad Fit, 16 Dec 2008  
683771 WO Priya Vart, Rad Fit, 16 Dec 2008  
683834 WO Dharambir Singh, Rad Fit, 16 Dec 2008  
683881 WO Ashok Kumar Singh, Rad Fit, 16 Dec 2008  
683957 WO Parameswaran KC, Rad Fit, 18 Dec 2008  
683990 WO Gavendra Chauhan, Rad Fit, 22 Dec 2008

- 684098 WO Makarand Singh Rajput, Rad Fit, 18 Dec 2008
- 684297 WO Kamlesh Prasad, Rad Fit, 20 Dec 2008
- 684303 WO Ram Babu, Rad Fit, 20 Dec 2008
- 684325 WO Bogh Singh, Rad Fit, 18 Dec 2008
- 684534 WO Satyender Singh Rawat, Rad Fit, 20 Dec 2008
- 684549 WO Brajesh Kumar Sharma, Rad Fit, 24 Dec 2008
- 684558 WO Dinesh Kumar Arora, Rad Fit, 22 Dec 2008
- 684642 WO Balwan Singh, Rad Fit, 24 Dec 2008
- 684773 WO Daljeet Singh Dhanjal, Rad Fit, 24 Dec 2008
- 684780 WO Virendra Upadhyay, Rad Fit, 20 Dec 2008
- 622525 WO Swapan Kumar Karmaker, Rdo Fit, 02 Feb 2008
- 623990 WO Satish Chandra Maurya, Rdo Fit, 02 Feb 2008
- 624418 WO Karani Singh Udawat, Rdo Fit, 12 Feb 2008
- 624470 WO Dilip Singh, Rdo Fit, 24 Feb 2008
- 624553 WO Satya Vir Singh, Rdo Fit, 12 Feb 2008
- 624555 WO Mahavir, Rdo Fit, 12 Feb 2008
- 624557 WO Jutike Emmanuel, Rdo Fit, 18 Feb 2008
- 624686 WO Angad Singh, Rdo Fit, 18 Feb 2008
- 624695 WO Ramesh Chand, Rdo Fit, 18 Feb 2008
- 624817 WO Om Prakash Sharma, Rdo Fit, 18 Feb 2008
- 625202 WO Ramrabi Mukhopadhyay, Rdo Fit, 20 Feb 2008
- 625420 WO Bishan Singh Dhami, Rdo Fit, 22 Feb 2008
- 625429 WO Umed Singh Gehlaut, Rdo Fit, 01 Jun 2008
- 633360 WO T Tirupathi Manokoran, Rdo Fit, 06 Feb 2008
- 633551 WO Surjeet Singh Bachhal, Rdo Fit, 22 Feb 2008
- 633974 WO Onkar Pal, Rdo Fit, 06 Feb 2008
- 633999 WO Jagdish Singh Yadav, Rdo Fit, 06 Feb 2008
- 634099 WO Jasbir Singh Sahota, Rdo Fit, 06 Feb 2008
- 634167 WO Rajnath Rai, Rdo Fit, 06 Feb 2008
- 634298 WO Shiwjee Chowdhury, Rdo Fit, 06 Feb 2008
- 634300 WO Nawal Kishore Sharma, Rdo Fit, 06 Feb 2008
- 634433 WO Aniruddha Ram, Rdo Fit, 06 Feb 2008
- 634437 WO Umesh Kumar, Rdo Fit, 06 Feb 2008
- 634442 WO Madan Murari Sahu, Rdo Fit, 06 Feb 2008
- 634493 WO Yas Pal Singh Soem, Rdo Fit, 06 Feb 2008
- 635965 WO Subodh Kumar, Rdo Fit, 02 Feb 2008
- 636939 WO Rajak Khan, Rdo Fit, 12 Feb 2008
- 637147 WO Nirmal Kumar, Rdo Fit, 02 Feb 2008
- 637453 WO Naba Kumar Roy, Rdo Fit, 12 Feb 2008
- 637484 WO Dheer Singh Yadav, Rdo Fit, 12 Feb 2008
- 637485 WO Jeevan Singh, Rdo Fit, 12 Feb 2008
- 637487 WO Pitam Singh Tomer, Rdo Fit, 12 Feb 2008
- 637585 WO Vijay Kumar Sharma, Rdo Fit, 24 Feb 2008
- 637675 WO Thulaseedharan Muraleedharan, Rdo Fit, 18 Feb 2008
- 637770 WO Arvinda Kumar Tiwari, Rdo Fit, 18 Feb 2008
- 637868 WO Narasingh Sahu, Rdo Fit, 12 Feb 2008
- 637884 WO Gopal Singh Rajput, Rdo Fit, 01 Jun 2008
- 638044 WO Bali Ram Singh, Rdo Fit, 12 Feb 2008
- 638051 WO Ravindra Kumar Singh, Rdo Fit, 26 Feb 2008
- 638067 WO Kunvar Vinod Singh, Rdo Fit, 01 Jun 2008
- 638078 WO Shesh Narain Misra, Rdo Fit, 18 Feb 2008
- 638187 WO Surinder Kumar, Rdo Fit, 18 Feb 2008
- 638246 WO Lal Subir, Rdo Fit, 26 Feb 2008
- 638247 WO Singh Vineet Kumar, Rdo Fit, 12 Feb 2008
- 638257 WO Singh Shyambeer, Rdo Fit, 20 Feb 2008
- 638270 WO Mohammad Zaki Ahmad Khan, Rdo Fit, 20 Feb 2008
- 638278 WO Sukomal Sen, Rdo Fit, 20 Feb 2008
- 638569 WO Arun Kumar Pandey, Rdo Fit, 22 Feb 2008
- 638571 WO Tej Narayan Singh, Rdo Fit, 24 Feb 2008
- 638707 WO Ravindra Kumar Mishra, Rdo Fit, 01 Dec 2008
- 639213 WO Ravendra Kumar Saxena, Rdo Fit, 02 Feb 2008
- 639634 WO Raj Kesh Rai, Rdo Fit, 01 Dec 2008
- 652430 WO Rengarajan Rama Subbu, Rdo Fit, 02 Feb 2008
- 652892 WO Dalip Singh, Rdo Fit, 12 Feb 2008
- 652899 WO Ramesh Kumar, Rdo Fit, 12 Feb 2008
- 653002 WO Harsharan Singh, Rdo Fit, 18 Feb 2008
- 653157 WO Madhav Lal Jangid, Rdo Fit, 01 Jun 2008
- 653197 WO Kasab Chandra Mazumder, Rdo Fit, 24 Feb 2008
- 653253 WO Kshatriya A I, Rdo Fit, 24 Feb 2008
- 653274 WO Manoranjan Panda, Rdo Fit, 12 Feb 2008
- 653281 WO Parveen Chandra, Rdo Fit, 01 Jun 2008
- 653314 WO Madan Mohan Dwivedi, Rdo Fit, 26 Feb 2008
- 653495 WO Uday Nath, Rdo Fit, 22 Feb 2008
- 653519 WO Komesh Kumar Tyagi, Rdo Fit, 12 Feb 2008
- 653734 WO Lokesh Chandra Prajapati, Rdo Fit, 22 Feb 2008
- 654014 WO Devaraj William Charles, Rdo Fit, 01 Jun 2008

654373 WO Padam Singh Sogerwal, Rdo Fit, 02 Feb 2008

654527 WO Bahadur Singh Tyagi, Rdo Fit, 02 Feb 2008

672956 WO Vinod Kumar Singh, Rdo Fit, 02 Feb 2008

673518 WO Tej Narain Mandal, Rdo Fit, 01 Dec 2008

673622 WO Tingase Yashawant Bapuraoji, Rdo Fit, 01 Dec 2008

673947 WO Janardan Kumar Dwivedi, Rdo Fit, 01 Dec 2008

674220 WO Jagdish Singh Solanki, Rdo Fit, 01 Dec 2008

674668 WO Prem Lal Dendewa, Rdo Fit, 01 Dec 2008

626035 WO Ramachandran Krishnan, Rdo Tech, 07 Feb 2009

626421 WO Naresh Kumar Sood, Rdo Tech, 01 Feb 2009

626776 WO Krishan Singh Yadav, Rdo Tech, 03 Feb 2009

635843 WO Chitta Ranjan Das, Rdo Tech, 02 Oct 2006

638586 WO Gajendra Kumar Singh, Rdo Tech, 28 Jan 2009

638619 WO Kirti Bas Das, Rdo Tech, 28 Jan 2009

638840 WO S Bal Reddy (Singi Reddy), Rdo Tech, 30 Jan 2009

638865 WO Gopal Singh, Rdo Tech, 07 Feb 2009

638928 WO Devi Chand, Rdo Tech, 05 Feb 2009

639264 WO Pradip Kumar Jayswal, Rdo Tech, 13 Feb 2009

639781 WO Ram Hans Verma, Rdo Tech, 28 Jan 2009

653909 WO Bijay Pratap Pandey, Rdo Tech, 13 Feb 2009

654082 WO Singh Jugendra, Rdo Tech, 30 Jan 2009

654203 WO Aman Ullah Khan, Rdo Tech, 02 Oct 2006

654208 WO Lakshman Kumar Yadav, Rdo Tech, 09 Feb 2009

654471 WO Abani Ballav Dutta, Rdo Tech, 11 Feb 2009

654550 WO Ravinder Singh Yadav, Rdo Tech, 03 Feb 2009

672855 WO Tara Mani Balgotra, Rdo Tech, 28 Jan 2009

672877 WO Kanwal Jit Singh, Rdo Tech, 30 Jan 2009

673044 WO Chandra Bhushan Singh, Rdo Tech, 03 Feb 2009

673400 WO Ranbir Singh Shorain, Rdo Tech, 02 Oct 2006

673454 WO Binay Bhusan Patnaik, Rdo Tech, 04 Oct 2006

673544 WO Sripada Venkateswara Rao, Rdo Tech, 04 Oct 2006

673550 WO Besant Kumar, Rdo Tech, 04 Oct 2006

641018 WO Siya Ram, Sew, 02 Aug 2007

643622 WO K Premnath, Sew, 02 Nov 2007

644452 WO Nityanand Sharma, Sew, 02 Feb 2008

644881 WO Bhuwaneshwar Prasad, Sew, 02 Aug 2007

644886 WO Suresh Kumar Choudhary, Sew, 02 Aug 2007

657168 WO Gurnam Singh, Sew, 02 Aug 2007

657179 WO Mohan Singh Baghel, Sew, 02 Aug 2007

657454 WO Syamghan Sahu, Sew, 27 Jun 2008

657731 WO Shree Krishna Prasad, Sew, 02 Sep 2007

658009 WO Ashok Kumar Tewari, Sew, 02 Sep 2007

658010 WO Syed Jamal Husain Rizvi, Sew, 02 Feb 2008

658989 WO Ram Naresh Prasad, Sew, 27 Jun 2008

662295 WO Baljeet Singh, Sew, 27 Jun 2008

666856 WO Basab Chandra Saloi, Sew, 27 Jun 2008

667639 WO Suresh Prasad Singh, Sew, 27 Jun 2008

635715 WO Raghuvir Singh, Telst Rto, 26 Apr 2008

636123 WO Muhammad Kalamuddin, Telst Rto, 26 Apr 2008

636566 WO Mahesh Chandra Mourya, Telst Rto, 26 Apr 2008

636845 WO Mohi Chandra Sarma, Telst Rto, 12 Oct 2008

636956 WO Anand Veer, Telst Rto, 26 Apr 2008

637164 WO Om Prakash Singh, Telst Rto, 26 Apr 2008

637166 WO Jawahar Lal, Telst Rto, 26 Apr 2008

637283 WO Sanjay Kumar Yadav, Telst Rto, 26 Apr 2008

637425 WO Vishnu Dutt Bhardwaj, Telst Rto, 26 Apr 2008

637499 WO Shri Niwas Chauhan, Telst Rto, 26 Apr 2008

637689 WO Ganga Narayan Panigrahi, Telst Rto, 26 Apr 2008

637789 WO Madan Pal Singh, Telst Rto, 12 Oct 2008

637820 WO Ram Chandra Singh, Telst Rto, 12 Oct 2008

637908 WO Uma Shankar Sharma, Telst Rto, 26 Apr 2008

638805 WO Hari Mangal, Telst Rto, 26 Apr 2008

643738 WO Sudarshan Singh Yadav, Wpn Fit, 02 Nov 2007

657499 WO Amal Kumar Das, Wpn Fit, 02 Dec 2007

657555 WO Vinod Kumar Misra, Wpn Fit, 11 Apr 2007

657823 WO Ranjit Kumar Ghosal, Wpn Fit, 09 Apr 2007

658335 WO Vinod Kumar, Wpn Fit, 01 Jun 2007

658566 WO Wiresh Kumar Tiwari, Wpn Fit, 11 Apr 2007

658569 WO Ashok Prasad, Wpn Fit, 11 Apr 2007  
 658576 WO Deeleep Singh Jodha, Wpn Fit, 17 Apr 2007  
 658828 WO Ajit Kumar Pandey, Wpn Fit, 11 Apr 2007  
 658844 WO Ramesh Chandra Pandey, Wpn Fit, 11 Apr 2007  
 658855 WO Makhan Lal Dey, Wpn Fit, 01 Jun 2007  
 658865 WO Birma Ram Raika, Wpn Fit, 17 Apr 2007  
 659032 WO Mohender Singh Khatkar, Wpn Fit, 17 Apr 2007  
 659057 WO Dhananjay Kumar Singh, Wpn Fit, 13 Apr 2007  
 659424 WO Surendra Singh Maurya, Wpn Fit, 13 Apr 2007  
 659427 WO Vinod Kumar Srivastava, Wpn Fit, 13 Apr 2007  
 659485 WO Nakul Poddar, Wpn Fit, 01 Jun 2007  
 659525 WO Ashok Kumar, Wpn Fit, 01 Jun 2007  
 659714 WO Raj Mani Dubey, Wpn Fit, 17 Apr 2007  
 659988 WO Laxmidhar Parikshya, Wpn Fit, 09 Apr 2007  
 660038 WO Krishan Murari Sahu, Wpn Fit, 02 Jan 2008  
 660194 WO Ravi Prakash Pandey, Wpn Fit, 03 Jun 2007  
 660402 WO Chandra Shekher Tiwari, Wpn Fit, 02 Dec 2007  
 660733 WO Kaushalendra Tripathi, Wpn Fit, 02 Jan 2008  
 660774 WO Safi Alam, Wpn Fit, 02 Dec 2007  
 660990 WO Mohammad Mustafa, Wpn Fit, 02 Mar 2008  
 661694 WO Biswanath Das, Wpn Fit, 19 Apr 2007  
 661839 WO Sultan Mohamed Mydeen Basha, Wpn Fit, 09 Apr 2007  
 661879 WO Alakhdeo Ray, Wpn Fit, 19 Apr 2007  
 662004 WO Rajeev Kumar Gupta, Wpn Fit, 02 Feb 2008  
 662055 WO Inder Kumar Vaid, Wpn Fit, 02 Dec 2007  
 662204 WO Vijendra Kumar, Wpn Fit, 01 Jun 2007  
 662799 WO Ram Kewal, Wpn Fit, 01 Jun 2007  
 665021 WO Gopal Chandar Das, Wpn Fit, 19 Apr 2007  
 665024 WO Mahesh Pal, Wpn Fit, 19 Apr 2007  
 666490 WO Dibakar Khatua, Wpn Fit, 21 Apr 2007  
 666746 WO Vinay Kumar Yadav, Wpn Fit, 01 Jun 2007  
 668975 WO Shalender Singh Teotia, Wpn Fit, 01 Jun 2007  
 669845 WO Kamble Raghunath Hambir Rao, Wpn Fit, 01 Jun 2007

293239 WO Santosh Kumar Dexit, Ws Fit (B), 03 Apr 2009  
 641968 WO Ajoy Sen Gupta, Ws Fit (B), 05 Apr 2009  
 657305 WO Dukhharan Prasad, Ws Fit (B), 07 Apr 2009  
 658378 WO Kumud Ranjan Prasad Sinha, Ws Fit (B), 01 Apr 2009  
 643752 WO Braham Pal Singh Nadar, Ws Fit (C), 02 Oct 2008  
 657594 WO Tapan Sen, Ws Fit (C), 02 Oct 2008  
 657868 WO Pistaal Singh, Ws Fit (C), 02 Oct 2008  
 660730 WO Ashok Sharma, Ws Fit (C), 02 May 2008  
 644921 WO Pramod Kumar Sharma, Ws Fit (M), 02 Apr 2005  
 644923 WO Deo Bir Prasad Singh, Ws Fit (M), 04 Jul 2005  
 658274 WO Rabindra Panigrahy, Ws Fit (B), 01 Mar 2007

ANJALI SINGH  
 Dir  
 (Air-I)

#### ARMY BRANCH

No. 61, dated 19th January 2011—The President is pleased to promote Smt Nidhi Ojha, Section Officer (Group 'B' Gazetted) of AFHQ Civil Service as Deputy Director (Group 'A' Gazetted) under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules, 2001 in Pay Band-III, Rs. 15,600—34,800/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from 11 Jun 2009 to 31 Dec 2010 or till regular incumbents become available whichever is earlier.

The appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

There will be no claim for regular promotion/appointment on the basis of promotion granted under Rule 7(8) of AFHQ CSR 2001. The seniority in this Grade will be count towards his regular appointment i.e. Section Officer.

The Competent Authority is pleased to promote following Assistants (Group 'B' Non-Gazetted) of AFHQ Civil Service as Section Officer (Group 'B' Gazetted) under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules, 2001 in Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from and upto the date mentioned against their respective names or till retirement or till regular incumbents become available whichever is earlier :—

Name, Date of Birth Period From/To

I C Sharma, 14 Jun 1955, 19 Apr 2010/31 Mar 2011

S C Garg, 03 Jul 1955, 19 Apr 2010/31 Mar 2011



The appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

There will be no claim for regular promotion/appointment on the basis of promotion granted under Rule 7(8) of AFHQ CSR 2001. The seniority in this Grade will count towards his regular appointment i.e. Assistant.

A K LAROIYA  
Dy CAO (A)

(FINANCE DIVISION)

No. 62, dated 19th January 2011—The President is pleased to retire Shri Ashok Kumar, Section Officer, Ministry of Defence (Finance) from Government Service with effect from 31 Dec 2010 (AN) on attaining the age of superannuation.

P L JALWA  
Asstt Financial Adviser (E)

ARMY BRANCH

No. 63, dated 19th January 2011—On attaining the age of superannuation, the President is pleased to retire Smt S Chellam, Joint Director (In-situ) from Government service with effect from 31 Mar 2010 to and transferred to pension establishment with effect from 01 Apr 2010

On attaining the age of superannuation, the Competent Authority is pleased to retire following Section Officers from Government service and transfer to pension establishment against their respective names :—

Name, Date of retirement, Date of transfer to pension establishment

K N Chaturvedi, 31 Mar 2010, 01 Apr 2010

Satish Kumar, 31 Jul 2010, 01 Aug 2010

R L Takhi, 31 Jul 2010, 01 Aug 2010

Sushil Kumar, 31 Aug 2010, 01 Sep 2010

A K LAROIYA  
Dy CAO (A)

No. 64, dated the 20th January 2011—In supersession to this office notification of even no. dated 15 Dec 2009 & 26 Feb 2010 and in terms of Sections 5(1) and 19(1) of the Right to Information Act, 2005, the following modifications are made in the notification No. 283 dated 14 Jun 2008 amended from time to time :—

Name of the Central Public Information Officer with Designation & Tel. No.	Name of Appellate Authority with Design & Tel. No.	Subject Matter
1	2	3
Shri K Murali US, D(Est.I/Gp.I) Tel. No. 23012538	Shri Manish Pathak, Director (E), Tel. No. 23094369	All establishment and Administrative matters of gazetted officers of Ministry of Defence (Secretariat).
Smt. T P Kerketta US, D(Est.I/Gp.II) Tel. No. 23012846	-do-	All establishment and administrative matters of non-gazetted employees (other than Class-IV) of Ministry of Defence (Secretariat).
Shri S K Rastogi US, D(Est.2/Genl) Tel. No. 23015004	-do-	Payment of contingencies of RM/RRM/RURM. All Administrative matters of Class-IV employees, Residential accommodation of all officers (gazetted), Matters of general administration. Budget matters on office expenses/pay & allowances/TA/DA etc. Other works of the general nature.
Shri Angana Ram US, D(lab) Tel. No. 23012660	Shri Nitin Chayande, Director (CP), Tel. No. 23013416	Individual cases on disciplinary matters in respect of Defence Civilians working in the lower formations of Department of Defence only where President of India is the appointing authority, compassionate appointments of civilians in lower formations of Deptt. of Defence, voluntary retirement/resignation, transaction of movable/immovable properties for Groups 'A' & 'B' employees in lower formations.
Shri S S S Sarma US, D(Apptts) 23011449	-do-	Framing/amending of the Recruitment Rules (in case of Groups 'A' 'B', 'C' & 'D' posts). Direct recruitment to Groups 'A' & 'B' posts through UPSC. Promotion, to Groups 'A' & 'B' posts. Confirmation in Group 'A' posts and seniority. Change in the date of birth and reconstruction of service documents in respect of Groups 'A', 'B', 'C' & 'D' posts.
Shri S Shankar US, D(JCM) Tel. No. 23011260	-do-	All JCM matters for Defence Civilians working in the lower formations of the Ministry of Defence excluding employees of CSS/SCSS/CSSS/AFHQ cadres. Reconstitution of JCM II Level Councils and their periodical meetings. Reports and returns regarding number of SC/ST/OBC/Physically Handicapped in Central Govt. Service and other matters thereon. Strike matters.
Shri S Ashraf, US, (AG-I), Tel. No. 23017398	Shri Naveen Kumar, Dir (AG), Tel. No. 23014036	Statutory complaints-Policy of all ranks and individual cases of Army Officers on disciplinary matters. Court martial and disciplinary cases for all Army Officers/Personnel, Human Rights violation cases referred by NHRC pertaining to discipline.

1	2	3
Shri J Roy Choudhry, US, D(AG-II), Tel. No. 23018602	Shri Naveen Kumar, Dir (AG), Tel. No. 23014036	Recruitment, Terms & Condition of Service and Manpower Planning in Army, Recruitment Policy for Army Officers/personnel, Policy on grant of Honorary Rank/Commission to JCOs and NCOs, Policy on documentation and Records of Army officers, Policy on grant of Permanent Commission, Short Service, Commission, SL Commission and Inter Arms transfer, Policy on extension of tenure-SSC Officers, Policy on leave encashment of Army personnel, Opening of recruiting Offices/Branch Recruiting Offices (BROs)/Centers all over India, Policy matters relating to the fraud/irregularity in enrolment in Army.
Shri Paramjit Singh Walia US, D(Pay/Ser) Tel. No. 23012739	-do-	Matters pertaining to pay and allowances of Armed Forces Officers and personnel in India and Abroad; Claim for ex-gratia compensation arising out of traffic accident and other sorts committed by personnel of the Indian Army while on duty, Policy relating to payment of ex-gratia lump sum compensation to families of Defence Services personnel who die in harness. Policy on grant of Field Service Concessions to Service Officers/personnel, Policy and individual cases regarding disposal of estates of deceased <i>Army Officers</i> under the provisions of Army and Air Force (Disposal of Private Property) Act, 1950.
Shri A K Ghosh, U. Secy, D(Parl/ CR/Wel) Tel. No. 23012560	Shri S D Paul, Dir (Parl.) Tel. No.	Parliamentary work matters—Co-ordination, policy and procedures thereof. Work relating to Consultative Committees of Members of Parliament attached to the Ministry of Defence. Work arising from the recommendations made by the various Parliamentary Committees (excluding the Finance Committee) of Members of Parliament. Co-ordination work for supply of material for incorporation in the President's address to the two Houses of Parliament, Legislative and other proposals and brief for PMO before the commencement of each session of Parliament. Welfare activities in respect of staff employed in the Ministry of Defence Secretariat including Departments of Defence Production and R & D. Co-ordination of matters relating to welfare of minorities under the 15-point Programme.
Shri M S Sharma, US, D(Civ I/CMU) Tel. 23014675	Shri S S Mehra, DS (C+MIS) Tel. No. 23011681	Issues relating to Defence Civilian employees; Monitoring of court cases and contempt cases and other issues relating to court cases.
Mrs. D Ray, US, D (Civ-II) Tel. No. 23012414	-do-	Issues relating to Defence Civilian employees other than those dealt with in Civ. I Section.
Shri K K Daimary, US (O/M) Tel. No. 23013963	-do-	Office Procedure, record management, rationalization of work, Monitoring of VIP references, Allocation of work between Ministers, training of non-gazetted staff in the Ministry, Disputed references, Induction Material, RM's running trophy for the best organized sections in MOD.
Shri Raminder Singh Bhatia, DS(Air-II) Tel. No. 23012034	Shri R K Ghosh, Joint Secy & AM(Air) Tel. No. 23014944	Matters pertaining to Air Acquisition (Capital) wing in MOD.
Smt. Anjali Singh, Dir (Air-I) Tel. No. 23011872	Shri Subhash Chandra JS(G/Air) Tel. No. 23011410	All Matters relating to IAF except Capital Acquisition and Revenue Procurement.
Shri K L Nandwani, Dy Secy (MS) Tel. No. 23017523	-do-	Appointment of Principal Honorary/Honorary ADC/Military Secretary to the President. Grant of honorary rank to civilian/Army Officers. Deputation/extension of deputation and posting of officers of the rank of Maj Gen and above. Individual cases pertaining to permission to retired/released Army Officers to accept commercial employment of the rank of Maj Gen and above. Substantive promotion to the rank of Lieutenant General. Promotion to the acting rank of Brigadier and above. Change/verification of date of birth of Army Officers. Compulsory retirement for not passing Part 'D' Examination in respect of Army Officers. Permission for premature retirement/resignation/release of officers of the rank of Major General and above. Extension of service beyond the age of superannuation. Statutory complaints against ACR and supersession/seniority/promotion/posting. permission to go abroad to the officers carrying Reserve Liability. Regularisation of leave.
Shri Alok Srivastava, Director (Proc), Tel. No. 23011455	Shri Jatinderbir Singh, JS&AM (LS), Tel. No. 23015952	Cases related to the capital procurement for Artillery, Army Aviation Corps, Armoured Corps Air Defence Artillery, Q Mov(Plg) Infantry, Paramilitary (Special Forces), Central Monitoring Organization and Military Intelligence.
Shri Pankaj Gupta, Dy. Secy (GS-IV) Tel. No. 23019748	-do-	Cases related to the capital procurement for Signals & Electronics, Mechanised Infantry, EME and Engineers.

1	2	3
Shri R C Gupta, Dir (MC) Tel. No. 23018304	Shri Jatinderbir Singh, JS&AM (LS), Tel. No. 23015952	Monitoring of all foreign contracts within contractual provision as entered into by 'O' Wing and Acquisition Wing.
Shri Praveen Kumar, US (Ops)D/N-II Tel. No. 23011734	Shri D S Chawla, Dir (N-I), Tel. 23014563	Operational matters of the NHQ.
Shri Dibakar Mishra, US (MP)/(N-II), Tel. No. 23011734	-do-	Service matters of the civilian (Other than Gp. 'A'), Manpower cases of the Navy, Deputation & Training of Navy.
Shri Ashish Sharma, US (P/N-II), Tel. No. 23011734	-do-	All service matters of the Naval Officers.
Shri R P Singh, US(N-III), Tel. No. 23011734	-do-	All infrastructure project of Navy. Cases of the land Acquisition/release, immovable property, development of Andaman & Nicobar concerning Navy, civil work, Maintenance and extension of Naval Airport.
Shri K Sudhakaran, US, (N-IV) Tel. No. 23016099	Shri Sanjay Kumar Ohjha, Dir (N-II) Tel. No. 23012429	Revenue procurement cases of NHQ.
Shri T C Sharma, US, (CG) Tel. No. 23013858	-do-	All cases of the Coast Guard.
Shri N K Kashmira, US, D(O-II) Tel. No. 23012085	Shri ..... DS(O) Tel. No. 23010461	Establishment/administrative matters of ASC, EMR, Infantry Dte, mechanized forces and Army aviation, Policy on cases pertaining to disposal of surplus Defence stores and vehicles including issue of vehicles to MPs/VIPs, etc.
Shri S K Tanwar, US, (O-I) Tel. No. 23012770	-do-	Revenue Procurement of Engineering equipment for EME, PNVDs, spares for military equipments and armoured vehicles, ammunition.
Shri Pradeep Kumar, US, D(Mov) Tel. No. 23012962	Shri Anil Bahuguna, Dir (Q) Tel. No. 23011372	Cases pertaining to CSD, DSC, APS, Move Dte, OL Dte, WE Dte.
Shri A V Bagur, US(QS) Tel. No. 23013347	-do-	Cases pertaining to ASC, ST Dte, RVC, Military Farms, Signals Dte, Air Defence Artillery, Artillery, Pioneed Dte, OL Dte.
Shri Hari Singh, US (DMR&F) Tel. No. 26106225	-do-	Cases pertaining to DMR & F.
Shri K S Rana, US (Med) Tel. No. 23016684	D K Banerjee, DS (Med) Tel. No. 23793714	All matters related to DGAFMS.
Shri A M Manichan, US (IC-IV) Tel. No. 23011905	Shri Ashish Jain, Dir (IC-III) Tel. No. 23793835	Defence planning and International Cooperation.
Shri M L Meena, US (IT/Coord.) Tel. No. 23793681	Shri Muralidhar Pandey, Dir (Coord.) Tel. No. 23015187	In respect of subject matter allocated to him.
Shri S D Bhasor, US (Coord.) Tel. No. 23012729	-do-	In respect of subject matter allocated to him.
Shri V K Bhatia, Dy CDP, APO Tel. No. 23389603	Shri Brig R K Kohli, CDP Tel. No. 23384358	All matters relating to the procurement of Food Stuffs for Armed Forces.
Shri K B Nayyar, US (Vig.) Tel. No. 23012581	Shri P K Gupta, Dir (Vigilance), Tel. No. 23012304	Disciplinary cases having vigilance angle & Complaint cases in respect of MoD (other than DDP except for matters pertaining to Air HQ, DRDO, NDA and E-in-C's Branch. Vigilance clearance in respect of above officials. CBI cases being dealt by Special Cell. Grant of prosecution of sanction in respect of MoD (other than DDP).
Shri R K Verma, US (Vig) Tel. No. 23014067	-do-	Disciplinary cases having vigilance angle in respect of MoD (other than DDP for matters pertaining to Air HQ, DRDO, NDA. Vigilance clearance & complaint cases in respect of officials of above mentioned offices.

In case of the name of the Appellate authority at Sl. Nos. 26 till regular incumbent joins, the link officer or the officer who is entrusted the work of the above posts will be the deemed CPIO. Also in case, any of the officers mentioned in the notification has relinquished charge or is on training or on long leave, his link officer or the officer who has been entrusted with the charge will act as Central Public Information Officer/Appellate Authority till the regular incumbent takes charge.

CPIO & Appellate Authority of the subjects not covered above remains the same as in the earlier notifications on the subject.

K. MURALI  
Under Secy

## ARMY BRANCH

## CORRIGENDUM

No. 65, dated 20th January 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

## REGULAR ARMY

## THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

In the Ministry of Defence Notification No. 284, dated 11 May 2010 published in the Gazette of India Serial No. 23, dated 11 Jun 2010 under heading "Regular Army" Sub heading "Infantry and the The Mechanised Infantry Regiment" below :—

To be Naib Subedar

For

Hav Krishan Kumar (14917375F Now JC-421471P), 10 Nov 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 oct 2009 without effect on pay and allowances)

Read

Hav Krishan Kumar (14917375F Now JC-421471P), 10 Nov 2009\*

\*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 oct 2009 without effect on pay and allowances)

J ROY CHOWDHARY  
Under Secy